

विषयानुक्रमः

प्रकरणानि

पृष्ठानि

१ महाकाव्यानि-

(१) श्रीविनयचन्द्राचार्यविरचितः मादिनाथमहाकाव्यम्

१७७-२७८

२ न्यायग्रन्थाः-

(१) श्रीहरिभद्रसूरिविरचिताः स्वोपदेशिकासाहिताऽनेकान्तजयपताका

१४१-१५२

३ काशग्रन्थाः-

(१) श्रीहमचन्द्राचार्यविरचिताऽभिधानचिन्तामणिः स्वोपदेशिकासहितः

२५३-२६८

(२) वाचनाचार्यश्रीमाधुसुन्दरगणिविरचितः शब्दरत्नाकरः

१७-४८

४ निर्युक्तिग्रन्थाः-

(२) सिरीभद्रबाहुस्तामिद्विरद्रया आवस्ययनिज्जुताः

१-१६

उवाच भक्षयिष्यामि त्वामेवं राक्षसोऽवदत् ।
 अभीता साऽवदद् धैर्याद् मदीयं वचनं शृणु ॥२२०॥
 मृत्युभीरकृतार्थानां कृतार्थाया न मे भयम् ।
 मा मां संस्पृश, शापेन संस्पृशन् न हि नन्दसि ॥२२१॥
 धीरां वाचमिति श्रुत्वा तस्याः स रजनीचरः ।
 उवाच तुभ्यं तृष्टोऽस्मि किं करोमि ददामि किम्? २२२॥
 सोचे तुष्टस्तदाऽऽख्याहि कदा मे पतिसङ्गमः ? ।
 रक्षोऽवादीद् द्वादशाब्दे प्रवासदिवसाऽऽदितः ॥२२३॥
 समायातः स्वयं वेश्म पितुस्तव नलः किल ।
 मिलिष्यति ततः खेदं हृदये मा कृथा वृथा ॥२२४॥

(युगम्)

त्वं चेद् भणसि त्वत्तातसदनेऽथ नयाम्यहम् ।
 सोचे सहाऽन्यपुंसाऽहं न यामि स्वस्ति तेऽस्तु तत् २२५
 आविष्कृत्य निजं रूपं यथागतमथागमत् ।
 जग्राहाऽभिग्रहानित्थं भैमी द्वादशहायनीम् ॥२२६॥
 विकृती रक्तवासासि ताम्बूलं च विलेपनम् ।
 भ्रूषां च न ग्रहीष्यामि नलस्य मिलनावधेः ॥२२७॥
 गिरिदर्या तदाऽत्येतुं प्रावृषं भैम्यवास्थित ।
 बिम्बं श्रीशान्तिनाथस्य निर्ममे मृण्मयं स्वयम् ॥२२८॥
 स्वयमानीय पुष्पाणि तत्पूजयति भीमजा ।
 तपःप्रान्ते च कुरुते पारणं प्राशुकैः फलैः ॥२२९॥
 भैमीमपश्यन् सार्थेशोऽप्यागादनुपदं तदा ।
 अर्हद्बिम्बं पूजयन्तीं तां दृष्ट्वा मुमुदे हृदि ॥२३०॥
 तां नत्वा धरणीपृष्ठे निविष्टो भीमजाऽपि तम् ।
 विधाय स्वागतप्रश्नं सार्थनाथमवार्तयत् ॥२३१॥
 तापसास्तत्र चाऽऽजग्मुः केऽपि चासन्नवासिनः ।

तस्युस्तथोन्मुखा अब्दशब्दं श्रुत्वेव केकिनः ॥२३२॥
 अनवच्छिन्नमम्भोभिरम्भोऽम्भोदस्तथाऽमुचत् ।
 तापसाश्च मिथः प्रोचुः क्व वृष्टिर्वञ्च्यतामसौ ॥२३३॥
 त्रस्तांस्तान् वीक्ष्य भैम्युचे हंहो ! मा भैष्ट तापसाः ! ।
 कुण्डं तत्परिधौ कृत्वेत्युवाच च सतीतमा ॥२३४॥
 सती यद्यस्मि तत्कुण्डादन्यतोऽब्दः प्रवर्षतु ।
 तयेत्युक्ते तृणच्छन्न इव कुण्डेऽम्बु नाऽपतत् ॥२३५॥
 वर्षत्यब्दे तथा शैलः सर्वतो निर्जरोऽभवत् ।
 उपत्यका गिरेर्निरपूरेणेव च निर्मिता ॥२३६॥
 तेऽध्यायन् रूपशक्तिभ्यां भात्यसौ देवतेव नः ।
 पप्रच्छ सार्थवाहस्तां को देवः पूज्यते त्वया ? ॥२३७॥
 तस्मै भैम्याऽऽख्यदर्हन्तं सर्वज्ञं त्रिजगद्गुरुम् ।
 पूजयन्त्यहमस्म्यत्र श्वापदेभ्यो विभेमि न ॥२३८॥
 स्वरूपमर्हतो धर्ममार्हतं च दयापरम् ।
 सार्थवाहाय साऽऽख्यौ स च तं प्रत्यपद्यत ॥२३९॥
 निजधर्मविरागेण तं धर्मं तापसा अपि ।
 प्रत्यपद्यन्त, को रत्नलाभे काचं न हि त्यजेत् ? ॥२४०॥
 सार्थवाहः पुरं तत्र तापसानां प्रबोधतः ।
 आख्यया तापसपुरमिति ख्यातं विनिर्ममौ ॥२४१॥
 कृतार्थीकर्तुमर्थं स्वं स सार्थेशः समर्थधीः ।
 अर्हतः शान्तिनाथस्य तत्र चैत्यमचीकरत् ॥२४२॥
 सार्थतापसलोकोऽस्थात् तत्राऽर्हद्धर्मकर्मटः ।
 निशीथे त्वन्यदा भैमी तेजोऽपश्यच्छिलोच्चये ॥२४३॥
 आगच्छतो गच्छतश्चाऽद्राक्षीद् देवाऽसुरानपि ।
 तत्तथाऽपश्यदुत्पश्यः पुरलोकोऽपि त्रिसितः ॥२४४॥
 सवणिकृतापसा भैमी समारूढाऽय पर्वतम् ।
 मुनिं केवलिनं तत्राऽपश्यच्च सुरसेवितम् ॥२४५॥

तं चन्दित्वा तदीयांऽहिमूले न्यषददादरात् ।
 यशोभद्रगुरुस्तस्य तं नत्वा स्थितवान् पुरः ॥२४६॥
 सिंहकेसर्यपि ज्ञानी कारुण्यक्षीरसागरः ।
 चकार देशनां क्लेशनिर्नाशनमहौषधीम् ॥२४७॥
 दुष्प्रापं प्राप्य मानुष्यं कार्यं सफलमादरात् ।
 देवपूजादयादानधर्मकर्मविधानतः ॥२४८॥
 धर्ममाख्याय स ज्ञानी प्रोचे कुलपतिं ततः ।
 भैम्या यः कथितो धर्मः स विधेयः सदा हृदि ॥२४९॥
 अनया हि तदा रेखाकुण्डे वारिधरो धृतः ।
 अस्याः सतीत्वात् सांनिध्यं कुर्वते देवता अपि ॥२५०॥
 सार्थेशस्याऽस्य सार्थश्च स्तनेभ्यो रक्षितोऽनया ।
 तदियं नान्यथा ब्रूते ददन्ती महासती ॥२५१॥
 तदा च कश्चिदागत्य ततः केवलिनं नतः ।
 भैमीमुवाच भद्रेऽस्मिन् वनेऽहं तापसोऽभवम् ॥२५२॥
 कर्परो नामतः सोऽहं पञ्चाग्नितपसोत्कटः ।
 वचसाऽपि न सानन्दं तापसाः किं नु मां व्यधुः ? २५३
 निर्गतोऽहमहंकारात् तत्संत्यज्य तपोवनम् ।
 गच्छन् समुत्सुको रात्रौ पतितोऽस्म्यद्रिकन्दरे ॥२५४॥
 गिरिदन्तास्फालितस्य दन्ताः सर्वेऽपि मेऽपतन् ।
 सप्तरात्रं स्थितो वार्तामपि चक्रुर्न तापसाः ॥२५५॥
 गते मय्यभवत् तेषां सुखं प्रत्युत मे ततः ।
 तेषामुपरि कोपोऽभूद् गिरिदाहसहोदरः ॥२५६॥
 ज्वलत्कोपेन मृत्वाऽहमिहारण्येऽभवं फणी ।
 त्वां दंष्टुं धावितोऽपाठि नमस्कारस्त्वयाऽनघे ॥२५७॥
 कर्णाऽऽगतेन तेनाऽहं जाङ्गल्येवान्यतोऽगमम् ।
 भेकादिजीवाहारेण जीवामि च विले स्थितः ॥२५८॥
 अन्यदेत्थं कथ्यमानं त्वयाऽश्रौषमहं शुभे ! ।

अर्हन् देवो गुरुः साधुजैनो धर्मो नलः पतिः ॥२८६॥
 तच्छ्रुत्वाऽस्या महासत्या वचनं तां प्रणम्य च ।
 क्षणादन्तर्दधे स्वप्नसमायातेव राक्षसी ॥२८७॥
 यान्त्यग्रे निर्जलामेकां नदीमैक्षत भीमजा ।
 तृपासंशुष्यत्ताल्वंाष्टी गतनिष्ठीवनाऽवदत् ॥२८८॥
 मम चेद् मानसं सम्यक् सम्यग्दर्शनवासितम् ।
 तदत्र लोलकलोलविमलं जलमस्त्विति ॥२८९॥
 इत्युक्त्वा पार्ष्णिना हत्वा भूतलं तत्क्षणाज्जलम् ।
 आचर्कप पपौ तच्च पीयूषपरिपेशलम् ॥२९०॥
 ततो यान्ती परिश्रान्ता न्यग्रोधाऽधो न्यविक्षत्र ।
 पान्थाः सार्थाऽऽगता दृष्ट्वा तामूचुः काऽसि सुन्दरि ! ॥२९१॥
 सोचे सार्थात् परिभ्रष्टा निवसामि वने नहृ ।
 यास्यामि तापसपुरं तद्वर्त्म मम कथ्यताम् ॥२९२॥
 ते प्रोचुः शक्नुमो नैव मार्गं दर्शयितुं त्रयम् ।
 आयान्तीं सह शृङ्गीमस्त्वां कापि हि पुरे पुनः ॥२९३॥
 तां तैः सह गतां सार्थे सार्थेशः करुणाम्बुधिः ।
 धनदेवाधिपोऽपृच्छत् काऽसि किं वनवासिनी? ॥२९४॥
 भैम्याऽऽरुयद् वणिजः पुत्री पत्या सह पितुर्गृहे ।
 चलिता शयिता रात्रौ त्यक्ता तेनाऽस्मि दैवतः ॥२९५॥
 स्वबन्धुभिरिवैभिश्च त्वदीयपुरुषैः समम् ।
 समायातास्मि तत्कापि स्थाने वसति मां नय ॥२९६॥
 सार्थनाथोऽवददहं गन्ताऽचलपुरे वरे ।
 वत्से ! सह मया गच्छ जनकेनेव निर्भया ॥२९७॥
 इत्युक्त्वा तां सार्थनाथो यानस्थामनयत्यधि ।
 एकस्मिन्नद्रिकुञ्जे च संनिवेशं न्यवीविशत् ॥२९८॥
 भैमी तत्र स्थिता सुप्ता निशि शुश्राव केनचित् ।
 पठ्यमानं नमस्कारं सार्थवाहमुवाच तु ॥२९९॥

नमस्कारं पठन् कश्चिच्छ्राद्धः साधर्मिको मम ।
 पार्श्वेऽस्य सोदरस्येव गच्छामि भवदाज्ञया ॥३००॥
 सार्थेशेन स्वपित्रेव सह भैमी तदाश्रयम् ।
 ययौ श्राद्धमपश्यच्च कुर्वाणं चैत्यवन्दनम् ॥३०१॥
 आचैत्यवन्दनं तत्र तस्युषी नलवल्लभा ।
 ददर्श च ववन्दे च विनीलं विम्बमर्हतः ॥३०२॥
 अपृच्छद् भीमजा भ्रातर्विम्बं कस्यैतदर्हतः ? ।
 स आख्यद् यामे ! श्रीमल्लेस्तीर्थपस्य भविष्यतः ॥३०३॥
 एतद्विम्बं पूजयामि यतस्तत्कारणं शृणु ।
 काञ्चीपुर्यां वणिगस्मि ज्ञानी तत्रैकदाऽऽगमत् ॥३०४॥
 धर्मगुप्ताभिधस्तत्रोद्याने स समवासरत् ।
 नत्वाऽप्रच्छि मया कस्मिंस्तीर्थे मे निर्वृतिर्विभो ! ॥३०५॥
 सोचे च त्वं दिवश्च्युत्वा मिथिलानगरीश्वरः ।
 प्रसन्नचन्द्रो भूत्वा श्रीमल्लितीर्थे हि सेत्स्यसि ॥३०६॥
 ततः प्रभृत्यहं मल्लिनाथे भक्तिभरोद्भुरः ।
 पटस्थं पूजयाम्येतद्विम्बं धार्मिकसत्तमे ! ॥३०७॥
 इत्याऽऽख्यायाऽवदद् भैमीं स्वसः ! का त्वं कुतोऽसि वा ? ।
 तस्मै श्राद्धाय वृत्तान्तमस्याः सार्थाधिपोऽवदत् ॥३०८॥
 श्रावकोऽपि हि तद्दुःखदुःख्यूचे मा कृथाः शुचम् ।
 सार्थेशस्ते पिता भ्राता चाहं तिष्ठ सुखेन तत् ॥३०९॥
 सार्थनाथोऽपि हि तत्प्रातः प्राप्तोऽचलपुरे पुरे ।
 मुक्त्वा भीमसुतां तत्र जगाम स्वयमन्यतः ॥३१०॥
 तृपातुरा पुरद्वारवापीमध्यं विवेश च ।
 लक्ष्यमाणाऽम्बुहर्त्रीभिः सा साक्षादिव देवता ॥३११॥
 वामं तस्याः क्रमं गोधा जग्राह जलमध्यगम् ।
 त्रिर्नमस्कारपठनप्रभावेण मुमोच च ॥ ३१२ ॥
 प्रक्षाल्याऽऽस्यक्रमकरं वारि हारि निपीय च ।

निर्गत्य वाप्यास्तत्प्रान्तवलभ्यां सां न्यविक्षता ॥३१३॥
 तत्र राद् ऋतुपर्णोऽस्ति तस्य चन्द्रयशाः प्रिया ।
 तत्कुम्भदास्य आनेतुं वारि वाप्यां समागमन् ॥३१४॥
 मिथो हसन्त्यो विभ्रत्यः स्वमूर्धमुकुटान् कुटान् ।
 तास्तां निरूपयामासू रूपतो देवतामिव ॥३१५॥
 असरूपं च रूपं च वीक्षमाणाः शनैः शनैः ।
 विविशुश्च निरीयुश्च निर्निमेषविलोचनाः ॥३१६॥
 चेष्योऽथ कथयाञ्चकुर्गत्वा परमया मुदा ।
 तां देव्यै चन्द्रयशसे प्राप्तां कल्पलतामिव ॥३१७॥
 ऊचे चन्द्रयशाश्चेटीः समानयत तामिह ।
 चन्द्रवत्याः सुताया मे भविता भगिनीव सा ॥३१८॥
 वापीसमीपे यातास्ता नगराभिमुखीं ततः ।
 वीक्षामासुर्भीमसुतां मूर्तामब्धिसुतामिव ॥३१९॥
 ऊचुश्च, ऋतुपर्णस्य देवी चन्द्रयशोऽभिधा ।
 त्वामाह्वयति पुत्रीत्वस्नेहमादधती हृदि ॥३२०॥
 तद् देहि दुःखं दुःखेभ्यः स्वामिनीसविधे चल ।
 छलं ते शून्यचित्ताया भूतादिभ्योऽन्यथा भवेत् ॥३२१॥
 इति तद्वचसाऽचालीदालीढा स्नेहतन्तुभिः ।
 ताभिर्विनीतवाक्याभिर्भूपावासमनीयत ॥३२२॥
 न चन्द्रयशसं मातृष्वसारं वेत्ति भीमजा ।
 वाल्यदृष्टां भागिनेर्यां देवी चन्द्रयशा अपि ॥३२३॥
 दूरतोऽपि परं धर्मपुत्रीमेष्णा ददर्श ताम् ।
 इष्टेऽनिष्टे च यद् रागविरागौ तनुते मनः ॥३२४॥
 गाढं चन्द्रयशोदेव्या सस्वजे नलवल्लभा ।
 वैदर्भीं तु व्रवन्दे तत्पादौ विनयवामना ॥३२५॥
 पृष्टा देव्या च काऽसि त्वं कथयामास भीमजा ।
 यत्पुरा सार्धनाथाय तदेव हि सवाप्पदक् ॥३२६॥

देवी भैमीमुवाचाऽथ भद्रे ! मम निकेतने ।
 पुत्री चन्द्रवतीव त्वं सुखं तिष्ठ शुभार्शये ! ॥३२७॥
 देवी चन्द्रवतीमूचेऽन्यदा भैमीव भात्यसौ ।
 कथमीदृगवस्था स्यात् तस्याः सा हि नलप्रिया ! ॥३२८॥
 योजनानां शते सार्धे तस्या आगमनं कुतः ? ।
 ततो मदीयजामेयी नेयं, सादृश्यमस्ति तु ॥ ३२९ ॥
 सा च राज्ञी चन्द्रयशा ददौ दानं निरन्तरम् ।
 दीनदुःस्थितपात्रेभ्यो नगरस्य बहिर्भुवि ॥ ३३० ॥
 राज्ञी व्यज्ञपि वैदभ्याऽन्यदा दानं ददाम्यहम् ।
 अत्र सत्रे कुतोऽप्येति पतिर्यदि पुनर्मम ॥ ३३१ ॥
 तदाऽऽद्यपि तदादेशाद् दवदन्ती यथास्थिति ।
 ददौ दानं खेदसहा नलाऽऽगमनवाञ्छया ॥ ३३२ ॥
 सा प्रत्येकमपृच्छच्चाऽनुदिनं दानवाञ्छिनम् ।
 ईदृगीदृक् पुमान् कोऽपि भवद्भिः काऽप्यदृश्यत ? ॥३३३॥
 सत्रस्था सान्यदा चौरमपश्यत् तलरक्षकैः ।
 वद्धं पुरो नीयमानं रसद्विरसद्विण्डिमम् ॥३३४॥
 तलाध्यक्षानपृच्छच्च भीमजाऽनेन कीदृशः ।
 अपराधोऽत्र विदधे वध एवंविधोऽस्य यत् ? ॥३३५॥
 चन्द्रवत्या जहारैष पापो रत्नसमुद्रकम् ।
 तेनासौ कर्मणा वध्यभूमिकां देवि ! नीयते ॥३३६॥
 चौरो भैमीं प्रणम्योचे त्राणं स्वामिनि ! मे भव ।
 भैम्यप्यभयदानेनाऽभ्यनन्दत् तं मलिम्लुचम् ॥३३७॥
 सतीत्वश्रावणापूर्वं त्रिर्जलाच्छोटनेन सा ।
 तद्दन्धांस्त्रोटयाञ्चक्रे तुमुलश्चोत्थितो महान् ॥३३८॥
 तच्छ्रुत्वा ऋतुपर्णोऽथ जगाम सपरिच्छदः ।
 विस्मितः सस्मितं भैमीमवदद् वदतां वरः ॥३३९॥

सर्वत्र क्षत्रधर्मोऽयं नीतिमार्गप्रवर्तकः ।
 कार्ये यद् भूभुजा दुष्टशिष्टनिग्रहपालने ॥३४०॥
 करं हि गृह्णता राज्ञा रक्ष्यः सर्वोऽप्युपद्रवः ।
 अन्यथा तेन पापेन लिप्यते भूपतिः स्वयम् ॥३४१॥
 पुत्रि ! चेदस्य चौरस्य निग्रहं न करोम्यहम् ।
 तन्निर्भयो जनः सर्वः सर्वस्वं हरति द्रुतम् ॥३४२॥
 भैम्युचे तात ! मद्दृष्टौ चटितः सन् शरीरभृत् ।
 मार्येत परमार्हत्यास्तन्मे कीदृक् कृपालुता ? ॥३४३॥
 तदयं क्षम्यतां मन्तुर्यन्मां शरणमाश्रितः ।
 धर्मपुत्र्या वचनेन तं स्तेनममुचद् नृपः ॥३४४॥
 मुक्तमात्रः स तां मेने जननीं नतमस्तकः ।
 प्राणदानोपकारं तं स्मरन्नित्यं नमोऽकरोत् ॥३४५॥
 भैमी तमन्यदाऽपृच्छत् कोऽसि त्वं कुत आगतः ? ।
 स ऊचे तापसपुरे वसन्तस्याऽस्मि कर्मकृत् ॥३४६॥
 पिङ्गलो नामतः सोऽहं व्यसनस्यैकमन्दिरम् ।
 जग्राह खात्रखननात्तस्य सर्वस्वमन्यदा ॥३४७॥
 मार्गे गच्छन् सलोप्त्रश्च लुण्ठकैर्लुण्ठितोऽस्म्यहम् ।
 स्वगुरुस्वामिमित्रस्त्रीद्रोहिणं कुशलं कियत् ? ॥३४८॥
 अत्राऽऽगत्यर्तुपर्णं च सेवमानः कुधीरहम् ।
 अपश्यमन्यदा रत्नसमुद्रमहरं ततः ॥३४९॥
 स्वमाच्छाद्योत्तरीयेण निर्गच्छन् भूभुजा स्वयम् ।
 विज्ञातोऽस्मि न हि प्रज्ञावतामज्ञातमस्ति किम् ॥३५०॥
 नृपादेशात्तलाभ्यर्क्षर्वद्धोऽथ वधहेतवे ।
 नीयमानस्त्वामपश्यं मोचितोऽस्मि त्वयाऽनघे ॥३५१॥
 किञ्च तापसनगराद्गतायामीश्वरि ! त्वयि ।
 श्वरार्ते इव तत्याज भोजनं सार्थनायकः ॥३५२॥

संबोधितो यशोभद्रसूरिणा स कथंचन ।
 सप्तरात्रोपवासान्ते बुभुजे सपरिच्छदः ॥ ३५३ ॥
 वसन्तश्चान्यदा देवि ! गतः कूबरभूपतिम् ।
 ढौकनस्य ढौकनेन तुष्टोऽस्मै नरनिर्जरः ॥ ३५४ ॥
 दत्त्वा छत्रादिकं चक्रे तं तापसपुरेश्वरम् ।
 वसन्तः श्रीशेखर इत्यभिधां चापि भूपतिः ॥ ३५५ ॥
 विसृष्टो भूभुजा भम्भापिकीस्वरविकस्वरः ।
 वसन्तपुरमायासीज्जनचित्तद्रुतोषकृत् ॥ ३५६ ॥
 भवदीयप्रसादेन ददन्ति ! महासति ! ।
 राज्यं प्रकुरुते प्राज्यं स तापसपुरेश्वरः ॥ ३५७ ॥
 भैम्यूचे निजदुष्कर्मर्मभेदनकर्मठम् ।
 व्रतं गृहाण सोऽप्यूचे करिष्ये तव भाषितम् ॥ ३५८ ॥
 तत्रायातं साधुयुग्मं प्रतिलम्भ्य च भीमजा ।
 अवादीद्यद्यं योग्यस्तदस्मै दीयतां व्रतम् ॥ ३५९ ॥
 तेन योग्य इति प्रोक्ते ययाचे पिङ्गलो व्रतम् ।
 सद्यो देवगृहे नीत्वा प्रव्रज्यां ग्राहितश्च सः ॥ ३६० ॥
 अन्यदा कुण्डिनैशेनाऽश्रावि यन्नलभूपतिम् ।
 राज्यं द्यूते हारयित्वा कूबरो निरवासयत् ॥ ३६१ ॥
 स विवेश महारण्ये ददन्त्या सहैव हि ।
 मृतो जीवति वा नैवं ज्ञायते काऽप्यसौ गतः ॥ ३६२ ॥
 पुष्पदन्त्यपि राज्ञी तं श्रुत्वा भीमरथाद् नृपात् ।
 अरोदीद्रोदयन्ती सा रोदसीं प्रगुरुस्वरम् ॥ ३६३ ॥
 ततो भीमरथो राजा हरिमित्राभिधं बहुम् ।
 निदिदेश प्रतिदिशं तयोः शुद्धिनिबन्धनम् ॥ ३६४ ॥
 सर्वत्र शोधयंस्तौ तु सोऽथाऽचलपुरे ययौ ।
 अपश्यद् भूपतिं चन्द्रयशसाऽप्रच्छि चाऽऽदरात् ॥ ३६५ ॥
 कच्चित् सपरिवारायाः कुशलं मामकस्वसुः ? ।

सोऽर्वाचत्कुशलं देव्या नलभैम्योस्तु चिन्त्यताम् ॥३६६॥
 किं ब्रवीपीति भणितो देव्या वाक्यपदुर्वदुः ।
 द्यूतप्रभृतिकां कर्णव्यथिकां न्यगदत् कथाम् ॥३६७॥
 ततश्चन्द्रयशा देवी रुदती तत्र संसदि ।
 नेत्रयोः कज्जलमिव प्रमोदं निरवासयत् ॥ ३६८ ॥
 तत्सर्वं दुःखितं प्रेक्ष्य बुभुक्षाक्षामकुक्षिकः ।
 वदुः सत्रं ययौ यस्माद् भोज्यं हि प्रथमं फलम् ॥३६९॥
 निविष्टस्तत्र भोज्याय भोज्यशालाधिकारिणीम् ।
 निजस्वामिसुतां वीक्ष्य तामुपालक्षयच्च सः ॥३७०॥
 ववन्दे चरणौ देव्याः स्फुरद्रोमाञ्चक्रञ्चुकः ।
 विकासिनयनाम्भोजो विस्मृतक्षुदुवाच च ॥३७१॥
 केयं तव दशा देवि ! दवान्तर्गततेरिव ? ।
 यत् सूत्रयसि सत्रेऽत्र कर्म कर्मकरोचितम् ॥३७२॥
 दिष्ट्या दृष्टिपथं याता जीवन्तीत्यभिधाय सः ।
 उत्थायाऽवर्धयच्चन्द्रयशोदेवीमवीतधीः ॥ ३७३ ॥
 अस्ति स्वस्तिमती दानशालायां देवि ! भीमजा ।
 सत्रेऽङ्गुष्ठसमुत्कण्ठाऽऽयाता चन्द्रयशास्ततः ॥३७४॥
 देवी चन्द्रयशा भीमनन्दिनीं नेत्रनन्दिनीम् ।
 आगिश्लेष चिरायातनलिनीमलिनी यथा ॥३७५॥
 ऊचे च वत्से ! सुव्यक्तैर्लक्षणैर्लक्षिताऽपि हि ।
 नैवोपलक्षिताऽसि त्वं धिग् मामज्ञानवञ्चिताम् ॥३७६॥
 त्वयापि हि कथङ्कारं वञ्चितास्मि गतस्मये ! ।
 दुर्दशायामागतायां का लज्जा मातृमन्दिरे ? ॥३७७॥
 वत्से ! नलस्त्वया मुक्तस्त्वं मुक्ताऽसि नलेन वा ? ।
 तेन त्यक्ताऽसि, तं तु त्वं महासति ! न मुञ्चसि ॥३७८॥
 त्वं चेत् त्यजसि दुर्देवादवस्थापितं पतिम् ।
 ततः सुधारुचेर्विम्बान्कृशानुकणवर्षणम् ॥ ३७९ ॥

किमेष नैषधेर्धर्मस्तत्कुले वा कुलीनता ? ।
 महासती प्रिया मार्गे त्यज्यतेऽलज्जचेतसा ॥३८०॥
 तव दुःखानि गृह्णामि कुर्यां भ्रामणकं तव ।
 मम मन्तुं क्षमस्त्वनं यन्मया नोपलक्षिता ॥ ३८१ ॥
 तमोविधुन्तुदच्छेदः कृष्णपक्षनिशास्वपि ।
 क्व वा विशेषको बाले ! तव भाले सहोद्भवः! ॥३८२॥
 इत्युक्त्वा स्वमुखाम्भोजनिष्ठीविनजलेन सा ।
 भैम्या ललाटं मार्ष्टि स्म जघ्नौ मूर्ध्नि पुनः पुनः ॥३८३॥
 शशीवाम्भोदनिर्मुक्तः प्रदीप इव बोधितः ।
 विशेषको विशेषेण तत्क्षणं दिद्युते द्युता ॥ ३८४ ॥
 ततश्चन्द्रयशा देवी स्वपाणिभ्यां नलप्रियाम् ।
 गन्धोदकैरस्त्रपयत् तां साक्षादिव देवताम् ॥३८५॥
 वसने श्वेतमसृणे चन्द्रिकानिर्मिते इव ।
 देव्या समर्पिते भैमी ततः परिदधे मुदा ॥ ३८६ ॥
 देवी करे गृहीत्वा तां निषसाद् सदस्यथ ।
 ऋतुपर्णान्तिकेऽयासीत् तदा चास्तं गतो रविः ॥३८७॥
 तदा च तमसाऽपूरि निःशेषमपि पुष्करम् ।
 वर्षासु वारिपूरेण वामलूर इवाधिकम् ॥३८८॥
 सभायां भूपतेर्नैव प्रविवेश तमीतमः ।
 वारितं भीमजापुण्ड्रतेजोभिर्वेत्रिभिर्यथा ॥ ३८९ ॥
 उवाच राजा यातेऽस्तं पद्मिनीप्राणवल्लभे ।
 दीपिकाया अभावेऽपि देवि ! कौतस्कुती द्युतिः! ॥३९०॥
 राज्ञी जन्मोद्भवं भैम्यास्तिलकं तद्दर्शयत् ।
 कौतुकात् तत् प्यधाद्राजा सैदश्च तिमिरं तदा ॥३९१॥
 दूरेकृत्य ततः पाणिमृतुपर्णनरेश्वरः ।
 पप्रच्छ पितृवद्राज्यभ्रंशप्रभृतिकां कथाम् ॥३९२॥

दवदन्त्यपि हि श्रुतादारभ्याऽकथयत्कथाम् ।
 निजनेत्रपयःपूरैस्तन्वन्ती पङ्किलामिलाम् ॥३९३॥
 राजा निजोत्तरीयेण तस्याः संमार्ज्यं लोचने ।
 उवाच वत्से ! मा रोदीः कश्चिद्दैवाद्भली न हि ॥३९४॥
 अत्रान्तरे सुरः कश्चित् स्वर्गादागत्य संसदि ।
 तत्रोचे भीमतनयां विनयाद् रचिताञ्जलिः ॥ ३९५ ॥
 स्वामिन्यहं तवादेशात्तस्करः पिङ्गलाह्वयः ।
 प्रव्रज्य विहरन् यातः श्रीतापसपुरेऽन्यदा ॥३९६॥
 श्मशानमध्ये माध्यस्थ्येनाऽस्थां प्रतिमया ततः ।
 चितानलोऽनिलोद्धूतो महेहमदहत् तदा ॥ ३९७ ॥
 तथापि धर्मध्यानस्थो विधायाऽऽराधनामहम् ।
 पिङ्गलो नामधेयेनाऽजनि स्वर्गे सुरोत्तमः ॥ ३९८ ॥
 त्वां नन्तुमागतो ज्ञात्वाऽत्रधिज्ञानाद् महासति ! ।
 त्वयाऽस्मि रक्षितः साक्षात् शिक्षितो दीक्षितोऽस्म्यहम् ॥
 तत्र पादप्रसादेनाऽऽसदं स्वर्गसदां पदम् ।
 इत्युक्त्वा स्वर्णकोटीः स सप्त वृष्ट्वा तिरोदधे ॥४००॥
 तच्छ्रुत्वा चाद्भुतं भूपः सप्रत्ययमनत्ययम् ।
 अधर्ममर्मव्यथकं प्रपेदे धर्ममार्हतम् ॥ ४०१ ॥
 हरिमित्रोऽन्यदा चन्द्रयशसा सहितं नृपम् ।
 अनुज्ञाप्याऽनयद् भीमतनयां कुण्डिनं प्रति ॥४०२॥
 आगच्छन्तीं सुतां श्रुत्वाऽभ्यागमद् भीमभूपतिः ।
 वाजिना वायुवाजेन स्नेहेन च पुरस्कृतः ॥ ४०३ ॥
 आयान्तं पितरं वीक्ष्य भैमी चरणचारिणी ।
 तत्पटाम्भोजयोः स्मेरमुखाम्भोजाऽपनत्ततः ॥४०४॥
 तयोर्मिलितयोर्नेत्रनीरैः प्रसृमरैस्तदा ।
 भूरिपद्माऽभवद् भूमिः पयोदसमये यथा ॥ ४०५ ॥
 पप्पदन्ती तदायातां द्रवदन्तीं निजाद्भुजाम् ।

आश्लिष्यति स्म सुदृढं राजहंसीव पद्मिनीम् ॥४०६॥
 मुक्तकण्ठं च तत्कण्ठे लगित्वाऽरुददुच्चकैः ।
 नलप्रिया, भवेद् दुःखमिष्टे दृष्टे नवं यतः ॥ ४०७ ॥
 प्रक्षाल्य नयनान्युच्चैर्वारिणा विनिवारणम् ।
 चक्रुः परस्परं दुःखसमुद्भिरणपूर्वकम् ॥ ४०८ ॥
 पुष्पदन्ती सुतामङ्गमधिरोप्य जगाद च ।
 दिष्ट्या दृष्टाऽद्य जीवन्ती भाग्यं नोऽद्यापि वर्तते ॥४०९॥
 समयं गमयन्त्यास्ते सुखेन न चिरादपि ।
 मिलिष्यति नलः सर्वं जीवो जीवँल्लभेत हि ॥४१०॥
 हरिमित्राय भूपालो ग्रामपञ्चशतीं ददौ ।
 पुरे तत्रोत्सवं चक्रे देवगुर्वर्चया समम् ॥ ४११ ॥
 विदर्भाधिपतिः प्रोचे वैदर्भीमथ सादरम् ।
 नलो मिलिष्यति यथा तथा वत्से ! विधास्यते ॥४१२॥
 तदा च भीमजां मुक्त्वा परिभ्राम्यन् वने नलः ।
 कक्षात् समुत्थितं धूमपश्यद् गगनातिगम् ॥४१३॥
 धूमो निमेषमात्रेणाप्यभूत् कीलाकरालितः ।
 वने समुद्यत्कुसुमकिंशुकौघभ्रमप्रदः ॥ ४१४ ॥
 दह्यमानेषु वंशेषु क्रीडत्सु स्वापदेषु च ।
 शब्दाद्वैतमभूत् तत्र कल्पान्तभ्रान्तिकृत्तदा ॥४१५॥
 नला दवानले दीप्तेऽथाऽश्रौषीत् पुरुषस्वरम् ।
 रक्ष मां नलभूपालेक्ष्वाकुवंशसमुद्भव ! ॥ ४१६ ॥
 अकारणोपकर्तारः सन्ता यदि तदाऽपि हि ।
 उपकारं करिष्यामि तुभ्यमभ्यधिकं नृप ! ॥ ४१७ ॥
 मार्गणः शब्दवेधीव तं शब्दमभिजग्मिवान् ।
 वदन्त रक्षरक्षेत्यद्राक्षीत् सर्पं तदन्तरे ॥ ४१८ ॥
 नलोऽपृच्छत् कथं वेत्सि मम नामान्वयौ ननु ? ।

कुतो वा मानुषी भाषा तवेयं नयनश्रवः ! ? ॥४१९॥
 स आख्यद्वधिज्ञानात्सर्वं विदितमेव मे ।
 प्राग्भवे मनुजोऽभूवं तेन भाषा च मानुषी ॥४२०॥
 नलोऽवलोक्य साकम्पं सकृपस्तं सरीसृपम् ।
 समाक्रष्टुं निचिक्षेप निजां वल्लीवने पटीम् ॥ ४२१ ॥
 भूलग्रमञ्चलं प्राप्य पन्नगोऽवेष्टयद् भृशम् ।
 पटीलघ्नं परसुखोत्कर्षी राजा चकर्ष तम् ॥४२२॥
 गत्वा दूरप्रदेशे तं दवस्याऽगोचरेऽमुचत् ।
 मुच्यमानेन दष्टश्च पन्नगेन करे नलः ॥ ४२३ ॥
 नलोऽवदत्तमाच्छोष्य भवता स्वोचितं कृतम् ।
 पयः पाययते योऽपि युष्माभिः सोऽपि दश्यते ॥४२४॥
 नलस्यैवं ब्रुवाणस्य प्रससर्प विषं तनौ ।
 वपुः कुब्जमभूत्तेन वार्धकेनेव वाधितम् ॥ ४२५ ॥
 सूक्ष्मक्रमकरग्रीवो लम्बोष्ठः पिङ्गकुन्तलः ।
 अलिञ्जरोदरो मूर्त्या वीभत्सोऽभूद्विषाद् नलः ॥४२६॥
 अचिन्तयच्च रूपेणाऽनेन मे प्राणितं वृथा ।
 तद् गृह्णामि वरं दीक्षामप्यक्षयफलप्रदाम् ॥४२७॥
 नलस्य ध्यायतश्चैवं मुक्त्वा सर्पः स सर्पताम् ।
 दिव्यालङ्कारसम्भारधारकोऽभूत् क्षणात् सुरः ॥४२८॥
 ऊचे च मा कृथाः खेदं पिताऽस्मि निषधस्तव ।
 दीक्षाग्रहणतो ब्रह्मलोके वृन्दारकोऽभवम् ॥ ४२९ ॥
 ज्ञात्वा चावधिनाऽवस्थां तवेमां मायया मया ।
 समस्ताङ्गेषु वैरूप्यं विहितं ते दितं ननु ॥ ४३० ॥
 दण्डिताः खण्डिता दासीकृताश्च भवता द्विषः ।
 ते त्वामनुपलक्ष्यत्वात् पीडयिष्यन्ति नाश्रुना ॥४३१॥
 अश्रुनाऽपि विधेयो न त्वया दीक्षामनोरथः ।
 अद्याऽपि भरतस्यार्थं भोक्तव्यं भवता यथा ॥४३२॥

कथयिष्यामि ते दीक्षादिनं दैवज्ञवद् दिनम् ।

अन्यच्च श्रीफलं रत्नकरण्डं च गृहाण भोः ॥४३३॥

यदा कार्यं स्वरूपेण प्रस्फोट्यं श्रीफलं तदा ।

दृष्ट्वा तदन्तरे देवदूष्ये रत्नकरण्डकम् ॥ ४३४ ॥

उद्धाख्याऽऽभरणान्यस्य मध्ये वीक्ष्य क्षणादपि ।

परिदध्या यथारूपं देवरूपनिभं भवेत् ॥ ४३५ ॥

(युग्मम्)

अपृच्छत् नलस्तात ! क्व स्तुषा तेऽवदत् सुरः ? ।

ततः स्थानात् तदुदन्तं विदर्भागमनावधि ॥४३६॥

अवोचच्च नलं वत्स ! किं भ्राम्यसि वनान्तरे ।

यियासति भवान् यत्र तत्र स्थाने नयाम्यहम् ॥४३७॥

(युग्मम्)

नलोऽवोचच्छंशुमारपुरं प्रापय मां प्रभो ! ।

देव एवं विधायाऽऽशु सुधाशनपदं ययौ ॥ ४३८ ॥

नलोऽपि तत्पुरोपान्तोद्याने चैत्यं व्यलोकयत् ।

तदन्तर्नमिनाथस्य प्रतिमां प्रणनाम च ॥ ४३९ ॥

शंशुमारपुरस्याऽन्तर्यावद् विशति कुब्जकः ।

तदालानं समुन्मूल्य भ्राम्यति स्म मतङ्गजः ॥ ४४० ॥

स्फुरन्तं नाधिसेहे स समीरमपि तीरगम् ।

आचर्ष करेणोच्चैः सनीडनीडजानपि ॥ ४४१ ॥

गजाजीवा गजस्याऽस्य पृष्ठिं दूरेण तत्यजुः ।

उद्यानवृक्षानाक्षेपात् स वभञ्ज प्रभञ्जनः ॥ ४४२ ॥

भूपतिर्दाधिपर्णोऽथ क्षिप्रं वप्रोपरि स्थितः ।

मत्तं मतङ्गजं कर्तुमसमर्थो वशंवदम् ॥ ४४३ ॥

अवादीदिति विस्पष्टं गजं यः कुरुते वशम् ।

ददामि वाञ्छितं तस्य कोऽप्यस्ति द्विपशिक्षकः ॥४४४॥

कुब्जस्तद्वाक्यमाकर्ण्य करिणं प्रत्यधावत् ।

गजश्च गर्जन् पर्जन्य इवाऽभ्यागाद् नलं प्रति ॥ ४४५ ॥
 म्रियते म्रियते कुब्ज इति लोके वदत्यपि ।
 शिक्षावशेन खेदित्वा चशीचक्रे नलो द्विपम् ॥ ४४६ ॥
 वैनतेय इवोत्पत्य तमारूढो मतङ्गजम् ।
 आलोक्यमानो लोकेन तदाऽऽश्चर्यस्पृशा दृशा ॥ ४४७ ॥
 भूपक्षिप्तस्वर्णमालाराजमानगलो नलः ।
 व्यालमालानसंलीनं चक्रे नाड्योत्तार च ॥ ४४८ ॥
 अकृतप्रणिपातः सन्नुपान्ते नृपतेरसौ ।
 उपाविक्षदथाऽप्राक्षीदित्थं पृथ्वीपतिर्नलम् ॥ ४४९ ॥
 गजशिक्षासुदक्षोऽसि वेत्स्यन्यदपि किञ्चन ? ।
 स आचख्ये वोञ्चि सूर्यपाकां रसवतीं नृप ! ॥ ४५० ॥
 राजा कुब्जाय साश्चर्यं तन्दुलादि तदाऽऽर्पयत् ।
 यत्राकृतिस्तत्र गुणा इति व्यर्थं विचिन्तयन् ॥ ४५१ ॥
 विद्यां सौरीं स्मरन् मुक्त्वा चरन् सूर्यातपे नलः ।
 दिव्यां रसवतीं निष्पादयांचक्रे क्षणादपि ॥ ४५२ ॥
 बुभुजे सपरीवारो रसवत्या तया नृपः ।
 श्रमच्छिदाकृतानन्दां तामास्वाद्याऽवदच्च सः ॥ ४५३ ॥
 नलं विना रसवतीमीदृशीं वेत्ति नापरः ।
 पुराऽप्यास्वादिता सेयं सेवमानेन तं मया ॥ ४५४ ॥
 तत्किं नलोऽसि नैतादृग् नलः क्रोशशताष्टकात् ? ।
 काऽस्याऽऽगमः क्व चैकत्वं क्व च रूपविपर्ययः ? ॥ ४५५ ॥
 अथ कुब्जाय भूपालोऽदाद् वस्त्राभरणादिकम् ।
 दङ्कलक्षमपि ग्रामशतपञ्चकमादरात् ॥ ४५६ ॥
 ग्रामग्रामं विमुच्यान्यत् सर्वं जग्राह कुब्जकः ।
 राजा जगाद् किं कुब्ज ! प्रयच्छामि तवापरम् ? ॥ ४५७ ॥
 कुब्जोऽवोचद् निजाज्ञायां मद्याऽऽखेटां निवारय ।
 राजाऽपि तत्तथा चक्रे तद्भ्यर्थनया समुत् ॥ ४५८ ॥

अन्यदा कुब्जमेकान्तस्थितमूचे क्षितीश्वरः ।
 क त्वं कुतः क वास्तव्यो निवेदय ममाग्रतः ? ॥४५९॥
 कुब्जश्चाख्यत् कोशलायां नलभूपस्य सूपकृत् ।
 हुण्डिकाख्यः, समीपेऽस्य मया संशिक्षिताः कलाः ॥४६०॥
 नलः पराजितो द्यूते कूबरेणाऽखिलां भुवम् ।
 बभूव भैमीमादाय वनवासी मुनिर्यथा ॥ ४६१ ॥
 व्यपद्यत नलस्तत्राऽहं तु त्वां समुपागमम् ।
 कूवरं न तु शिश्राय गुणहीनं च वञ्चकम् ॥ ४६२ ॥
 तथा च वार्तया भूपः क्रन्दित्वा करुणस्वरम् ।
 नलप्रेतक्रियां कुर्वन् कुब्जेनैक्ष्यत सस्मितम् ॥४६३॥
 दधिपर्णनृपोऽन्यद्युर्दूतं केनाऽपि हेतुना ।
 प्रैषीद् मित्रत्वतत्त्वैषी कुण्डिनेश्वरसन्निधौ ॥ ४६४ ॥
 दूतोऽन्यदाऽऽख्यद् भीमाय मदीयस्वामिनोऽन्तिके ।
 सूर्यपाकरसवतीविदस्ति नलसूपकृत् ॥ ४६५ ॥
 तदाकर्ण्य तदोत्कर्णां दवदन्त्यवदद् नृपम् ।
 तात ! प्रेष्य चरं विद्धि कीदृग्रूपः स सूपकृत् ? ॥४६६॥
 ततः स्वामिसमादेशकुशलं कुशलं द्विजम् ।
 समाहूय समादिक्षद् नृपतिर्नलशुद्धये ॥ ४६७ ॥
 स पृथुं पृथिवीनाथाऽऽदेशं प्राप्याऽचलद् द्विजः ।
 शुंशुमारपुरं प्राप शकुनैः सूचितप्रियः ॥ ४६८ ॥
 अत्रजत् कुब्जकाभ्यर्णे प्रच्छं प्रच्छमतुच्छधीः ।
 निपण्णश्च विषण्णश्च तं प्रेक्ष्य विकृताकृतिम् ॥४६९॥
 अध्यायत् क नलः कैष क स्वर्णं क च पित्तलम् ? ।
 तन्नलभ्रान्तिरेतस्मिन् भीमपुत्र्या वृथैव हि ॥४७०॥
 निश्चिनोमि तथाप्येनमिति चित्ते विचिन्त्य च ।
 नलापश्लोकयुगलं स श्लोकयुगलं जगौ ॥४७१॥
 पापिष्ठानां निकृष्टानामसत्त्वानां शिरोमणिः ।

एक एव नलः पत्नीं सतीं तत्याज यो वने ॥४७२॥
 ऋजुमेकाकिर्नीं सुप्तां प्रियामुत्सृज्य गच्छतः ।
 विलीनीं भुवि लीनीं वा कथं पादौ न नैपथेः ? ॥४७३॥
 पुनः पुनरिति श्रुत्वा पठन्तं तं प्रियां स्मरन् ।
 नलो रुरोद् नेत्रोदविन्दुस्यन्दितभूतलः ॥४७४॥
 किं रोदिपि द्विजेनेति प्रोक्ते प्रोचेऽथ कुब्जकः ? ।
 त्वद्गीतं करुणास्फीतं कर्ण्यमाकर्ण्य रोदिमि ॥४७५॥
 द्विजः कुब्जेन पृष्टश्च श्लोकार्थं, न्यगदत् कथाम् ।
 द्यूतादारभ्य वैदर्भीगमनं कुण्डिनावधि ॥४७६॥
 अन्यच्च शंशुमारेशदूतो भीमनृपाग्रतः ।
 सूर्यपाकरसवतीतच्वङ्गं त्वामचीकथत् ॥ ४७७ ॥
 श्रुत्वेति त्वां नलं मन्यमाना भैमी व्यसर्जयत् ।
 मामहं तु निरीक्ष्य त्वां गताशः खेदमासदम् ॥४७८॥
 नलो न त्वमिति व्यर्थो मेऽभूच्छकुनसंचयः ।
 पदमेतद् मुधा मन्ये शकुनो दण्डनायकः ॥४७९॥
 प्रियां ध्यायन् रुदन् कुब्जो नीत्वा ग्राम तमब्रवीत् ।
 महासत्त्व ! कथाख्यातुः स्वागतं किं करोमि ते ? ॥४८०॥
 इत्युक्त्वा स्नपयित्वाऽथ भोजयित्वा च तं द्विजम् ।
 नेपथ्यं दधिपर्णेन दत्तं तस्मै ददौ ततः ॥४८१॥
 कुशलस्तमनुब्राप्य कुण्डिनं पुरमाययौ ।
 यथानिरीक्षितं कुब्जमाख्यद् भीमरथाय च ॥४८२॥
 कुब्जस्य गजशिक्षादिवृत्तं दानावधि द्विजः ।
 श्लोकश्रवणखेदं च भीमभैम्योः पुरोऽब्रुवत् ॥४८३॥
 भैम्यूचे तात ! दोषेण कर्मणो भोजनस्य वा ।
 रूपं सरूपं न प्राप्तो निश्चितं क्रियया नलः ॥४८४॥
 नलं विनाऽस्ति नाऽन्यस्य गजशिक्षासु कौशलम् ।
 सूर्यपाकपरिज्ञानं दानं वाऽद्भुतमीदृशम् ॥४८५॥

केनाऽपि तदुपायेन ताताऽत्राऽऽनय कुब्जकम् ।
 यथा करोम्यहं तेन तं निरीक्ष्य परीक्षणम् ॥४८६॥
 भीमोऽवदत् तवालीकं समारभ्य स्वयंवरम् ।
 विसृज्य दूतमाकार्यो दधिपर्णः समुत्सुकः ॥४८७॥
 ततस्तेन सहाऽऽगन्ता तव श्रुत्वा स्वयंवरम् ।
 नारीनिकारं नान्योऽपि सहेत, किमु चेद् नलः ? ॥४८८॥
 अश्वविद्याविदा तेनाऽऽनेष्यते दधिपर्णराट् ।
 महाबलेन न चिरात् तूलपूल इवात्र सः ॥ ४८९ ॥
 उक्त्वेति प्रेषितो दूतः शंशुमारेशमाह्वत ।
 श्वो लग्नमिति श्रुत्वाऽभूद् दीनो जालगमीनवत् ॥४९०॥
 तच्छ्रुत्वा कुब्जको दध्यौ भैमी नैच्छत् परं पतिम् ।
 यदीच्छेत् तर्हि गृह्णीयात् कस्तां मय्यपि जीवति ? ॥४९१॥
 तद् द्रक्ष्यामीति सप्रीतिर्विलक्षं स्वापराधतः ।
 पुनः स्वयंवराक्रोधि तदाभूद् नलमानसम् ॥४९२॥
 कुण्डिने दधिपर्णं च षड्भिर्यामैर्नयाम्यहम् ।
 यथा प्रासङ्गिकं यानमनेन सह संभवेत् ॥ ४९३ ॥
 ध्यात्वेत्युवाच राजानं ब्रूहि खेदस्य कारणम् ।
 स्थगितानां मौक्तिकानां नार्घ्यः संजायते यतः ॥४९४॥
 नृपोऽवदद् यशःशेषो नलोऽभूत् श्वः स्वयंवरः ।
 वैदर्भ्या भविताऽऽहूतः षड्याम्या याम्यहं कथम् ? ॥४९५॥
 कुब्जो जगाद् भूपाल ! विषादं मा कृथा वृथा ।
 अश्वान् समर्पय रथं कुण्डिनं त्वां नये लघु ॥४९६॥
 गृहाण स्वेच्छयेत्युक्ते राज्ञा कुब्जोऽग्रहीद् रथम् ।
 सर्वलक्षणसंपूर्णो जात्यावश्वौ च स स्वयम् ॥४९७॥
 सर्वत्र विज्ञं विज्ञाय तं दध्यौ दधिपर्णराट् ।
 असावनन्यसामान्यो सुरो विद्याधरोऽथवा ॥४९८॥
 रथं विधाय युक्ताऽश्वं कुब्जो नृपमवोचत ।

त्वां नेष्यामि रथारूढं निशान्ते कुण्डिनं पुरम् ॥४९९॥
 राजा स्थगीभृच्छत्री च कुब्जश्चामरधारिणौ ।
 षडप्यमी रथं सज्जं तमारुरुहुस्तुकाः ॥ ५०० ॥
 तं करण्डं च विल्वं च संनिवध्य कटीतटे ।
 वाहानखेटयत् कुब्जः स्मृतपञ्चनमस्कृतिः ॥ ५०१ ॥
 नलेन चाश्वहृद्विद्याविदा स प्राजितो रथः ।
 जगाम मनसा सार्धं मनोरथ इवाङ्गवान् ॥ ५०२ ॥
 दधिपर्णोत्तरीयं च रथरंहोऽनिलेरितम् ।
 साक्षाद् भैमीसमायोगमनोरथ इवापतत् ॥ ५०३ ॥
 कुब्जं वभाषे भूपालो विलम्बय रथं क्षणम् ।
 उड्डीय यातां वातेन यथा गृह्णाम्यहं पटीम् ॥५०४॥
 स्मित्वा कुब्जोऽवदत् फाऽस्ति पटी तव धराधव ! ? ।
 पटीपातादतिक्रान्तं क्रोशानां हि शतं ह्यैः ॥५०५॥
 मध्यमौ तुरगावेतौ, भवेतां यदि तूत्तमौ ।
 एतावता व्रजेतां तौ ततः क्रोशशतद्वयम् ॥५०६॥
 दधिपर्णोऽथ दूरादप्यक्षवृक्षमुदैक्षत ।
 कुब्जमूचे फलान्यस्य कथयाऽगणयन्नपि ॥ ५०७ ॥
 व्यावृत्तो दर्शयिष्यामि कौतुकं ते, नलोऽवदत् ।
 मा भैर्मय्यश्वहृद्विद्याविदि कालविलम्बतः ॥५०८॥
 एकमुष्टिप्रहारेण नलः फलान्यपातयत् ।
 अष्टादश सहस्राणि कथितानि तथाऽभवन् ॥ ५०९ ॥
 ददौ कुब्जोऽश्वहृद्विद्यां दधिपर्णाय वर्ण्यधीः ।
 विद्यां च फलसंख्यायाः स तस्माद् विधिनाऽऽददे ॥५१०॥
 स रथः कुण्डिनाभ्यर्णं यातः प्रातर्नलेरितः ।
 निशान्तेऽथ निगान्तस्था भैमी स्वप्नं तदैक्षत ॥५११॥
 तत्पित्रेऽकथयञ्चैवं जाने निर्वृतिदेवता ।
 कोशलोद्यानमानीयाऽदर्शयद् गगनाद्गणे ॥ ५१२ ॥

आरूढा फलितं चूतं तदादेशात् तयाऽम्बुजम् ।
हस्तेऽर्पितं च मे, पक्षी पुराऽऽरूढोऽपतत् ततः ॥५१३॥
भीमोऽवोचत् सुते ! स्वप्नो मनोज्ञोऽयं तथाह्यसौ ।
देवता पुण्यराशिस्ते उद्यानं राज्यमद्भुतम् ॥५१४॥
चूतारोहः पतिसङ्गोऽपतत् पक्षीव कूबरः ।
प्रातः स्वप्नेक्षणाद् मन्ये मिलिष्यत्यद्य ते नलः ॥५१५॥
(युग्मम्)

तदा पृद्धारंगं कश्चिद् दधिपर्णमजिज्ञपत् ।
भीमोऽभ्यागम्य चालिङ्ग्यातिथ्यं कृत्वा तमब्रवीत् ५१६
सूर्यपाकां रसवतीं सूदस्ते वेत्ति कुब्जकः ।
तद् दर्शय ममाश्चर्यं पूर्यतां वार्तयाऽनया ॥५१७॥
दधिपर्णोऽवदत् कुब्जं चक्रे रसवतीं स च ।
भीमोऽपि बुभुजे स्वादं विज्ञातुं सपरिच्छदः ॥५१८॥
स्थालमोदनसंपूर्णं तदानायय नलप्रिया ।
बुभुजेऽथ तदास्वादात् कुब्जं ज्ञातवती नलम् ॥५१९॥
पुरा मे ज्ञानिनाऽऽख्यातं भारते सूर्यपाकवित् ।
केवलं नल एवात्र तदयं निश्चितं नलः ॥ ५२० ॥
तदेष तिलकं कुर्वन्निव मां स्पृशतु द्रुतम् ।
नलाङ्गुल्या यतः स्पृष्टाऽहं स्यां पुलकमालिनी ॥५२१॥
भैमीवक्षो नलोऽस्पृक्षदङ्गुल्या च क्षणादभूत् ।
वपुः सरोजिनीनालमिवात्युत्कटकण्टकम् ॥ ५२२ ॥
निद्राणाऽहं तदाऽत्याजि यास्यासि काधुना पुनः ? ।
भैमीत्युक्त्वा करे धृत्वा नलं निन्ये गृहान्तरे ॥५२३॥
नलो विल्वकरण्डाभ्यां वसनाभरणादिकम् ।
परिधायोऽभवत् सद्यः सुरवद् निजरूपभृत् ॥ ५२४ ॥
यथारूपं नलं भैमी ताडयित्वा कटाक्षितैः ।
चित्तचौरं चिरात् प्राप्तं भुजपार्श्वेऽबन्ध सा ॥५२५॥

पुनर्द्वारि समायान्तं नलमालिङ्गच भीमराट् ।
 निजे सिंहासनेऽध्यास्य स्पेरास्यकमलोऽवदत् ॥५२६॥
 इदं देहमिदं गेहमियं लक्ष्मीरियं सुता ।
 त्वदीयं सर्वमप्येतत्तद् ब्रूहि करवाणि किम् ? ॥५२७॥
 दधिपर्णोऽवदद् नत्वा नलं, नाथोऽसि नाथ ! मे ।
 तत्प्रसीद् ममान्यायकार्यं सर्वं सहस्र तत् ॥ ५२८ ॥
 अत्रान्तरे च सार्थेशो धनदेवः समागमत् ।
 द्रष्टुं भीमरथं भैम्योपलक्ष्य बहुमानतः ॥ ५२९ ॥
 वसन्तमृतुपर्णं च तत्प्रियां तत्सुतामपि ।
 सर्वानाऽनाययद् भैमी तत्प्रत्युपचिकीर्षया ॥ ५३० ॥
 कृतसत्कृतवयस्तेऽथ बन्धुवद् भीमभूभुजा ।
 तस्थुः प्रमनसो मासमातिथैर्यैर्नवैर्नवैः ॥ ५३१ ॥
 अन्यदा तेषु सर्वेषु सत्सु भीमस्य संसदि ।
 कश्चिदगाद् दिवो देवः स भैमीमभ्यधादिति ॥५३२॥
 भद्रे ! कुलपतिः सोऽहं यस्त्वया बोधितः पुरा ।
 विमाने केशरेऽभूवं नाम्ना श्रीकेशरः मुरः ॥५३३॥
 त्वत्प्रसादादसौ प्राप्ता देवद्विद्विद्विभवा ।
 उक्त्वेति वृष्ट्वा स्वर्णस्य सप्तकोटीस्तिरोदधे ॥५३४॥
 भीमर्तुदधिपर्णश्रीवसन्ताद्या नरेश्वराः ।
 नलं राज्येऽभिपिपिचुः श्राद्धा विम्बामिवार्हतम् ॥५३५॥
 स्वानि स्वानि नलादेशाद् बलानि सवलानि ते ।
 हेलया मेलयामासुर्भूभुजो भुजशालिनः ॥ ५३६ ॥
 ततः परवलद्वेषी मूर्तिमान् मेघवाहनः ।
 चचाल पृथिवीपालो नलः सवलवाहनः ॥ ५३७ ॥
 दिनैः कतिपर्यैः संन्यमदैन्यः संन्यवेशयत् ॥
 अयोध्यावहिरुद्याने नामतो रतिवद्वभे ॥ ५३८ ॥

कूबरोऽथ नलं ज्ञात्वा समायानं भयातुरः ।
 बभूव गतसर्वस्वं इव संशून्यमानसः ॥ ५३९ ॥
 नलोऽथ कूबरं प्रोचे पाशैः क्रीड मया समम् ।
 द्वयोरपि श्रियोरेकः पतिः कोऽपि भवत्विति ॥५४०॥
 मुदितः कूबरो द्यूतं मेने तत्र जिताहवः ।
 क्रीडन् नलेन जिग्ये च भाग्येन विजयः करे ॥५४१॥
 नलेन कूबरः क्रूरो राज्यं जित्वा जितक्रुधा ।
 अलंकृत्य निजं राज्यं यौवराज्यमलम्भ्यत ॥५४२॥
 नलः प्राप्य निजं राज्यं तदा भीमसुतायुतः ।
 मुदा दृग्दत्तसैन्यानि पुरीचैत्यान्यवन्दत ॥ ५४३ ॥
 कौशलिकान्युपादाय कुशलप्रश्नपूर्वकम् ।
 सेवायां कुशला भूपाः कोशलाधीशमभ्ययुः ॥५४४॥
 आखण्डल इवाखण्डशासनः खण्डयन् रिपून् ।
 त्रिखण्डं भरतं रक्षन् सहस्राद्धीमलङ्घयत् ॥ ५४५ ॥
 स्वर्गादागत्य निषधोऽन्यदा नलमबोधयत् ।
 न युज्यते रतिः कर्तुं विषयेषु विषेष्विव ॥ ५४६ ॥
 प्रव्रज्याकालकथनं प्रतिपन्नं पुरा तव ।
 गृहाण तदहो ! दीक्षां जीवितव्यतरोः फलम् ॥५४७॥
 भवे भवे भवेद् दुःखं यच्चतुर्गतिके भवे ।
 तद् द्विधाविषयग्रामत्यजनं भज नन्दन ! ॥ ५४८ ॥
 निषिद्धो निषधेनैष नैषधिर्विषयान् प्रति ।
 इयेष दीक्षामादातुं दातुं पात्रे धनानि च ॥५४९॥
 अथ तत्राऽऽगमत् सूरिर्जिनसेनाऽभिधः सुधीः ।
 चित्रं यः सावधिर्ज्ञानैः परं निरवधिर्गुणैः ॥ ५५० ॥
 तत्र भैमीनलौ गत्वाऽवन्दिषातां तमादृतौ ।
 पृष्टः प्राच्यभवावस्थां कथयित्वाऽवदत् पुनः ॥ ५५१ ॥
 यशःसुरभि सद्गुणैः स्वादुजन्म क्षपान्तरे ।

साधुप्रदत्तदुग्धात् ते राज्यमाज्यमिवाभवत् ॥ ५५२ ॥
 यत्पुनर्द्वादशघटीं खेदितो मुनिपुङ्गवः ।
 तदेष विरहो जज्ञे युवयोर्द्वादशाब्धिकः ॥ ५५३ ॥
 श्रुत्वेति तौ न्यस्य राज्यं तनये पुष्कलाभिधे ।
 गुरोस्तस्माद् व्रतं लात्वा पालयांचक्रतुश्चिरम् ॥ ५५४ ॥
 भोगेच्छुरन्यदा भूम्यां नलोऽत्यज्यत सूरिणा ।
 सुरलोकात् समागत्य निषधेन प्रवोधितः ॥ ५५५ ॥
 विदधेऽनशनं कर्तुमसमर्थो व्रतं नलः ।
 नलानुरागतश्चक्रे ददन्त्यपि तत् तथा ॥ ५५६ ॥
 नलो मृत्वा कुबेरोऽभूद् भीमजा दयिताऽस्य च ।
 तत्रापि हि तयोः स्नेहो महानजनि पूर्ववत् ॥ ५५७ ॥
 च्युत्वाऽथ पेढालपुरे हरिश्चन्द्रनृपौकसि ।
 भैमी लक्ष्मीवतीकुक्षौ सुता कनकवत्यभूत् ॥ ५५८ ॥
 स्वयंवरे तां च वरेण्यमूर्तिरधोपयेमे दशमो दशार्हः ।
 साधार्मिकी धर्मकथासु लीना कलङ्कहीना समयं निनाय ॥
 पौत्रे सागरचन्द्रनामनि बलस्योच्चैर्गते स्वर्गितां
 गेहस्थाऽपि भवास्थितिं सविनया सा चिन्तयन्ती मुहुः ।
 ज्ञानं केवलमाप्य नेमिनिकटं संप्राप्य मासं दिना-
 न्याधायानशनं च निर्वृतिमथ प्रक्षीणकर्माऽगमत् ॥ ५६० ॥
 सम्यक्तत्रं परिपाति रक्षति जगद् नैवाऽनृतं भाषते
 नादत्तेऽन्यधनं हृदत्तमिह यो ब्रह्मव्रतं सेवते ।
 यो शृङ्गं प्रमितं दध्राति विनयं धत्ते च साधुव्रजे
 सिद्धयत्येष जनो यथैष ददन्त्येभिर्गुणैर्भूषिता ॥ ५६१ ॥

इत्याचार्यश्रीविनयचन्द्रविराचिते श्रीमल्लिस्वामिचरिते

महाकाव्ये विनयाङ्गे सम्यक्त्वफले ददन्ती-

महासतीचरितव्यावर्णनो नाम षष्ठः सर्गः ।

अहम्

सप्तमः सर्गः ।

अथ नत्वा जगन्नाथं जगन्नाथपिता नृपः ।
उवाच नाथ ! सम्यक्त्वदृष्टान्तः संश्रुतो मया ॥१॥
अमुष्माद् नाथ ! दृष्टान्ताद् गतवान् मोहविप्लवः ।
मनश्च शुद्धिमज्जातं वैराग्यरसभावितम् ॥ २ ॥
इदानीं श्रोतुमिच्छामि श्रावकाणां व्रतावलीम् ।
अपवर्गसमारोहे दृढां निःश्रेणिकामिव ॥ ३ ॥
श्रीकुम्भभूपते ! मूलं व्रतेषु प्राणिरक्षणम् ।
यद् विना विफलं सर्वमूषरक्षित्तवीजवत् ॥४॥
जटी मुण्डी तपस्वी च दिग्वासा अरुणाम्बरः ।
शोभते न दयां मुक्त्वा जलहीनं यथा सरः ॥५॥
अहिंसा सर्वजन्तूनां भीतानामभयप्रदा ।
अहिंसा भवसंतप्तौत्तराहजलदावली ॥६॥
हिंसाया लवमात्रेणोपार्यते पातकं महत् ।
कालकूटकणेनाऽपि नरः किं न विनश्यति ? ॥७॥
प्राणातिपातविरतिं ये कुर्वन्ति विवेकिनः ।
प्रेत्य सर्वश्रियः पात्रं ते भवन्ति सुदत्तवत् ॥८॥
तथाहि मागधेष्वस्ति स्वस्तिवल्लीघनाघनम् ।
पुरं राजगृहं नाम गृहं सकलसंपदाम् ॥ ९ ॥
विश्वविश्वम्भराधीशनिषेवितपदद्वयः ।
विक्रमस्तत्र भूपालस्त्रिविक्रम इव श्रिया ॥ १० ॥
अन्येद्युः सीमभूपालैः प्रान्तो देशः कदर्थितः ।
वन्दिग्राहं च विधृतास्तत्रत्याः क्रौटिसंचयाः ॥ ११ ॥
स्वदेशमथनं श्रुत्वा तानभिप्राहिणोद् वलम् ।

अध्यासामासुरेतेऽपि दुर्गे दुर्ग्रहमाग्रहात् ॥ १२ ॥
 विक्रमस्य बलैस्तेषां ग्रामग्रामा उपद्रुताः ।
 अत्युग्रकृतपापानामिह लोकेऽपि यत्फलम् ॥ १३ ॥
 सुदत्तग्रामवास्तव्यः सुदत्तो वणिगात्मभूः ।
 सप्तवर्षप्रमाणज्ञो विधृतः केनचिद् हंटात् ॥ १४ ॥
 अथाऽऽनीतः पुरे राजगृहे राजभटेन सः ।
 धृतश्च पूलकं दत्त्वा मस्तकेऽसौ चतुष्पथे ॥ १५ ॥
 अन्येन केनचित् तत्र सुदत्तस्य जनन्यपि ।
 तदा विक्रेतुमारब्धा पुरस्तात्पुत्रनेत्रयोः ॥ १६ ॥
 स तामुद्वीक्ष्य साप्येनं रुरोद करुणस्वरैः ।
 महौषधं हि दुःखार्ते रोदनादपरं नहि ॥ १७ ॥
 भङ्गो निजकदेशस्य गोधनस्य परिक्षयः ।
 दत्तलभ्यपरिभ्रंशः स्वजनानां परिच्युतिः ॥ १८ ॥
 मत्पुत्रो गतभाग्यांशो विधृतो रोरवालवत् ।
 एवं विचिन्तयामास सुदत्तजननी तदा ॥ १९ ॥
 हा ! निर्वीरेव मन्माता धृताऽनेन चतुष्पथे ।
 अचिन्त्या हि गतिः पूर्वकर्मणां हतगर्भणाम् ॥ २० ॥
 स्फुटत्यूर्वा यदि ततो विशामि क्षितिवेशभवत् ।
 अहं लभे त्रिपं त्सामि ततो मोदकलीलया ॥ २१ ॥
 तयोश्चिन्तयतोरेवं सुदत्तस्य जनन्यथ ।
 तत्क्षणं हृदयस्फोटाद् व्यपद्यत चतुष्पथे ॥ २२ ॥
 ततो विशेषतस्तारतरं तरललोचनः ।
 सुदत्तो रोदिति स्मोच्चं रोदयन्नपरानपि ॥ २३ ॥
 मूर्च्छया न्यपतत् पृथ्व्यां मूलक्रेत्त इवांघ्रिपः ।
 एकं हि जननीमृत्युः परदेशागमः परम् ॥ २४ ॥
 दयया नागरैः सिक्तो घनैः शुष्यद्वनं यथा ।

लब्धसंज्ञः समुत्तस्थौ सुदत्तो दत्तलोचनः ॥ २५ ॥
 राजकीयभटेनाऽपि पृष्ठं मूर्च्छानिवन्धनम् ।
 दुःखं जगाद् निःशेषं जननीमरणावधि ॥ २६ ॥
 इतश्च सूद आगत्य मूल्यमेतस्य पृष्ठवान् ।
 सोऽवोचदेनं मूल्येन न विक्रीणामि सन्मते ! ॥ २७ ॥
 एतस्य मूल्यवित्तेन न कर्तास्मि सुरालयम् ।
 न न्यूनं पूरणं भावि दारिद्र्योपहतस्य मे ॥ २८ ॥
 दुःखितस्याऽस्य नो कर्तुं भृतिर्युक्ता स्वपुत्रवत् ।
 परं तुभ्यं प्रयच्छामि स्नेहेनैनं धनं विना ॥ २९ ॥
 मुधा संप्राप्य हृष्टः सन् सूदस्तस्माद् न्यवर्तत ।
 अगादपि निजावासं भोजयामास तं स्वयम् ॥ ३० ॥
 गृहीतो राजसौधेऽसौ सूदेनौदनपक्तये ।
 कारितश्च समादेशादिन्धनाऽऽनयनादिकम् ॥ ३१ ॥
 प्रस्तावे जगदे तेन हंहो बालक ! लावकान् ।
 वंशकम्बादिनिष्पन्नपञ्जराद् निरवासय ॥ ३२ ॥
 विदधानो दयां चित्ते पञ्जराद् लावकानसौ ।
 अशेषानमुश्चत् तेऽपि नभसा रभसा ययुः ॥ ३३ ॥
 क्षणं स्थित्वा समागत्य पञ्जराद् लावका मया ।
 तात ! सर्वे विनिर्मुक्ता यौष्माकीणनिदेशतः ॥ ३४ ॥
 इत्युक्तवन्तं तं सूदः कम्बया समताडयत् ।
 मुग्धोऽयमिति तं बालं विततर्कं निजे हृदि ॥ ३५ ॥
 द्वितीयेऽद्भ्यमुनाऽऽदिष्टो लावकान् बालकाऽधुना ।
 वक्रां ग्रीवां विधायाऽऽशु पञ्जरेभ्यः समानय ॥ ३६ ॥
 अथाऽसौ तत्र तांस्तेभ्य आकृष्य पूर्ववत्क्षणात् ।
 मद्भ्रुवमुश्चदशेषांश्च वक्रग्रीवोऽभवत् स्वयम् ॥ ३७ ॥
 वक्रग्रीवममुं दृष्ट्वाऽवादीत् सूदः कुतो भवान् ।
 वक्रग्रीवः समायातः सोऽवोचदथ मन्दगीः ? ॥ ३८ ॥

यौष्माकादेशतस्तात ! वक्रग्रीवोऽधुनाऽजनि ।
 तच्छ्रुत्वेदं दर्शौ चित्ते डिङ्गिरो डिङ्गिरो ह्ययम् ॥ ३९ ॥
 वक्रस्ताडनतः शिष्यो लोभी द्रविणदानतः ।
 दुर्दान्तो दारपुत्रश्च मायी त्वावर्जनागुणैः ॥ ४० ॥
 विचिन्त्येति कशाघातपातैः शुक्लवाजिवत् ।
 ताडितः संयतश्चापि सुदृढं केशरज्जुना ॥ ४१ ॥
 ताड्यमानममुं राजा गवाक्षस्थो विलोक्य च ।
 कथं सूद ! वराकोऽयं ताड्यते वनजोक्षवत् ? ॥ ४२ ॥
 तद्वृत्तमवदत् सूदः श्रुत्वा राजापि तत्तथा ।
 कोपेन कम्पमानाङ्गो वातकम्पितवृक्षवत् ॥ ४३ ॥
 बन्धयित्वा शिशुं राजा गजाग्रे चर्मपुत्रवत् ।
 निर्दयं मोचयांचक्रे कृतान्त इव दारुणः ॥ ४४ ॥
 (युगम्)

करेणोत्पाटयामास करेणुस्तं च संज्ञितः ।
 निर्धृणं शिक्षिताः प्राङ्गैस्तिर्यञ्चः किं न कुर्वते ? ॥ ४५ ॥
 इतश्च पृष्ठो भूपेन जिजीविपति चेद्भवान् ।
 जीवितं हर जीवानामन्यथा मरणं तव ४६ ॥
 सुदत्तोऽथाऽगदद् देव ! भूयाद् मृत्युः करीश्वरात् ।
 नाहं प्राणात्ययेऽप्युच्चैः करिष्ये प्राणिनां वधम् ॥ ४७ ॥
 तद्वचःश्रवणात् तुष्टः पृथ्वीशो वणिगात्मजम् ।
 स्नेहस्मेरमुरखाम्भोजोऽपृच्छद् गोत्रादिकं च सः ॥ ४८ ॥
 सुदत्तग्रामवास्तव्यो देवाऽहं वणिगात्मभूः ।
 सुदत्तः संज्ञया गर्भश्रावको मृतमातृकः ॥ ४९ ॥
 देवाऽगलितमर्णश्च पीयते तृपितर्न हि ।
 अशोधिनमिन्धनादि क्षिप्यते नां हुताग्ने ॥ ५० ॥
 निशायां भुज्यते नापि पूज्यते भगवान् जिनः ।
 वन्द्यन्ते गुह्यः श्वेताम्बराः क्षान्तिपरायणाः ॥ ५१ ॥

सर्वथा जीवरक्षार्थं यतन्ते कुलजा मम ।
 इत्यतो नाधिकं वेद्मि बाल्यतः पृथिवीपते ! ॥५२॥
 निशम्येति नृपोऽवोचद् धन्यं श्राद्धकुलं क्षितौ ।
 यस्मिन् बाला अपि दयाप्रकृष्टाः शिष्टताञ्जुषः ॥५३॥
 बालका अपि यत्रेदृग्जीवरक्षापरायणाः ।
 ये पुनर्ज्ञातसिद्धान्तास्ते कीदृक्षाः क्षमातले ? ॥५४॥
 प्रशस्येति श्राद्धकुलं सुदत्तं दत्तशासनम् ।
 अङ्गरक्षकनेतृत्वे चकार क्षोणिनायकः ॥ ५५ ॥
 नृपाङ्गरक्षां कुर्वाणस्तीर्थनाथार्चनोद्यतः ।
 कुलीनललनोद्वाही दानशौण्डः प्रशान्तधीः ॥ ५६ ॥
 श्रीचन्द्रप्रभतीर्थेशसमीपे श्रावकव्रतम् ।
 आदाय विधिना शुद्धं सम्यक्त्वत्रिधिवन्धुरम् ॥५७॥
 पर्यन्तेऽनशनं कृत्वा परमेष्ठिस्तव स्मरन् ।
 मृत्वा माहेन्द्रकल्पेऽभूत् तस्माद् निर्वाणमेष्यति ॥५८॥
 सुदत्तस्य यथा जातमिहाऽमुत्र श्रियां पदम् ।
 तथान्येषामपि भवेत्प्राणिनां वधरक्षणात् ॥५९॥
 अथ नत्वा जिनं कुम्भो जगाद रचिताञ्जलिः ।
 धन्यः सुदत्तो भगवान् यो बाल्येऽपि दयापरः ॥६०॥
 राजन् ! प्राणातिपातस्य विरतेभूषणं सदा ।
 मृषावादं परिहरेत् द्वैतीयीकमणुव्रतम् ॥६१॥
 सत्यं कीर्तिलतामूलं सत्यं पुण्यनदीगिरिः ।
 सत्यं विश्वाससौधं च सत्यं लक्ष्मीनिकेतनम् ॥६२॥
 यथा पुण्ड्रेण रामाया वक्त्राम्भोजं विभूष्यते ।
 यथा गङ्गाप्रवाहेण पूयते भुवनत्रयम् ॥६३॥
 यथा च शोभते काव्यं सार्थया पदशय्याया ।
 तथा सत्येन मनुज इहाऽमुत्र विराजते ॥६४॥ (युग्मम्)
 प्रतिष्ठाः लोकविश्वासप्रत्यया अनृतोदितेः ।

नदीपूरादिव ग्रामाः प्लाव्यन्ते तटवांसिनः ॥६५॥
 सत्यवाक्यप्रभावेण भूपालैरपि पूज्यते ।
 वसुवन्धुर्यथा श्रेष्ठी धर्मदेवकलौ किल ॥६६॥
 तथाहि धरणीवासाभिधानं पुरमुत्तमम् ।
 तत्रारविन्दभूपालो विशालो निलयं श्रियः ॥६७॥
 वसुवन्ध्वाह्वयः श्रेष्ठी तत्र श्रेष्ठो गुणोत्करः ।
 यद्विचैर्व्यवहर्तुं वा कौवेरीं धनदोऽगमत् ॥६८॥
 वसुभद्रः सुतोऽमुष्य दुर्दान्तसुहृदां गणैः ।
 समेतो नगरीं भ्राम्यन् मदमत्त इव द्विपः ॥६९॥
 नं पितुर्मन्यते शिक्षां नाभ्यस्यति कलाः क्वचित् ।
 पर्वण्यपि गुरोः पादौ न ननाम दुराशयः ॥७०॥
 अन्येषुः श्रेष्ठिपूर्वाक्षयोपक्षमापतिनिकेतनम् ।
 गृहश्रोतःस्फुरद्भूरिकृमिप्रोन्मत्तकर्दमम् ॥७१॥
 देवदूष्यमिवाहायोत्तार्य मौलेर्वरां पटीम् ।
 श्रोतोऽन्तः कुण्डलीकृत्य क्षिप्तवान् लेण्डुखण्डवत् ॥७२॥

(युग्मम्)

तस्योपरि क्रमौ न्यस्य विहाय चोत्तरच्छदम् ।
 अग्रतः प्रससाराऽसौ मदोन्मत्तशिरोमणिः ॥ ७३ ॥
 कोऽयमेव इति नरं कञ्चित् पप्रच्छ भूपतिः ? ।
 अवादीदेष निःशेषतदीयकुलवेदकः ॥ ७४ ॥
 देवाऽयं वसुवन्धोश्च नन्दनो वसुभद्रकः ।
 व्यसनोपहतस्त्यागी दुःशिक्षितमदाऽन्धलः ॥ ७५ ॥
 ततः कौतुकितो राजा वसुवन्धुमजूहवत् ।
 श्रेष्ठिस्तवात्मजः कस्मान्कुलगिक्षाविवर्जितः ? ॥७६॥
 स्वामिन् ! शिक्षोपदेशास्तन्नाऽमंस्ताऽयं कथञ्चन ।
 कुलक्षये भवन्त्युच्चैः सुता ईदृग्विचोष्टिताः ॥ ७७ ॥

एतदाशङ्क्याह- कः पुनरसौ अभिप्रायः, भवतोऽभिप्रेतः? । विकल्पे-
 त्यादि । विकल्पद्वयायुगपद्भावोऽभिप्रायः 'अस्थानमेतत्' इत्यादिसूत्रे
 इति चेत् । एतदाशङ्क्याह- का खल्वन्यथा विकल्पद्वययुगपद्भावे, यु-
 क्तिबाधा?, इत्येतत् कथनीयम् । तथा विकल्पद्वययौगपद्येन, अनुभव एव
 युक्तिबाधेति चेत् । एतदाशङ्क्याह- सोऽविकल्पद्वयेऽपि यौगपद्ये-
 नाननुभवः, तुल्य एवेत्युक्तं प्राक् 'किञ्च, कुतोऽयममीषामत्यन्तभेदे युग-
 पत् सर्वानुभव इत्यवगमः?' इत्यादिना सूत्रेण । उपचयमाह-
 न चेत्यादिना । न च विकल्पयोरसदंशानुवेधतः कारणात्, अवि-
 द्यमानप्रतिभासित्वाभ्युपगमेन, चित्तैव युक्ता, यदसत्प्रतिभासि
 त्तदसदेवेति भावनीयम् । पराभिप्रायमाह- न चेत्यादिना । न च तत्
 स्वसंविदो विकल्पस्य स्वसंविदः, वस्तुत्वेन हेतुना, अयमसदंशा-
 नुवेधतश्चित्तत्वाऽयोगलक्षणः, अनपराधोऽदोषो न च । कुत
 इत्याह- तत्तद्व्यतिरिक्तेतरविकल्पदोषापत्तेः तस्याः स्वसंविदस्तद्व्य-
 तिरिक्तेतरविकल्पदोषापत्तेः- असदंशव्यतिरिक्ताव्यतिरिक्तविकल्पदोष-
 प्रसङ्गात्- सा हि स्वसंविदसदंशाद् विकल्पानुवेधकाद् व्य-
 तिरिक्ता वा स्यादव्यतिरिक्ता वा? । व्यतिरिक्तत्वे तस्येति सङ्गायोगः ।
 अव्यतिरिक्तत्वे तस्यापि वस्तुता, स्वसंविदो वाऽवस्तुतेत्यादि । अन्य-
 थैवमनभ्युपगमे, तदयोगात्तत्स्वसंविदोऽयोगात्, तथाहि- यदि सा ततो-
 न व्यतिरिक्ता, नाप्यव्यतिरिक्ता, न विकल्प एवेति कुतस्तत्स्वसंवि-
 त्? इत्यालोचनीयम् । इत्येवं, यत्किञ्चिदसारमेतद् यदुत- 'तत्स्वसंविदो
 वस्तुत्वेनायमनपराधः' इति । अपान्तरालपूर्वपक्षमधिकृत्योपसंहारमाह-
 अत इत्यादिना । अतोऽस्मात् कारणात्, सामान्येनैवोभयचित्तप्रति-
 पेधोपपत्तेः, प्रक्रमादधिकृतसूत्रे 'अस्थानमेतत्-' इत्यादौ सविकल्पा-
 विकल्पोभयचित्तप्रतिपेधोपपत्तेः । किमित्याह- आप्तवचनप्रमाण्यात्
 कारणात् । तथा, अनुभवभावत एकचित्तरूपत्वेनानुभवभावतः,
 सिद्धं प्रतिष्ठितम् । किमित्याह- इन्द्रियद्वारानुसार्येव विज्ञानं,
 ईहादिक्रमेणाऽऽविष्टाभिलापम् 'अहिरहिः' इत्येवमादि । आदिशब्दा-
 न्नदन्यैर्विधपरिग्रहः, तदपि सिद्धमित्यर्थः ॥

न चेदं नेन्द्रियनिमित्तम्, तद्भावभावित्वानुविधानात्, अन्धादेरनुत्पत्तेः । इन्द्रियादविकल्पजन्म तत इदमिति तदनुत्पत्तिरिति चेत् । न, आद्यविद्युत्संपातादौ तद्भावेऽपि तदभावात् । स मानसाभावतोऽभावो नाक्षव्यापाराभावत इत्यतोऽदोष इति चेत् । नात्र किञ्चिदुभयसिद्धं प्रमाणम् । इति यत् किञ्चिदेतत् । तथाविधविकल्पानुत्पत्तिरेव प्रमाणमिति चेत् । न, अस्या एव विवादगोचरापन्नत्वात् । अत एवैतन्निर्णीतेरयमदोष इति चेत् । न, चक्षुर्यापाराभावेऽप्यस्याः समानत्वादिति ॥

इहैवोपचयमभिधातुमाह- न चेत्यादि । न चेदं नेन्द्रियनिमित्तं किं तर्हि, इन्द्रियनिमित्तमेव । कुत इत्याह-तद्भावभावित्वानुविधानात् इन्द्रियभावभावित्वानुकरणात् । तदेवाह-अन्धादेरनुत्पत्तेः । आदिशब्दादव्यापृतेन्द्रियग्रहः । इन्द्रियादित्यादि । इन्द्रियात् सकाशात्, अविकल्पजन्माऽविकल्पोत्पादः, ततोऽविकल्पात्, इदं विज्ञानमाविष्टाभिलापम्, इत्येवं, तदनुत्पत्तिरन्धादेर्विवक्षितविज्ञानानुत्पत्तिरिति चेत् । एतदाशङ्क्याह- आद्यविद्युत्संपातादौ । आदिशब्दात् तदन्याद्भुतदर्शनग्रहः । तद्भावेऽपि- इन्द्रियादविकल्पजन्मभावेऽपि, तदभावात्- आविष्टाभिलापविज्ञानाभावात् । स मानसाभावतः स्वाविषयानन्तरविषयसहकारीन्द्रियज्ञानजनितमानसाभावेन, अभावः, आविष्टाभिलापविज्ञानाभावः । नाक्षव्यापाराभावतो नेन्द्रियव्यापाराभावेन, इत्यतोऽस्मात् कारणात्, अदोषः 'आद्यविद्युत्संपातादौ तद्भावेऽपि तदभावात्' इत्ययमनपराध इति चेत् । एतदाशङ्क्याह- नात्र 'स मानसाभावतः' इत्यादौ, किञ्चिदुभयसिद्धं वादिप्रतिवादिप्रतिष्ठितम्, प्रमाणमक्षव्यापारापोहेन मानसनिवन्धनत्वव्यवस्थापकम्, इत्येवं, यत्किञ्चिदेतदसारमित्यर्थः । तथाविधेत्यादि । तथाविधविकल्पानुत्पत्तिरेवाविष्टाभिलापविज्ञानानुत्पत्तिरेवेत्यर्थः, प्रमाणमक्षव्यापाराभावेन मानसनिवन्धनत्वव्यवस्थापकमिति चेत् । एतदाशङ्क्याह- न, अस्या एव तथाविधविकल्पानुत्पत्तिरेव, विवादगोचरापन्नत्वाद् विप्रतिपत्तिविषयत्वादिति योऽर्थः ।

अत एवेत्यादि । अत एव तथाविधविकल्पानुत्पत्तेरेव सकाशात्, एतन्निर्णीतेः 'स मानसाभावतोऽभावो नाक्षव्यापाराभावतः' इत्येतन्निश्चयात् कारणात्, अयमनन्तरोदितः 'न, अस्या एव विवादगोचरापन्नत्वात्' इत्यदोषोऽनपराध इति चेत् । एतदाशङ्क्याह— न, चक्षुर्व्यापाराभावेऽप्यस्याः अत एव तन्निर्णीतेः, समानत्वात् तुल्यत्वादिति, तथाहि— अत एव तथाविधविकल्पानुत्पत्तेरेव सकाशात्, एतन्निर्णीतेः सोऽक्षव्यापाराभावतोऽभावो न मानसाभावत इत्येतन्निश्चयात् कारणात्, इत्यपि वक्तुं शक्यत्वात् तुल्यत्वमिति भावनीयम् ॥

किञ्च, इदमपि मानसं तद्विषयमात्रग्राहकत्वेन न तद्भिन्नशक्तिकमिति, किञ्चानेन, निरंशैकस्वभावत्वाच्च वस्तुनोऽनुभवोऽपि न पटीयानपटीयांश्च युज्यते; अत्यन्ताऽसत उत्पादेन सर्वथा हेत्वन्वयतोऽभ्यासवासने च; अन्यथाऽसंपूर्णवस्तुग्रहणमपि स्यात्, तथा च न निरंशैकस्वभावमेवैतत् । न चान्यथाऽपटीयस्त्वादि, अनुभवस्य तन्मात्रग्रहणत्वात्, तदतिरिक्तरूपान्तराभावात्, अन्येनोपकाराद्ययोगादिति । एवमभ्यासवासनोपगमाद् नात्यन्तासत एवोत्पादः, सत्यस्मिंस्तयोर्वाङ्मात्रत्वात्, तदात्वातिरेकेणाऽऽकालं तदभावात्, पूर्वस्मादत्यन्तभिन्नत्वात्, तथापि तदभ्यासादावतिप्रसङ्गात् । इतीन्द्रियजमेवैतत् ॥

अभ्युच्चयमाह— किञ्चेत्यादिना । किञ्च, इदमपि मानसं स्वविषयानन्तरेत्यादिलक्षणवत्, तद्विषयमात्रग्राहकत्वेन प्रक्रमादक्षज्ञानविषयमात्रग्राहकत्वेन हेतुना, स्वलक्षणमात्रग्राहकत्वेनेत्यर्थः, न तद्भिन्नशक्तिकं नाक्षज्ञानभिन्नशक्तिकमिति । किञ्चानेन परिकल्पितेन, तथाविधविकल्पोत्पत्तौ समानमेतदक्षज्ञानेनेति भावः । पक्षान्तरपरिजिहीर्षयाह— निरंशैकस्वभावत्वाच्च कारणात्, वस्तुनः अनुभवोऽपि, प्रक्रमात्तदनुभवः, न पटीयानपटीयांश्च युज्यते, निरंशैकस्वभावाद् वस्तुनस्तथाविधैकस्वभावस्यैवाऽस्य भावात् ; तदेतद्भेदोऽपि न तथाविधविकल्पोत्पत्त्यनुत्पत्तिनिमित्तमिति प्रकृतयोजना । तथा,

अत्यन्तासत् उत्पादेन हेतुना, अनुभवस्य सर्वथा हेत्वनन्वयतः कारणान्, तत्तथाभावाभावेनाऽभ्यासवासने च 'अनुभवस्य न युज्येते' इति वर्तते, पौन.पुन्यकरणमभ्यासः, पूर्वानुभूतसंस्कारानुबोधश्च वासना, नैते अत्यन्तासत् उत्पादे भवत इति भावनीयम् । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह—
 अन्यथा एवमनभ्युपगमे, असंपूर्णवस्तुग्रहणमपि स्थान् अनुभवापटीयस्त्वादिभावेन । यदि नामैवं तत. किमित्याह— तथा च न निरंशैकस्वभावमेतद् वस्तु, किन्तु सांशानेकस्वभावमिति । न चान्यथोक्तं प्रकारं दिहाय, अपटीयस्त्वादि, आदिशब्दात्पटीयस्त्वग्रह', अनुभवस्याधिकृतस्य । कुत इत्याह— तन्मात्रग्रहणत्वाद् वस्तुमात्रग्रहणस्वरूपत्वात्, अनुभवस्य, तदतिरिक्तरूपान्तराभावात् तन्मात्रग्रहणतत्त्वातिरिक्तरूपान्तराभावात् । अभावश्चान्येन वस्तुव्यतिरिक्तेनोपकाराद्योगान् । ततश्च वस्तुग्रहणभेदकृतमेवापटीयस्त्वाद्यस्येति सांशानेकस्वभावमेतदिति स्थितम् । एवमभ्यासवासनोपगमान् कारणात् । किमित्याह— नात्यन्तासत् एवोत्पादः । कुत इत्याह— सत्यास्मिन् अत्यन्तासत् उत्पादे, तयोरभ्यासवासनयोः, वाङ्मात्रत्वात् । वाङ्मात्रत्वमेवाह— तदात्वातिरेकेण तदाभावातिरेकेण, आकालं यावदपि कालस्तावदपि, तदभावादत्यन्तासत् उत्पद्यमानस्याभावात्, अभावश्च पूर्वम्मादत्यन्तभिन्नत्वान् अत्यन्तासत् उत्पद्यमानस्य, तथाप्येवमपि, तदभ्यासादौ तस्यानुभवस्याभ्यासवासान्ताभावे; आतप्रसङ्गादनुभवान्तरस्याप्यभ्यासादिशून्यस्य तद्भावप्रसङ्गात् । इतीन्द्रियजमेतद् विज्ञानमाविष्टाभिलाषम् 'अहिरहि.' इत्येवमादीत्यधिकारोपसंहारः ॥

एतच्चानेकधर्मके वस्तुनि ज्ञानावरणान्छादितस्य प्रमातुस्तथाविधक्षयोपशमभावत उभयोस्तथास्वभावत्वेनावग्रहेहावायधारणारूपं प्रवर्तत इति । अनेकधर्मकत्वं च वस्तुनोऽनेकविज्ञानजनकत्वात्, योग्ययोगिभिर्भेदेनोपलब्धेः, अन्यथा तदभेदप्रसङ्गात्, द्वयोरपि तत्तन्निमित्तत्वात्, तद्भावभावित्वानुविधानात् ।

मरावल्पभावे महद्दर्शनमनिमित्तमिति चेत् । न, अल्पस्यैव तन्नि-
मित्तत्वात्, तदभावेऽभावात्, विप्रकर्षाद्युपप्लवात्, तत्तत्स्वभाव-
त्वात्, अन्यथा तदनुपपत्तेः, ततस्ततोऽन्यत्वाच्च; स्वभावभेदेन
व्यावृत्तेः; अन्यथा तदेकत्वप्रसङ्गात्, तदन्यत्वहेतुत्वेनाविशेषात्,
अन्यत्वस्य चाकल्पितत्वात्, कल्पितत्वे तत्त्वतस्तदभावापत्तेः ।

एतच्चेत्यादि । एतच्चाधिकृतज्ञानम्, अनेकधर्मके वस्तुनि घट-
रूपादौ, ज्ञानावरणाच्छादितस्य प्रमातुर्जीवस्य, तथाविधक्षयोपशम-
भावतो द्रव्यादिनिमित्तचित्रक्षयोपशमभावात्, उभयोः प्रमातृ-
विषययोः, तथास्वभावत्वेन चित्रग्राह्यग्राहकस्वभावत्वेन हेतुना, अ-
वग्रहेहावायधारणारूपं प्रवर्तत इति ग्रहणकवाक्यसमुदायार्थः ।
अवयवार्थं तु स्वयमेवाह ग्रन्थकारः— अनेकधर्मकत्वं च वस्तुन
इत्यादिना ग्रन्थेन । अनेकधर्मकत्वं च वस्तुनो घटरूपादेः । कुत
इत्याह— अनेकविज्ञानजनकत्वात् अनेकेषां विज्ञानजनकमनेकवि-
ज्ञानजनकं तद्भावस्तस्मात् । एकेनैव स्वभावेनैवं भविष्यतीत्याह—
योग्ययोगिभिः प्रमातृभिः, भेदेनोपलब्धेः संपूर्णाऽसंपूर्णधर्मसाक्षा-
त्करणेन दर्शनादित्यर्थः । अन्यथैवमनभ्युपगमे, तदभेदप्रसङ्गाद्
योग्ययोगिनोरभेदप्रसङ्गात् । प्रसङ्गश्च द्वयोरपि योग्ययोगिनोः, तत्त-
न्निमित्तत्वात् तस्या उपलब्धेस्तन्निमित्तत्वात् अधिकृतवस्तुनिमि-
त्तत्वात् । तन्निमित्तत्वं च तद्भावभावित्वानुविधानात् अधिकृत-
वस्तुभावभावित्वानुकरणात् । अतन्त्रमेतद्वर्वागृहशामित्येतदेवाह— म-
रावित्यादिना । मरौ विषये, अल्पभावेऽल्पस्य च्छगणादेः सत्तायां,
महद्दर्शनं महतो वत्सादेरिव दर्शनम्, अनिमित्तम्, अल्पस्याप्रतिभासनेन
निमित्तत्वायोगादिति चेत् । एतदाशङ्क्याह— न, अल्पस्यैव च्छगणादेः,
तन्निमित्तत्वाद् महद्दर्शननिमित्तत्वात् । तन्निमित्तत्वं च तदभावेऽभावात्,
अल्पाऽभावेऽभावाद् महद्दर्शनस्य । कथमिदमतत्प्रतिभासीत्याह—
विप्रकर्षाद्युपप्लवात् । विप्रकर्षो देशविप्रकर्षः, आदिशब्दात्
तथाविधज्ञानावरणक्षयोपशमपरिग्रहः, ताभ्यामुपप्लवाद् भ्रान्तेः । उप-

प्लवश्च तत्तत्स्वभावत्वात् तस्य विप्रकर्षादेः 'तत्स्वभावत्वादुपप्लव-
जननस्वभावत्वात् । इत्थं चैतदङ्गीकर्त्तव्यमित्याह-अन्यथा तदनुपपत्तेः,
अन्यथैवमनभ्युपगमे, तदनुपपत्तेरुपप्लवानुपपत्तेः, न ह्यसावन्यनिमित्तो-
ऽनिमित्तो वेति भावनीयम् । मूलसाध्य एव हेत्वन्तरमाह- ततस्ततो-
ऽन्यत्वाच्च । ततस्ततः सजातीयेतरादेर्विचित्राद् वस्तुनः, अन्यत्वाच्च
भिन्नत्वाच्च कारणात्, अनेकधर्मकं वस्त्विति । यदि नामैवं ततः किमि-
त्याह- स्वभावभेदेन व्यावृत्तेः ततस्ततः । किमित्येतदेवमित्याह-
अन्यथा एवमनभ्युपगमे, स्वभावभेदमन्तरेण ततस्ततो व्यावृत्त्यभ्यु-
पगम इत्यर्थः, तदेकत्वप्रसङ्गाद् व्यावर्त्यमानैकत्वप्रसङ्गात् । प्रसङ्गश्च
तदन्यत्वहेतुत्वेनाविशेषात् तस्य वस्तुनो व्यावृत्तिमतः अन्यत्वहेतुत्वेन
अविशेषाद् व्यावर्त्यमानानाम् ; तद्वि तेभ्योऽन्यत्, तदन्यत्वस्य च
त एव हेत्वः, यदेव चैकमपेक्ष्य तदन्यत्वं तदेवापरमपि, न चैतत्
तदभेदमन्तरेणेति हृदयम् । किमनेन कल्पितेनेत्याशङ्कानिरासा-
याह- अन्यत्वस्य चाकल्पितत्वात् तस्य व्यावृत्तिमतो व्यावर्त्य-
मानेभ्यः । इत्थं चैतदङ्गीकर्त्तव्यमित्याह- कल्पितत्वे तदन्यत्वस्य
तेभ्यः, तत्त्वत् परमार्थतः, तदभावापत्तेस्तस्य व्यावृत्तिमतोऽभावाप-
त्तेः, व्यावर्त्यमानाऽनन्यत्वेन ॥

स्वहेतुत् एव तत्तदन्येभ्योऽन्यत्वैकस्वभावं भवतीति चेत् ।
न, पटान्यत्वैकस्वभावान्यत्वे पटवत् कटादीनां तद्भावापत्तेः,
तथास्वभावादन्यस्वभावत्वात्, अचित्रस्यानेकान्यत्वैकत्वायोगे
तच्चित्रतयैकान्तैकत्वाभावात्, पारम्पर्येणानेकजन्यजनकत्वाच्च,
अन्यथा तद्भावासिद्धेः, परम्पराहेतुतोऽपि भावात्, तथाविधत-
द्भावभावित्वोपपत्तेः, पुष्कलस्य चानन्तरेणाप्ययोगात्, तदा त-
द्भावभावादिति । अनन्तरजन्यत्वमेव परम्पराजन्यत्वमिति चेत् ।
न, परम्पराजनकानामनन्तरजनकत्वायोगात्, तत्स्वभावादिभे-
दात्, तद्वेदेन च तत्तज्जनकत्वं न तदेव तत् ॥

पराभिप्रायमाह-स्वहेतुत् एव तद् वस्तु प्रस्तुतम्; तदन्येभ्यो व्या-

वर्त्यमानेभ्यः, अन्यत्वैकस्वभावम् । अन्यत्वमेवैकः स्वभावो यस्य तत्तथा भवतीति चेत् । एतदाशङ्क्याह-नेत्यादि । नैतदेवम् । कुत इत्याह-पटान्यत्वैकस्वभावान्यत्वे पटान्यत्वमेवैकः स्वभावो यस्य वस्तुनोऽधिकृतस्य तत्पटान्यत्वैकस्वभावं तस्मादन्यत्वं पटान्यत्वैकस्वभावान्यत्वं तस्मिन् पटान्यकत्वैकस्वभावान्यत्वे सति पटवदिति निदर्शनम्, कटशकटादीनां भावानां तद्भावापत्तेः पटभावापत्तेः ; आपत्तिश्च तथास्वभावात् पटान्यत्वैकस्वभावादधिकृतवस्तुनः ; अन्यस्वभावत्वात् कटादीनां पटभावापत्तिः, पटकटादिसमुदायान्यत्वैकस्वभावं कथं पटान्यत्वैकस्वभावमुच्यत इत्युच्यते, अचित्रस्यानेकान्यत्वैकत्वायोगात् । तथा चाह-अचित्रस्येत्यादि । अचित्रस्य विवक्षितवस्तुनः, एकस्वभावस्य अनेकान्यत्वैकत्वायोगे, अनेकेभ्यः पटादिभ्यः अन्यत्वमनेकान्यत्वं तस्यैकत्वमनेकान्यत्वैकत्वम्, तस्यायोगे, उक्तवत्तदेकत्वप्रसङ्गेन तस्मिन् सति तच्चित्रतया विवक्षितवस्त्वेकस्वभावस्य चित्रतया । किमित्याह-एकान्तैकत्वाभावात् । विवक्षितवस्तुनः, एकस्वभावस्येति प्रक्रमः । हेत्वन्तरमाह-पारम्पर्येणानेकजन्यजनकत्वाच्च अनेकधर्मकत्वं वस्तुन इति । पारम्पर्येणैकादिव्यवधानापेक्षया, जन्यश्च जनकश्च जन्यजनकः, अनेकेषां जन्यजनकः, अनेकजन्यजनकस्तद्भावस्तस्मात् । इत्थं चैतद्गङ्गीकर्तव्यमित्याह-अन्यथा एवमनभ्युपगमे, तद्भावासिद्धेरधिकृतवस्तुभावासिद्धेः । असिद्धिश्च परम्पराहेतुतोऽपि सकाशात्, भावादधिकृतवस्तुनः, न हि पितामहाद्यभावेऽपि पौत्रादिभाव इति भावनीयम् । इहैव युक्तिमाह-तथाविधतद्भावभावित्वापत्तेः । तथाविधमेकादिव्यवधानवच्च तत् तद्भावभावित्वं च परम्पराकारणभावभावित्वं चैतदेवोपपत्तिस्ततः । एतदप्यङ्गीकर्तव्यमित्याह-पुष्कलस्य च तद्भावभावितस्य, अनन्तरेणापि कारणेन, सहायोगात् । अयोगश्च तदा कारणादिकाले, तद्भावाभावात् कार्यादिभावाभावात् ; अन्यथा जन्यजनकत्वाभावः सव्येतरगोविषाणवदिति । अनन्तरजन्यत्वमेव कार्यस्य परम्पराजन्यत्वमिति चेत् । एतदाशङ्क्याह-

न, परम्पराजनकानां हेतूनाम्, अनन्तरजनकत्वायोगात् । अयोगश्च स्वभावादिभेदान्, स्वभावभेदः प्रतीतः, आदिशब्दात्, कालभेदपरिग्रहः । तद्वेदेन च स्वभावादिभेदेन च, तत्तज्जनकत्वे तेषामनन्तरपरम्पराहेतूनां, तज्जनकत्वे प्रक्रमाद् विवक्षितकार्यजनकत्वे । किमित्याह— न तदेव तत् नानन्तरजन्यत्वमेव परम्पराजन्यत्वमिति निगमनम् ॥

एवं जनकत्वेऽपि योजनीयमिति तच्चित्रस्वभावता, सुखदुःखादिहेतुत्वाच्च, स्वभावभेदेन सुखादिजनकत्वात्, तेषां चाद्यादिरूपत्वेन ज्ञानादन्यत्वात्, तत्स्वरूपेण वाह्यावेदनात्, ज्ञानभावेऽपि क्वचित्तदभावात्, तथानुभवसिद्धत्वात् । अज्ञानत्वे कथममीषामनुभवः?, इति चेत् । सत्त्वादिवत्कथञ्चिज्ज्ञानाभेदात्, तदुद्भवत्वेन तथा तज्ज्ञानरञ्जनात्, उभयोस्तत्स्वभावत्वात्, युगपत्प्रवृत्त्यविरोधात्, सुखादिज्ञाने तथानुभवसिद्धत्वात्, तत्तद्वचनसिद्धेश्च 'आविर्भावतिरोभावधर्मकं वस्तु न कृतार्थं प्रकृतिप्रवृत्तिः, तद्विरागात् तद्वृत्तिसंक्षयाच्च' इति वचनप्रामाण्यात् । तथा 'अनित्यता सर्वसंस्कृतानां, दुःखता सर्वसाश्रवाणां, शून्यानात्मकते सर्वधर्माणाम्, अविकारिणी तथाता' इति वचनप्रामाण्याच्चेत्यनेकधर्मकं वस्तु ॥

एवमित्यादि । एवमुक्तनीत्या, जनकत्वेऽपि योजनीयम् । पारम्पर्येणानेकजनकत्वादधिकृतवस्तुनः, अन्यथा तद्भावासिद्धेः ततोऽनेकभावासिद्धेः परम्पराहेतुनोऽपि भावादनकेषाम् । एव शेषमपि स्वयया योजनीयम् । इत्येवं, तच्चित्रस्वभावता तस्य वस्तुनश्चित्रस्वभावता । अनेकधर्मकत्वमित्यर्थः । हेत्वन्तरमाह— सुखदुःखादिहेतुत्वाच्च अनेकधर्मकं वस्तु । कथमतदेवमित्याह— स्वभावभेदेन सुखादिजनकत्वाद् वस्तुनः । आदिशब्दाद् दुःखमोहज्ञानादिग्रहः । न ते तन्कृतज्ञानतोऽन्ये, इत्याशङ्कापोहायाह— तेषां च सुखादीनामाद्यादिरूपत्वेन हेतुना, आल्हादरूपं सुखम्, परितापरूपं दुःखम्,

शेषश्चात्र- मांसे तद्घ समारटम् ॥
लेपनं च ॥

पेश्यस्तु तल्लताः ।

पिंशन्ति पेशयः “किलिषिलि-” ॥ (उणा-६०८) ॥ इति इः, इथां पेशयः,
तस्य मासस्य लतास्तल्लताः ॥ १ ॥

बुक्का हृद् हृदयं वृक्का सुरसं च तदग्निमम् ॥ २८७ ॥

बुक्कयते स्वादुत्वाद मृग्यते बुक्का “उक्षितक्ष्य-” ॥ (उणा-९००) ॥ इत्यनन्त-
पुंस्ययम् “क्तेटो-” ॥ ५।३।१०६ ॥ इत्यप्रत्यये तु बुक्का स्त्रियामावन्त, पुंलिङ्ग इति
गौड । भागुरिस्तु- “अप्रमासं भवेद् बुक्कम्” इति क्लीबमाह ॥ १ ॥ द्वियते हृद्
हृदयम् ॥ २ ॥ ३ ॥ वृज्यते वृक्का “निष्कतुरुष्क-” ॥ (उणा-२६) ॥ इति के निपात्यते,
स्त्रीलिङ्गोऽयम्, यद्ब्रौह - “स्त्रियां वृक्का बुक्क सुरसमद्वयो ” इति । वैजयन्तीकारस्तु-
“वृक्कौ पार्श्वगतौ गुलौ” इत्याह । सुष्ठु रस्यते सुरसम् तद् मासमग्निं मुख्यम्, “बुक्का-
ऽप्रमासं, हृदयं च जीवाधारपद्मम्, इत्यमर पृथक् पृथगाह ॥ ४ ॥ २८७ ॥

शुष्कं वल्लरमुत्तप्तम् ।

शुष्कं मासं वल्यते वल्लरं त्रिलिङ्ग “मीमासि-” ॥ (उणा- ४२७) ॥
इत्यूरः, वल्लं लुनातीति वा ॥ १ ॥ उत्तप्यते शोष्यते उत्तप्तम् ॥ २ ॥

पूयदूष्ये पुनः समे ।

पूयते दुर्गन्धीभवति, पूय पुक्लीबलिङ्ग ॥ १ ॥ दूष्यते दूष्यम् ॥ २ ॥

मेदोऽस्थिकृद् वपा मांसात् तेजो-जे गौतमं वसा ॥ २८८ ॥

मेद्यते निह्यते मेदः, क्लीबलिङ्ग “अस्” ॥ (उणा-९५२) ॥ इत्यस्
अस्थीनि करोत्यस्थिकृत् ॥ २ ॥ उष्यते वपा, भिदाद्यडि साधु ॥ ३ ॥ मासश्चदात्
तेजो-जे मासतेजः, मांसजम् ॥ ४ ॥ ५ ॥ गौतमस्येदं गौतमम् ॥ ६ ॥ उष्यतेऽङ्गेऽनया
भिदाद्यडि वसा “शुद्धस्य मासस्य यः स्नेहः सा वसा” इति वैद्याः ॥ ७ ॥ २८८ ॥

गोदं तु मस्तकस्नेहो मस्तिष्को मस्तुलङ्गकः ।

गवते गोदं कुमुदादौ निपात्यते, क्लीबलिङ्गोऽयम्, वाचस्पतिस्तु “गोदोऽस्त्री
मस्तुलङ्गकम्” इति पुंस्यप्याह ॥ १ ॥ मस्तकस्य स्नेहो मस्तकस्नेहः ॥ २ ॥ मस्त-
कमिष्यति गच्छति मस्तिष्कः, पुंक्लीबलिङ्ग ॥ ३ ॥ मस्तकमालिङ्गति मस्तुलङ्ग-
पृषोदरादित्वात्, के मस्तुलङ्गकः ॥ ४ ॥

अस्थि कुल्यं भारद्वाजं मेदस्तेजश्च मज्जकृत् ॥ २८९ ॥

मांसपित्तं श्वदयितं कर्करो देहधारकम् ।

मेदोजं कीकसं सारः

अस्यते अस्थि, ह्रीवलिङ्ग. "वीसञ्जि-" ॥ (उणा-६६९) इति धिक् ॥ १ ॥
कुले शरीरे माधु कुन्यं, पुंश्रीवलिङ्ग ॥ २ ॥ भरद्वाजस्येदं भारद्वाजम् ॥ ३ ॥ मेदस-
स्तेजो मेदस्तेज ॥ ४ ॥ मज्जानं करोति मज्जकृन् ॥ ५ ॥ २८९ ॥ मामस्य पित्तं मांस-
पित्तम् ॥ ६ ॥ शुनो दयितं श्वदयितम् ॥ ७ ॥ करोति मज्जानं कर्कर- "किन्मृभ्य-"
(उणा-४३५) ॥ इति बहुवचनान् कर ॥ ८ ॥ देह धारयति देहधारकम् ॥ ९ ॥
मेदनो जातं मेदोजम् ॥ १० ॥ कीति कसति कीकसं, ककन्तेऽत्र श्वान इति व-
"कनस-" ॥ (उणा-५७३) ॥ इत्यने निपात्यते ॥ ११ ॥ सरति कालान्तरमिति
सार , हृष्टं देश्यां, संस्कृतेऽपि, यद्वैजयन्ती- "अथास्थि कीकसं हृष्टम्" इति ॥ १२ ॥

करोटिः शिरसोऽस्थानि ॥ २९० ॥

करोट्यते करोटिः, स्त्रीलिङ्ग. "खरेभ्य इ." ॥ (उणा-६०६) टय
करोटी ॥ १ ॥ २९० ॥

कपालकर्परौ तुल्यौ

कपिः सांत्र, कप्यते कपालं, पुंश्रीवलिङ्ग. "कृकृम्-" ॥ (उणा-४७५) ।
इत्यालः, कं पालयति वा तस्य मूर्ध्नोऽर्धास्थि, घटादिराण्डेऽप्युपचारात् ; शकलमपि ॥ १ ॥
कपते कापालकानां कर्परः "जठर-" ॥ (उणा-४०३) ॥ इत्यने निपात्यते ॥ २ ॥

पृष्ठस्याऽस्थि कशेरुका ।

कस्यते कशेरु, ह्रीवलिङ्ग. "शिमुने-" ॥ (उणा-८११) ॥ इति साधु
स्त्रियामपि वैजयन्ती यदाह- "पृष्ठस्यास्थि कशेरुका" इति, के कशेरुका स्त्रीलिङ्ग
'कशेरुका' इति मुनि ॥ १ ॥

शाखाऽस्थानि स्यान्नलकं

नलति नलम् ॥ १ ॥

पार्श्वोऽस्थि वङ्किपशुके ॥ २९१ ॥

वङ्कते वर्काभवति वङ्कि, स्त्रीलिङ्ग "तश्चिङ्गप-" ॥ (उणा-६९२) ॥ इति
रि. ॥ १ ॥ पूर्यते मांसादिना पशुः "प्रः शु" ॥ (उणा-८२५) ॥ इति शुः, के
पशुसा ॥ २ ॥ २९१ ॥

शरीरास्थि करङ्क. स्यात् कंकालमस्थिपञ्जरः ।

करोति आदिभिगति करङ्कः "किरोऽङ्को रो लश वा" ॥ (उणा-६२) ॥ १ ॥
मस्यते कंकालं, पुंश्रीवलिङ्गः "चावालरङ्काल-" ॥ (उणा-७८८) ॥ १ ॥ इत्यने

मज्जा तु कौशिकः शुक्रकरोऽश्वः स्नेहसम्भवौ ॥२९२॥

मज्जत्स्यस्थानि मज्जा “उक्षितक्षि-” ॥ (उणा-९००) ॥ इत्यन्, नन्तः
पुस्यथम् । वाचस्पतिस्तु- “अथ मज्जा द्वयो ” इति छियामप्याह । वयं तु ब्रूम -
मज्ज्यतेऽनयाऽस्थिनीति भिदाद्यदि मज्जा स्त्रीलिङ्ग ॥ १ ॥ कुशिकस्यायं कौशिक
॥ २ ॥ शुक्रं करोति शुक्रकर ॥ ३ ॥ अस्थिशब्दात् स्नेहसम्भवौ- अस्थिस्नेहः,
अस्थिसम्भव, अस्थितेजोऽपि ॥ ४ ॥ ५ ॥ २९२ ॥

शुक्रं रेतो बलं बीजं वीर्यं मज्जसमुद्भवम् ।

आनन्दप्रभवं पुंस्त्वमिन्द्रियं किट्टवर्जितम् ॥२९३॥

पौरुषं प्रधानधातुः

शोचन्त्यस्मिन् पतिते शुक्र “ऋज्यजि-” ॥ (उणा-३८८) ॥ इति किट्ट र ॥
१ ॥ रीयते स्रवति रेत, क्लीबलिङ्ग- “सुरीभ्या तस्” ॥ (उणा-९७८) ॥ २ ॥
चलति बलम् ॥ ३ ॥ वेति प्रजायतेऽनेन बीजं “वियौ जक्” ॥ (उणा-१२७) ॥
४ ॥ वीर्यते वीर्यं, वीरे क्लीबे साधु वा ॥ ५ ॥ मज्जत समुद्भवति मज्जसमुद्भवम् ॥
६ ॥ आनन्दात् प्रभवति आनन्दप्रभवम् ॥ ७ ॥ पुंसो भाव पुंस्त्वम् ॥ ८ ॥ इन्द्र-
स्यात्मनो लिङ्गमिन्द्रियम् “इन्द्रियम्” ॥ ७ १ १ ७ ४ ॥ इति साधु ॥ ९ ॥ किट्टेन
मलेन वर्जितं किट्टवर्जितम् ॥ १० ॥ २९३ ॥ पुरुषस्य भाव कर्म वा पौरुषं “पुरुष-
हृदया-” ॥ ७ १ १ ७ ० ॥ इत्यण् ॥ ११ ॥ प्रधानं चासौ धातुश्च प्रधानधातु ॥ १२ ॥

लोम रोम तनूरुहम् ।

शिरसोऽन्यत्र रोहति रोम, क्लीबलिङ्गः “सात्मनात्मन्-” ॥ (उणा-९१६) ॥
इति मनि निपात्यते, लत्वे लोम, ल्यट इति वा ॥ १ ॥ २ ॥ तन्वा रोहति
तनूरुहं, पुंक्लीबलिङ्गौ, मूलविभुजादित्वात् क ॥ ३ ॥

शेषश्चात्र- रोमणि तु त्वग्मलं बालपुत्रक ।

कूपजो मामनिर्यास परित्राणम् ॥

त्वक् छविश्छादनी कृत्तिश्चर्माऽजिनमसृग्धरा ॥ २९४ ॥

तनोति त्वक्, “तनेर्द्वच्” ॥ (उणा-८७२) ॥ इति ड्वच्, सिरामा-
सादि त्वचतीति वा ॥ १ ॥ छयन्त्येना छवि स्त्रीलिङ्गौ “छविच्छिवि-” ॥ (उणा-
७०६) ॥ इति वौ निपात्यते ॥ २ ॥ छयते रुविराद्यनया छादनी ॥ ३ ॥
कृत्यतेऽमौ कृत्ति, ॥ ४ ॥ चरत्यनेन चर्म “मन्” ॥ (उणा-९११) ॥ इति मन्
॥ ५ ॥ अजन्ति तदिति अजिन “विपिनाऽजिना-” ॥ (उणा-२८४) ॥ इति मन्
निपात्यते ॥ ६ ॥ असृग् धरत्यसृग्धरा’ अमरस्तु- “अजिन चर्म कृत्ति स्त्री”
इति कृत्यादीन् त्रान् मृगयोनित्वात् पृथगाह. अत एव ‘मृगा अजिनयोनेय’

इत्युक्त्वा । वानस्पतिरपि-

“तत्राजिनं मृगयोनिर्मृगाथ प्रिदवादयः ।

मृगप्रकरणे तेऽथ प्रोक्ता अजिनयानय ” ॥ १ ॥

इत्याह ॥ २९४ ॥

वक्षसा तु क्षसा स्नायुः

वस्ते छादयति कायं वक्षसा “फल्गव-” ॥ (उणा-५७३) ॥ इत्यने निपा-
त्यते ॥१॥ लस्यति निरस्यति क्षसा, स्त्रीलिङ्गः ॥२॥ क्षायति वेष्टयत्यर्थानीति स्नायुः
“कृवापा-” ॥ (उणा-१) ॥ इत्युण्, स्त्रीलिङ्गोऽयं, स्त्रीवेऽपि वानस्पतिर्यदाह-
“अथ स्नायुर्नमा तन्त्रो ” इति ।

शेषश्चात्र- अथ क्षसा । तन्त्रानिस्सारुतावान सन्धिघन्धनमित्यपि ॥

नाड्यो धमनयः सिराः ।

नडस्यवतौ नाड्य शीपियात्, नडे. मौत्रस्य वा घञ्; नडिरपि ॥१॥ घम्यन्ते
धमनय स्त्रीलिङ्गः ॥२॥ सिन्ध्वन्त्यर्थानीति सिरा. “ऋज्यवि-” ॥ (उणा-३८८) ॥
इति सिद् २. ॥३॥

कण्डरा तु महान्नायुः

कण्डते माद्यति कण्डरा “जट्ट-” ॥ (उणा-४०३) ॥ इत्यने निपा-
त्यते ॥१॥ महती स्नायुर्महान्नायु “स्नायुर्नमात् ” इति वैया. ॥२॥

मलं किट्टं

मलने धारयति कय मलं, मृज्यते वा “मञ्जिरन्मा-” ॥ (उणा-४७२) ॥
इति डिदल ॥१॥ क्रेडति किट्टं, पुंल्लिङ्गात्वेना ॥२॥

तदक्षिजम् ॥ २९५ ॥

दूषीका दूषिका

तद् मउमक्षिगंभवम् ॥२९५॥ दूषयति चक्षुर्दूषीता ‘ म्यमिहपि -॥ (उणा-
४६) ॥ इतीह ॥१॥ “कास्व-” ॥ (उणा ३८) ॥ इतीह दूषिका ॥२॥

जैहं कुलुकं

जिहाया जातं जले जैहं, कोल्यति संस्त्रायति कुलुकं “इञ्जुसायुक्त-” (उणा-
५७) ॥ इत्युहं निपात्यते ॥१॥

पिप्पिका पुनः ।

तन्त्यं

प्यनो पिप्पिका “कुञ्जि-” ॥ (उणा-४५) ॥ इतीह निपात्यते ॥१॥

कार्णं तु पिञ्जुषः

कर्णयोर्जातं मल कार्णं पिञ्ज्यते पिञ्जूष “कोरदूषाटरूप-” ॥ (उणा-
५६१) ॥ इत्यूपे निपात्यते ॥१॥

शिङ्घाणो घ्राणसम्भवम् ॥ २९६ ॥

शिङ्घयते शिङ्घाण “बहुलम्” ॥५११२॥ इत्याण “घात्शिङ्घि-” ॥ (उणा-
७०) ॥ इत्याणके, शिङ्घाणकोऽपि ॥१॥२९६॥

सृणीका स्यन्दिनी लालाऽऽस्यासवः कफकूचिका ।

सरति मुखात् सृणीका “सृणीकास्तीक-” ॥ (उणा-५०) ॥ इतीके निपात्यते
‘सृणीका’ इत्यमर । स्यन्दतेऽवश्यं स्यन्दिनी ॥२॥ लाति लाला, “भिह्लाच्छभल्ल-” ॥
(उणा-४६४) ॥ इति ले निपात्यते, लालयते वा ॥ ३ ॥ आस्यस्यासव आस्यासव-
॥ ४ ॥ कफस्य कूचिकेव कफकूचिका ॥ ५ ॥

मूत्रं वस्तिमलं मेहः प्रस्रावो नृजलं स्रवः ॥ २९७ ॥

मूत्रयते मूत्रं, मूयते वा “सुमूत्र-” (उणा-४४९) ॥ इति कित् ऋट् ॥१॥
वस्तेर्मल वस्तिमलम् ॥२॥ मेहह्यनेन मेह ॥३॥ प्रसूयते प्रस्राव “प्रात् सुद्धस्तो”
॥५॥३॥६७॥ इति घञ् ॥४॥ नुर्नरस्य जलं नृजलम् ॥५॥ स्रवणं स्रव ॥६॥२९७॥

पुष्पिका तु लिङ्गमलं

पुष्पयति पुष्पिका ॥१॥

विड् विष्टाऽवस्करः शकृत् ।

गूथं पुरीष शमलोच्चारौ वर्चस्कवर्चसी ॥२९८॥

‘विशति पक्वाशये विट्, स्त्रीलिङ्ग, वैजयन्तीकारस्तु- “उच्चारो विड् न ना”
इति क्लीवेऽप्याह । अमरस्तु- “विष्टाविषौ स्त्रियाम्” इति मूर्धन्यं पमाह ॥१॥
विशति विष्टा “पीविशि-” ॥ (उणा-१६३) ॥ इति कित् ठ ॥२॥ अव- अध
कीर्यतेऽवस्कर, वर्चस्कादित्वात् साधु ॥ ३ ॥ शक्तोत्पनेन शकृत्, क्लीबलिङ्ग-
“शक ऋत्” ॥ (उणा-८९१) ॥ ४ ॥ गूयत उत्सृज्यते गूथं पुंक्लीबलिङ्ग
“पथयूथ-” ॥ (उणा-२३१) ॥ इति ये निपात्यते ॥ ५ ॥ पृणाल्यन्त्र पुरीषं
“ऋजिशूपृभ्य कित्” ॥ (उणा-५५४) इतीष ॥ ६ ॥ शाम्यति शमलं “शमेर्व
च वा” ॥ (उणा-४७०) ॥ इत्यल ॥ ७ ॥ उच्चार्यते प्रेर्यते उच्चार ॥ ८ ॥ वर्च
एव वर्चस्कं, पुंक्लीबलिङ्ग ॥ ९ ॥ वर्चनेऽनेन वर्च. “अम्” ॥ (उणा-९५२) ॥
इत्यम् अशुच्यपि ॥१०॥२९८॥

वेपो नेपथ्यमाकल्पः

वेवेष्टयत्तं त्रैयो वस्त्राऽलङ्कारमाल्यप्रसाधनैर्गङ्गाभा, पुंकीवल्लिः । “विधानि
चेत्त” इत्यन्ये तालव्य शमाहुः ॥ १ ॥ नेत्रयो पथ्यं नेपथ्यं, पृषोदरादिभ्यान् ॥
२ ॥ आकल्पते आकल्प ॥३॥

परिकर्माऽङ्गसक्रिया ।

मलपरिमार्जनार्थं क्रिया परिकर्म स्नानोद्धर्तनादि ॥१॥

उद्धर्तनमुत्सादनं

उद्धर्त्यतेऽनेनोद्धर्तनम् ॥१॥ उग्राद्यनेऽनेनोत्सादनम् ‘उच्छादनम्’ इत्यन्ये ॥२॥

अङ्गरागो विलेपनम् ॥ २०,९ ॥

अङ्गं रज्ज्वतेऽनेनाङ्गराग ॥१॥ विलिप्यतेऽनेन विलेपनम् ॥२॥२९९॥

चर्चिकयं समालभनं चर्चा स्यात्

चर्चिकाया चर्चने गाधु चर्चिकयं, चन्दनादिना पुण्ड्रादिकेपणम् ॥१॥ लाभम्
प्रेरण इत्यत्र लाभणस्थाने लभणं इति गभ्याः पठन्ति, तस्य समालभ्यतेऽनेन समाल-
भनम् ॥२॥ चर्च्यतेऽनया चर्चा ‘भीषिभूषि-’ ॥५॥३॥०९॥ इत्यङ् ॥ ३ ॥

मण्डनं पुनः ।

प्रसाधनं प्रतिकर्म

मण्ड्यतेऽनेन मण्डनं तिलरूपत्रभङ्गादि ॥१॥ प्रसाधयतेऽनेन प्रसाधनम् ॥२॥
प्रत्यङ्गं कर्म प्रतिकर्म ॥३॥

माष्टिं. स्याद् मार्जना मृजा ॥ ३०० ॥

मार्ज्यते माष्टिं शुद्धिगार्त्रं श्वादिभ्य न् क्तिः ॥ १ ॥ मार्जनं गार्जना ॥ २ ॥
भिदाद्यदि मृजा ॥ ३ ॥ ३०० ॥

वामयोगस्तु चूर्णं स्यात्

वास्तने मुगन्ध्याक्रियते येन युज्यमानेन सिधेयं न वामयोग ॥१॥ चूर्णं
चूर्णं पटवामादिश्लोदः, पुंकीवल्लिः ॥२॥

विष्टातः पटवामकः ।

विष्टेन कुतूचूर्णादिनाऽर्थाति विष्टातः ॥१॥ पटो वास्तनेऽनेन पटवाम, के
पटवामक ॥२॥

गन्धमाल्यादिना यस्तु संस्कारः नोऽविवासनम् ॥३०१॥

गन्धमाल्यादिना गुणादानम्, आदिश्लोदार्, धूताद्याभर्गवसाम्येऽपिवाग-
नम् ॥ १ ॥ ३०१ ॥

निवेश उपभोगः

निष्पूर्वो विशिरुपभोगार्थे वर्तते, निवेशनं निवेश ॥१॥ उपभुक्तिरुपभोग ॥२॥

अथ स्नानं सवनमाह्वः ।

स्नायते स्नानम् ॥१॥ सूयते सवनम् ॥२॥ आह्वनमाह्वः, आह्वानोऽपि ॥३॥

कर्पूरागुरुकक्कोलकस्तूरीचन्दनद्रवैः ॥ ३०२ ॥

स्याद् यक्षकर्दमो मिश्रैः

यक्षप्रियः कर्दमो यक्षकर्दम , धन्वन्तरिस्तु-

“कुङ्कुमागुरुकस्तूरी कर्पूर चन्दन तथा ।

महासुगन्धमित्युक्तं नामतो यक्षकर्दम ” ॥१॥

इत्याह ।

वर्तिर्गात्राऽनुलेपनी ।

वर्तते वर्ति , नटादौ प्रासिद्धा “विदिवृतेर्वा” ॥ (उणा-६१०) ॥ इति इ , स्त्री-
लिङ्गोऽयम् ॥१॥ गात्रमनुलिप्यतेऽनया गात्रानुलेपनी ॥ २ ॥

चन्दनागरुकस्तूरीकुङ्कुमैस्तु चतुःसम् ॥ ३०३ ॥

चन्दनादीनि चत्वारि समान्यत्र चतु समम् ॥ १ ॥ ३०३ ॥

अगुर्वगरुजाहं लोहं कृमिजवंशिके ।

अनार्यजं जोङ्गकं च

न गुरु अगुरु, अगत्यनेनाऽगरु “ कटिकुटि ” ॥ (उणा-८१२) ॥ इत्युप-
लक्षणत्वाद्गुरु , अगं ऋणद्धि इति वा, पुंस्त्रीवल्लिङ्गावेतौ ॥ १॥ २ ॥ राज्ञोऽर्हं राजार्हम्
॥ ३ ॥ रोहति लोहं पुंनपुंसक ॥ ४ ॥ कृमिभिर्जन्यते कृमिज “क्वचित्”
॥ ५ । १ । १७१ ॥ इति डः; कृमिजगन्धमित्यपि ॥ ५ ॥ वंशोऽस्या अस्ति वंशि-
का, स्त्रीस्त्रीवल्लिङ्ग “वंशाभं वशकम्” इत्यमरटीका ॥६॥ अनार्यदेशे जातमनार्यजम्
॥७॥ जोङ्गकगिरिभवत्वाद् जोङ्गकम् ॥ ८ ॥

शेषध्वात्र- अगुरौ प्रवरं शृङ्गं शीर्षकं मृदुलं लघु ॥

वरद्रुम परमद प्रकरं गन्धदारु च ॥

मङ्गल्या मल्लिगन्धि यत् ॥ ३०४ ॥

मल्लिकाकुसुमगन्धि यद्गुरु सो मङ्गले साधुर्मङ्गल्या ॥१॥ ३०४ ॥

कालागरुः काकतुण्डः

काकस्य तुण्ड इव कृष्णवर्णत्वात् काकतुण्ड. ॥१॥२॥

वेवेद्यतं वेपो वम्राऽन्वशाग
चेत " इत्यन्ये तालव्य शमाहु ॥

२ ॥ आकल्पने आकल्प ॥३॥

परिकर्माऽङ्गसक्रिया

मलपरिभार्जनार्थं क्रिया परिक

उद्धर्तनमुत्सादनं

उद्धृत्येऽनेनोद्धर्तनम् ॥१॥ उस्ता

अङ्गरागो विलेपनम् ॥

अङ्गं रज्यतेऽनेनाङ्गराग ॥१॥ वि

चर्चिक्रय समालभनं च

चर्चिकाया चर्चने साधु चर्चिक्रयं

प्रेरण इत्यत्र लाभणस्थाने लभण इति ग
भनम् ॥२॥ चर्च्यतेऽनया चर्चा "भीषि

मण्डनं पुनः ।

प्रसाधनं प्रतिकर्म

मण्वतेऽनेन मण्डनं तिलकपत्रभद्रादि

प्रत्यङ्गं कर्म प्रतिकर्म ॥३॥

मार्ष्टिः स्याद् मार्जेना मृजा ॥

माज्यते मार्ष्टिं शुद्धिनात्रं श्राद्धित्व न् कि

भिदायाडि मृजा ॥ ३ ॥ ३०० ॥

वासयोग्मनु चूर्णं स्वान्

वास्यते मुग्धनीक्रियते येन युजमानेन मिश्रण

चूर्णं पट्टामादिशोद , पुष्पावलिक ॥२॥

पिष्टात. पट्टवासकः ।

पिष्टेन कुट्टनचूर्णादिनाऽपि पिष्टात. ॥३॥ पट्टो वाभ्यनेऽ

पट्टामकः ॥२॥

गन्धमाल्यादिना यन्तु मन्कार. सोऽधिवामनम् ॥

मन्कारान्तेन दिना मुग्धाभानम्, आदिशब्दात्, भूतादिभिरपिपाम् ।

न्य ॥ १ ॥ ३०१ ॥

निवेश उपभोगः

निष्पूर्वो विशिरुपभोगार्थं वर्तते, निवेशनं निवेश. ॥१॥ उपभुक्तिरुपभोग ॥२॥

अथ स्नानं सवनमाह्वः ।

स्नायते स्नानम् ॥१॥ सूयते सवनम् ॥२॥ आह्वनमाह्वः, आह्वावोऽपि ॥३॥

कर्पूरागुरुकक्कोलकस्तूरीचन्दनद्रवैः ॥ ३०२ ॥

स्याद् यक्षकर्दमो मिश्रैः

यक्षप्रियः कर्दमो यक्षकर्दम, धन्वन्तरिस्तु-

“कुङ्कुमागुरुकस्तूरी कर्पूर चन्दन तथा ।

महासुगन्धमित्युक्तं नामतो यक्षकर्दम.” ॥१॥

इत्याह ।

वर्तिर्गात्राऽनुलेपनी ।

वर्तते वर्ति, नटादौ प्रसिद्धा “विदिवृतेर्वा” ॥ (उणा-६१०) ॥ इति इ, स्त्री-
लिङ्गोऽयम् ॥१॥ गात्रमनुलिप्यतेऽनया गात्रानुलेपनी ॥ २ ॥

चन्दनागरुकस्तूरीकुङ्कुमैस्तु चतुःसम् ॥ ३०३ ॥

चन्दनादीनि चत्वारि समान्यत्र चतुःसम् ॥ १ ॥ ३०३ ॥

अगुर्वगराजार्हं लोहं कृमिजवंशिके ।

अनार्यजं जोङ्गकं च

न गुरु अगुरु, अगल्यनेनाऽगरु “कटिकुटि” ॥ (उणा-८१२) ॥ इत्युप-
लक्षणत्वाद्गुरु, अगं रुणद्धि इति वा, पुंस्त्रीवल्लिङ्गवेतौ ॥ १॥ २ ॥ राज्ञोऽर्हं राजार्हम्
॥ ३ ॥ रोहति लोहं पुंनपुंसक ॥ ४ ॥ कृमिभिर्जन्यते कृमिजं “क्वचित्”
॥ ५ ॥ १ । १७१ ॥ इति ङः, कृमिजग्धमित्यपि ॥ ५ ॥ वंशोऽस्या अस्ति वशि-
का, स्त्रीवल्लिङ्ग. “वंशाभं वशकम्” इत्यमरटीका ॥६॥ अनार्यदेशे जातमनार्यजम्
॥७॥ जोङ्गकगिरिभवत्वाद् जोङ्गकम् ॥ ८ ॥

शेषश्चात्र- अगुरौ प्रवरं श्यङ्गं शीर्षकं मृदुलं लघु ॥

वरद्वम परमद प्रकरं गन्धदारु च ॥

मङ्गल्या मल्लिगन्धि यत् ॥ ३०४ ॥

मल्लिकाकुसुमगन्धि यद्गुरु सो मङ्गले साधुर्मङ्गल्या ॥१॥ ३०४ ॥

कालागरुः काकतुण्डः

काकस्य तुण्ड इव कृष्णवर्णत्वात् काकतुण्डः ॥१॥२॥

श्रीखण्डं रोहणद्रुमः ।

गन्धसारो मलयजश्चन्दने

धिया जण्डयति ध्रान्वण्डम् ॥१॥ रोहणाचलस्य द्रुमो रोहणद्रुम ॥२॥ गन्धेन
सार्धं गन्धसारः ॥३॥ मलयजैर्जातो मलयजः ॥४॥ चन्दने हाथेऽनेन चन्दनः
“स्वमिरमि-” ॥ (उणा-२६१) इत्यन , तत्र पुंस्त्रीचलिङ्गावर्ता ॥ ५ ॥

शेषश्चात्र- चन्दने पुनरेकाङ्गं मद्रध्रीफलक्रीलपि ॥

हरिचन्दने ॥ ३०५ ॥

तैलपर्णिकगोशीर्षी

हरेरिन्द्रम्य चन्दनं हरिचन्दनं, पुंस्त्रीचलिङ्गन्तत्र, हरिकपिलं वा तन्नाति शानं
पीतं चाहु , तत्र ॥१॥ ३०५ ॥ तैलपर्णी गिरिगङ्गरोऽस्त्यस्य तैलपर्णिकः ॥ २ ॥
गोशीर्षीगिरिभवत्वाद् गोशीर्ष , पुंस्त्री, गौडस्तु- “गोशीर्ष तैलपर्णिकम्” इति ऋषी-
वमाह ॥ १ ॥

पत्राङ्गं रक्तचन्दनम् ।

कुचन्दनं ताम्रसारं रञ्जनं तिलपर्णिका ॥ ३०६ ॥

पत्रेवज्जति पत्राङ्गं पत्राङ्गं त्वेनदपत्रंश ॥१॥ रक्तं च तश्चन्दनं च रक्तचन्द-
नम् ॥२॥ कौ चन्दनं कुचन्दनम् ॥३॥ ताम्रेपत्रकणेपु सारं ताम्रसारम् ॥४॥ रञ्जनेऽनेन
रञ्जनम् ॥ ५ ॥ तिलस्यैव पर्णान्यस्यामितलपर्णी सैव तिलपर्णिका, तिलपर्णी नदी
आकरोऽस्या इत्येके ॥ ६ ॥ ३०६ ॥

जानिकोशं जातिफलं

जातौलनाया कौश जानिकोशं जातिमन्नाल्पम् ॥ १ ॥ जाल्याः फलं जाति-
फलम् ॥ २ ॥

शेषश्चात्र- जातौफले मौमनसं पुट्टरं मद्रशोण्डरम् ।

कौशफलम् ॥

कर्पूरो हिमवाल्मुका ।

घनसारः सिताम्रश्च चन्द्रः

कल्पते कर्पूर , पुंस्त्रीचलिङ्ग . “मौमसि-” (उणा-२२७) ॥ इतूर ॥१॥ हिमा
नामौ चान्दर च हिमवाल्मुका ॥२॥ घनसारे सारोऽस्य घनसार ॥३॥ सिताम्रग-
दस्यवान् सिताम्रः ॥४॥ हाटस्तनात् चन्द्रः, पुंस्त्रीचलिङ्ग , चन्द्रपर्वाया अपि ॥ ५ ॥

अथ मृगनाभिजा ॥ ३०७ ॥

मृगनाभिर्मृगमद्रः कम्तूरी गन्धधूल्यपि ।

मृगनाभेर्जाता मृगनाभिजा ॥१॥३०७॥ मृगनाभिजन्यत्वाद् मृगनाभिः, स्त्री-
लिङ्ग ॥२॥ मृगस्य मदो मृगमद ॥३॥ कसति कस्तूरी “सिन्दूरकर्चूर-” ॥ (उणा-
४३०) ॥ इत्युरे निपात्यते, विकसति सौगन्ध्यमस्या वा, के स्तूयत इति वा, पृषोदरा-
दित्वात् ॥४॥ गन्धप्रधाना धूर्ली गन्धधूली ॥ ५ ॥

कश्मीरजन्म घुसृणं वर्णं लोहितचन्दनम् ॥ ३०८ ॥

वाहीकं कुङ्कुमं वह्निशिखं कालेयजागुडे ।

सङ्कोचपिशुनं रक्तं धीरं पीतनदीपने ॥ ३०९ ॥

कश्मीरेषु जन्माऽस्य कश्मीरजन्म ॥ १ ॥ घृस्यतेऽनेनाङ्गं, घुषते कान्तिं
करोति वा घुसृणं “भ्रूणतृण-” ॥ (उणा-१८६) ॥ इति णे-निपात्यते ॥ २ ॥
वर्ण्यते वर्णम्, वर्ण्यमपि ॥ ३ ॥ लोहितचन्दनमिव लोहितचन्दनम् ॥४॥३०८॥
वाहीकेषु जातं वाहीकं “कोपान्त्या-” ॥ ६।३।५६ ॥ इत्यण्, वाहिकमपि ॥ ५ ॥
कुचयते कुङ्कुमं, क्लीवलिङ्गोऽयं, वाचस्पतिस्तु- “निदाघेऽपि कुङ्कुमं सुखं स्यात्”
इति पुष्याह । “कुन्दुमलिन्दुम-” ॥ (उणा-३५२) ॥ इति निपात्यते ॥६॥ वह्नेरिव
शिखा केशरोऽस्य वह्निशिखम् ॥ ७ ॥ कु ईपल्लीयते कालेयम् ॥८॥ जागर्ति मण्डनेषु
जागुडं “विहड-” ॥ (उणा-१७२) ॥ इति निपात्यते ॥ ९ ॥ संकोचस्य पिशुनं
सूचकं सकोचपिशुनं, संकोचं पिशुनं चेति द्वयमपि ॥ १० ॥ रञ्जनाद् रक्तमत
एवाऽसृक्संज्ञम् ॥ ११ ॥ धीरं स्थिररागम् ॥ १२ ॥ पीतयत्यङ्गं पीतनम् ॥ १३ ॥
दीपयति दीपनम् ॥१४॥३०९॥

शेषश्चात्र-

कुङ्कुमे तु करटं वासनीयकम् ॥

प्रियङ्गुपीतं कावेरं घोरं पुष्परज्जोवरम् ।

कुसुम्भं च जवापुष्पं कुसुमान्तं च गौरवम् ॥

लवङ्गं देवकुसुमं श्रीसंज्ञं

ल्यते लवङ्गं “पतितमि-” ॥ (उणा-९८) ॥ इत्यङ्ग ॥ १ ॥ देव युति-
मत, देवानां वा कुसुमं देवकुसुमम् ॥ २ ॥ श्रीसंज्ञं श्रीपर्यायमित्यर्थः ॥ ३ ॥

अथ कोलकम् ।

ककोलकं कोशफलं

कोलति कोल, के कोलकम् ॥ १ ॥ कचते दीप्यते ककोलं “पिञ्जोलककोल-” ॥
(उणा-४९५) ॥ इत्योले निपात्यते, के ककोलकम् ॥ २ ॥ कोशे फलान्यस्य
कोशफलम् ॥ ३ ॥

कालीयकं तु जापकम् ॥ ३१० ॥

कालायी भूमौ भवं कालीयं, के कालीयकम् ॥ १ ॥ जापकाद्रिभवत्याजापकं
फालानुसार्यमपि ॥२॥३१०॥

यक्षधूपो बहुरूपः सालवेष्टोऽग्निवल्लभः ।

सर्जमणिः सर्जरसः रालः सर्वरसोऽपि च ॥ ३११ ॥

यक्षं धूपयति यक्षधूपः ॥ १ ॥ नानाकृतिगन्धत्वाद् बहुरूप ॥ २ ॥ सा-
लस्य वेष्टो नियोगः सालवेष्ट ॥ ३ ॥ अग्नेर्वल्लभोऽग्निवल्लभः ॥ ४ ॥ सर्जस्य तर्गेर्म-
णिवि सर्जमणि ॥ ५ ॥ सर्जस्य रसः सर्जरसः ॥ ६ ॥ राति प्रीति रालः, पुंक्रांय-
लिङ्ग “भिल्लाच्छभल” ॥ (उणा-४६४) ॥ इति ले साधुः ॥ ७ ॥ सर्वे रसा
अत्र सर्वरस ॥८॥३११॥

धूपो वृकात् कृत्रिमाच्च तुरुष्कः सिल्हपिण्डकौ ।

वृकशब्दात् कृत्रिमशब्दान् परो धूपः, वृकान् धूपयति वृकधूपः, कृत्रिम-
धूपार्थं धूपश्च कृत्रिमधूपः ॥१॥२॥ तुरुष्को यवनदेशजः, पुंक्रांयलिङ्गः ; यावनोऽपि
॥३॥ मिलन् उच्छे, सिलति सिल्ह, दन्त्यादि- सिलं जहानीति वा ॥४॥ पिण्डयति
पिण्डक, द्रव्यान्तरैः सह पिण्डित स्वरूपाद् न न्यवते ॥ ५ ॥

पायसस्तु वृक्षधूपः श्रीवासः सरलद्रवः ॥ ३१२ ॥

पयसो वृक्षधूपस्य पायस, पयसो विकार मृत्तिरित्यन्वये “पयोद्रोयं.”
॥६॥२॥३५॥ इति य प्राप्नोति ॥ १ ॥ वृक्षस्य धूपो वृक्षधूप ॥ २ ॥ श्रियो वागः
श्रीवासः ॥ ३ ॥ सरलस्य देवदारुभेदस्य द्रवो निर्वाणः सरलद्रव ॥ ४ ॥ ३१२ ॥
दोषधात्र-

वृक्षधूपे तु श्रीवेष्टो दधिधोरपृतालयः ॥

स्थानात् स्थानान्तरं गच्छन् धूपो गन्धपिशाक्तिका ।

धूप्येतेऽनेनेति धूपः गन्धद्रव्ययोगविशेष, गन्धेन पिशाचिरेताऽऽस्तालिना-
दस्यगतिन्वाद् गन्धापिशाक्ति ॥ १ ॥

स्थासकस्तु हस्तधिम्वं

निष्ठन्ने स्थासकः “कीनकपेचकः” ॥ (उणा-३३) ॥ इत्येते निपात्यते
॥ १ ॥ हस्ता धिम्वं हन्धिम्वं उद्गमादिरचितम् ॥ २ ॥

अलङ्कारस्तु मूपणम् ॥ ३१३ ॥

परिष्काराऽऽभरणे च

अलं कियतेऽनेनेत्तरलङ्कारः कट्टेकेयूगादिः ॥ १ ॥ भूप्येतेऽनेने भूपणं पुर्म-

बलिङ्ग ॥ २ ॥ २१३ ॥ परिष्कियतेऽनेन परिष्कार ॥ ३ ॥ आ संमन्ताद् भ्रियते
शोभाऽनेनाऽऽभरणम् ॥ ४ ॥

चूडामणिः शिरोमणिः ।

चूडाया शिरसि च मणिश्चूडामणि ,शिरोमणि , चूडारत्नशिरोरत्ने अपि॥१॥२॥

नायकस्तरलो हारान्तर्मणिः

नयति शोभा नायक ॥ १ ॥ तरतीव कान्त्या तरल "मृदिकन्दि-" ॥
(उणा-४६५) ॥ इत्यलः ॥ २ ॥ हारस्याऽन्तर्मध्ये स्थितो मणिः ॥

मुकुटं पुनः ॥ २१४ ॥

मौलिः किरीटं कोटीस्मुष्णीषं

मङ्कयते मण्ड्यते शिरोऽनेन मुकुटं "मङ्केर्मकमुकौ च" ॥ (उणा-१५४) ॥
इत्युटः, मुखे कुट्यते वा, क्लीवोऽयम्, पुंस्यपि वैजयन्ती, यदाह-"मौलिः कोटीरमुष्णीषं
किरीटं मुकुटोऽस्त्रिया" मकुटोऽपि ॥१॥२१४॥ मूयते शिरसि मौलि , पुञ्जीलिङ्गः
॥ २ कीर्यते किरीटं "तृकृकृपि-" ॥ (उणा-१५१) ॥ इति किरीट. ॥ ३ ॥ कुटति
कोटीरं "कृशृपृ-" ॥ (उणा-४१८) ॥ इतीर. ॥ ४ ॥ उपत्यभ्रियमुष्णीषं "उषेर्णो-
ऽन्तश्च" ॥ (उणा-५५६) ॥ इतीष , किरीटाद्यालयः पुञ्जीवलिङ्गा. ॥ ५ ॥

पुष्पदाम तु ।

मूर्ध्नि माल्यं माला सक्

मूर्धनि पुष्पदाम मालैव माल्य, भेषजादित्वाट् व्यण् ॥ १ ॥ मान्ति पुष्पा-
प्यस्या माला "शामाश्या-" ॥ (उणा-४६२) ॥ इति लः, मल्यते धार्यते इति वा
॥२॥ सज्यते पुष्पै सक् "कृतसंपदादि-" ॥५॥३१११४॥ इति क्विपि "ऋत्विज्दिश्-"
॥२॥१॥६९॥ इति गत्व, सूत्रपाठाद् ऋतो रत्वं च, सत्तैरौणादिकः कञ् वा ॥ ३ ॥

गर्भकः केशमध्यगम् ॥ ३१५ ॥

केशमध्यगतं पुष्पदाम गर्भस्थत्वाद् गर्भक ॥१॥२१५॥

प्रभ्रष्टकं शिखालम्बि

शिखालम्बि दाम केशमध्यात् प्रभ्रश्यति स्म प्रभ्रष्टं, के प्रभ्रष्टकम् ॥ १ ॥

पूरोन्यस्तं ललामकम् ।

लाति शोभा ललाम मुण्डमालाख्यं "सात्मन्नात्मन्-" ॥ (उणा-९१६) ॥
इति मनि निपात्यते, लडत्यप्रे ललाममित्यदन्त वा "रुक्मग्रीष्म-" ॥ (उणा-३४६) ॥
इति मे निपात्यते, द्वाभ्यामपि के ललामकम् ॥ १ ॥

तिर्यग्-वक्षसि वैकक्षं ॥ ३१६ ॥

यज्ञोपवीतन्यायेन तिर्यग् वक्षसि विशिप्तं दाम विकक्षाया भवं वैकक्षम् ॥ १ ॥

प्रालम्बमृजुलम्बि यत् ॥ ३१६ ॥

कण्ठादुभयतो वक्षसि लम्बमानं पुष्पदाम प्रालम्बते प्रालम्बम् ॥ १ ॥ ३१६ ॥

सन्दर्भो रचना गुम्फः श्रन्थनं ग्रन्थनं समाः ।

सन्दर्भणं सन्दर्भं ॥ १ ॥ रचनं रचना ॥ २ ॥ गुम्फनं गुम्फः ॥ ३ ॥
श्रथ्यते श्रन्थनम् ॥ ४ ॥ प्रथ्यते ग्रन्थनम् ॥ ५ ॥

शेषश्चात्र-

रचनायां परिस्यन्द प्रतियत्नः ॥

तिलके तमालपत्रचित्रपुण्ड्रविशेषकाः ॥ ३१७ ॥

तिलति तिलकं, पुंक्लीवलिङ्ग “ध्रुव्निद-” ॥ (उणा-२९) ॥ इति किदकः,
तिलाकृतिर्वा तत्र ॥ १ ॥ तमालपत्राकृति कस्तूर्यादिना ललाटे तमालपत्रम् ॥ २ ॥
चित्र्यने चित्रं, चित्रकमपि ॥ ३ ॥ पुण्यति पुण्ड्र्यते वा पुण्ड्रे “खुरक्षुर-” ॥
(उणा-३९६) ॥ इति रे निपात्यते ॥ ४ ॥ विशिनष्टि ललाटं विशेषक, पुंक्लीव-
लिङ्गः, इत्थं तिलकभेदा, एतेषा पर्यायत्वं त्वदूरविप्रकर्षात् ॥ ५ ॥ ३१७ ॥

आपीडशेखरोत्तंसाऽवतंसाः शिरसः स्रजि ।

आपीड्यते शिरस्यापीडः ॥ १ ॥ शाखति व्याप्नोति शिर शेखर “शाखेरि-
देतौ चात-” ॥ (उणा-४००) ॥ इत्यरः ॥ २ ॥ उत्तंस्यतेऽनेनोत्तस, अवतंस्यते-
ऽनेनाऽवतंस अवतनोति शोभामिति वा “व्यवाभ्या-” ॥ (उणा-५६५) ॥ इति
स “वाऽवाप्योस्तनि-” ॥ ३।२। १५६ ॥ इत्यवस्य वादेशे वतसोऽपि । शेखरादय-
पुंक्लीवलिङ्गा ॥ ३ ॥ ४ ॥

उत्तरौ कर्णपूरेऽपि

उत्तरावुत्तंसावतंसौ कर्ण पूरयति कर्णपूरस्तत्र, पुंक्लीवलिङ्गोऽयम् ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥

पत्रलेखा तु पत्रतः ॥ ३१८ ॥

भङ्गिल्लिताङ्गुल्यः

द्राविड-कालिङ्गादिभेदेन पत्राकृतिर्लेखा पत्रलेखा स्त्रीणा कपोलस्तनमण्डलादिपु
कस्तारिकादिभि पत्ररचना ॥ १ ॥ पत्रशब्दाद् भङ्गयादय - पत्रभङ्गि ॥ २ ॥
पत्रवल्लि ॥ ३ ॥ पत्रलता ॥ ४ ॥ पत्राङ्गुली, एव पत्रवल्लरी-पत्रमञ्जरात्यादयोऽपि ॥ ५ ॥

पत्रपाश्या ललाटिका ।

पत्रपाशानां सर्म्मूहः पत्रपाश्या “पाशादेश्च ल्य ” ॥६।२।२५॥१॥ ललाटे भवा
ललाटिका ललाटमण्डनं “कर्णललाटात् कल्” ॥ ६ । ३ । १४१ । २ ॥

वालपाश्या पारितथ्या

वालपागे साधुर्वालाश्या वालवन्धनार्थं मुक्तावलयः, वालेषु पाशासमूहो वा
फुल्लतिकादि ॥ १ ॥ परितस्तथाभवा पारितथ्या “परिमुखादेरव्ययीभावात्”
॥५६।३।१३६ ॥ इति ज्य, पायतिथ्या वा ॥ २ ॥

कर्णिका कर्णभूषणम् ॥ ३१९ ॥

कर्णे भवा कर्णिका “कर्णललाटात् कल्” ॥ ६ । ३ । १४१ । १ । ३१९ ॥

ताडङ्गस्तु ताडपत्रं कुण्डलं कर्णवेष्टकः ।

ताड्यते कर्णोऽनेन ताडङ्ग “रालापाका-” ॥ (उणा-६३) ॥ इत्युपलक्षणा-
दङ्गः ॥१॥ ताडपत्रनिर्मितत्वात् ताडपत्रं, ताडपत्रवत् सौवर्णोऽपि ॥ २ ॥ कुण्डते
दह्यलक्ष्मीं कुण्डल, पुंस्त्रीवल्लिङ्ग “मृदिकन्दि-” ॥ (उणा-४६५) ॥ इत्यल,
॥ ३ ॥ कर्णं वेष्टते कर्णवेष्ट के कर्णवेष्टक , द्वौ द्वौ भिन्नार्थावित्येके ॥ ४ ॥

शेषश्चात्र- अथ कुण्डले कर्णादर्शं ॥

उत्क्षिप्तिका तु कर्णान्दुः

उत्क्षिप्यते स्मोत्क्षिप्तिका ॥१॥ कर्णयोरन्यते कर्णान्दु “भृमृतु-” ॥ (उणा-
७१६) ॥ इति बहुवचनादु स्त्रीलिङ्ग , वैजयन्तीकारस्तु-“कर्णान्दू” इत्यूकारान्त-
माह ॥ २ ॥

वालिका कर्णपृष्ठगा ॥ ३२० ॥

चलते वालिका ॥१॥३२०॥

त्रैवेयकं कण्ठभूपा

प्रीवाया जातं त्रैवेयकं “कुलकुक्षि-” ॥६।३।१२॥ इत्येयकञ् ॥१॥

लम्बमाना ललन्तिका ।

लम्बमाना कण्ठभूपा लडत्यलङ्करोति ललन्ती, के ललन्तिका ॥ १ ॥

प्रालम्बिका कृता हेम्ना

हेम्ना कृता कण्ठभूपा प्रालम्बते प्रालम्बिका ॥१॥

उरःसूत्रिका तु मौक्तिकैः ॥ ३२१ ॥

मौक्तिकैः कृता कण्ठभूपा, उरसि सूत्रमस्या उर सूत्रिका ॥१॥३२१॥

हारो मुक्तातः प्रालम्बस्रक्कलापावलीलताः ।

हियतेऽनेन चित्तमिति हार , पुञ्जीलिङ्ग ॥१॥ मुक्ताशब्दात् परेऽप्रालम्बादयः,
मुक्ताप्रालम्ब ॥२॥ मुक्तास्रक् ॥३॥ मुक्ताकलापः ॥४॥ मुक्तावली ॥५॥ मुक्ता-
लता ॥६॥

देवच्छन्दः शतं

उत्तरत्र 'पञ्च हारफलं लता' इत्यतो लता इति सम्बध्यते तेन शतंलतेति
लभ्यते, देवानां छन्दोऽभिप्रायोऽत्र देवच्छन्दः ॥१॥

साष्टं त्विन्द्रच्छन्दः सहस्रकम् ॥ ३२२ ॥

अष्टोत्तर सहस्रं लताः, इन्द्रस्य छन्दोऽत्रेन्द्रच्छन्दः ॥१॥ ३२२ ॥

तदर्धं विजयच्छन्दः

सत्येन्द्रच्छन्दस्यार्धं चतुरधिकानि लताना पञ्चशतानीत्यर्थं , विजयाय च्छन्दोऽत्र
विजयछन्दः ॥१॥

हारस्त्वष्टोत्तरं शतम् ।

लतानामष्टोत्तरं शतम् ॥१॥

अर्धं रश्मिकलापोऽस्य

अस्य हारस्यार्धं चतुष्पञ्चाशलता इत्यर्थं , रश्मीना कलापोऽत्र रश्मिकलापः ॥१॥

द्वादश त्वर्धमाणवः ॥ ३२३ ॥

द्वादश लता उत्तरस्मादर्धेन माणव इव लघुत्वाद्वर्धमाणवः ॥१॥ ३२३ ॥

द्विर्द्वादशार्धगुच्छः स्यात्

द्विगुणिता द्वादश लताश्चतुर्विंशतिरित्यर्थं , गुच्छस्यार्धमर्धगुच्छः ॥१॥

पञ्च हारफलं लताः ।

पञ्चलताः, हारस्य फलमत्र हारफलम् ॥ १ ॥

अर्धहारश्चतुःषष्टिः

चतु षष्टिलताः, अर्धं हारस्यार्धहारः ॥ १ ॥

गुच्छमाणवमन्दराः ॥३२४ ॥

अपि गोस्तनगोपुच्छावर्धमर्धं यथोत्तरम् ।

यथोत्तरमर्धमर्धं यथा अर्धहारस्यार्धं द्वान्त्रिंशद्वताः, गुह्यच्छादनाद् गुच्छः ॥१॥

गुच्छार्धं षोडश लता अल्पत्वाद् माणव ॥१॥ माणवार्धमष्टौ लता मन्द्यते स्तूयते
मन्दर ॥ १ ॥ ३२४ ॥ मन्दरार्धं चतस्रो लता गोस्तनवलम्बमाना. ॥१॥ गोस्तन-
स्यार्धं द्वे लते गोपुच्छाकृतित्वाद् गोपुच्छ. ॥ १ ॥ अन्ये तु-

“चतु षष्टिलतो हारोऽथाष्टहीनो यथोत्तरम् ।

रश्मिकलापो माणवकोऽर्धहारोऽर्धगुच्छक ॥ १ ॥

कलापच्छन्दो मन्दरस्य गुच्छसप्ततियष्टिक. ।” इत्याहु ॥

अथोपसंहारमाह-

इति हारा यष्टिभेदात्

इत्येवं लताभेदाच्चतुर्दश हारा इति ॥

एकावल्येकयष्टिका ॥ ३२५ ॥

कण्ठिकाऽपि

यष्टिलता सरिकेलेकार्था एका यष्टिरस्या एकयष्टिका, एका आवलते एका-
वली ॥ १ ॥ २ ॥ ३२५ ॥ कण्ठति कण्ठते वा कण्ठा, के कण्ठिका ॥ ३ ॥

अथ नक्षत्रमाला तत्संख्यमौक्तिकैः ।

नक्षत्रसंख्यै सप्तविंशत्या मौक्तिकैर्नक्षत्रमालेव नक्षत्रमाला ॥ १ ॥

केयूरमङ्गदं बाहुभूषा

के बाहुशीर्षे यौति केयूरं, पृषोदरादित्वात् ॥ १ ॥ अङ्गं दयतेऽङ्गदम् “अङ्ग-
दो दोर्भूषा ” इति पुंस्यमर ॥ २ ॥ ३ ॥

अथ करभूषणम् ॥ ३२६ ॥

कटको वलयं पारिहार्यावापौ च कङ्कणम् ।

हस्तसूत्रं प्रतिसरः

करस्य भूषणं करभूषणम् ॥ १ ॥ ३२६ ॥ कटति कटकः “वृकृतु-” ॥
(उणा-५४०) ॥ इत्यक ॥ २ ॥ वलते वलयं “कुगुवालि-” ॥ (उणा-३६५) ॥
इत्ययः ॥ ३ ॥ परिहारे भव पारिहार्यः “परिमुखादे-” ॥ ६ । ३ । १३६ ॥ इति
व्यः, पारिवद् हियते वा परिहार्य एव वा, प्रज्ञादित्वाद् पारिहार्यमित्यन्ये ॥ ४ ॥
आ उप्यते आवाप ॥ ५ ॥ कङ्कते हस्तं कङ्कणम् ॥ ६ ॥ हस्ते सूत्र्यते हस्तसूत्रम् ।
एते सप्त पुंङ्गीवलिङ्गा ॥ ७ ॥ प्रतिसरति प्रतिसर, त्रिलिङ्ग, केचित्तु कङ्कणादीन्
मङ्गल्यसूत्रवाचकत्वेन पृथगाहुः ॥ ८ ॥

ऊर्मिका त्वङ्गुलीयकम् ॥ ३२७ ॥

ऊर्मिप्रतिकृतिरूर्मिका ॥ १ ॥ अङ्गुल्या भवमङ्गुलीयं “ जिह्वामूलाङ्गु-” ॥
६ । ३ । १२७ ॥ इतीय , केऽङ्गुलीयकम् । ‘अङ्गुच्छलं’ देश्याम् ॥ २ ॥ ३२७ ॥

सा साक्षराऽङ्गुलिमुद्रा

सा ऊर्मिकाऽक्षराङ्किता अङ्गुल्या मोदते, अङ्गुलीं मुद्रयति वाऽङ्गुलिमुद्रा ॥१॥

कटिसूत्रं तु मेखला ।

कलापो रसना सारसनं काञ्ची च सप्तकी ॥ ३२८ ॥

कटे सूत्रं कटिसूत्रम् ॥१॥ भीयते मेखला “मिग खलश्चैव” ॥ (उणा-४९७) ॥
इति खल., मुहु स्खलतीति वा, मेहनस्य खं मेहनखं तस्य माला वा पृषोदरादित्वात्
॥२॥ कल्पते कलापः “कलेराप ” ॥ (उणा-३०८) ॥३॥ अश्नुते कटिं रसनां, स्त्री-
र्क्षावलिङ्ग. “अशो रश्नादौ” ॥ (उणा-२७०) ॥ इत्यन. ॥ ४ ॥ सारं सनोति सार-
सनम् ॥५॥ कञ्चते दीप्यते, कञ्च्यते वध्यते वा काञ्चि “कमिवमि-” ॥ (उणा-
६१८) ॥ इति णौ साधु, डया काञ्ची ॥६॥ सपति समवैति सप्तकी “कीचक-” ॥
(उणा-३३) ॥ इत्यके निपात्यते, उत्तरत्र ‘पुंस्कटिस्था’ इतिवचनादत्र स्त्रीकथ्यामिति
लभ्यते ॥७॥ ३२८ ॥

शेषश्चात्र- मेखला तु लालिनी कटिमालिका ॥

सा शृङ्खलं पुंस्कटिस्था

सा मेखला पुंस्कटिस्था शीर्यते शृङ्खल त्रिलिङ्ग “श्रो नोन्तो ह्रस्वश्च” ॥ (उणा-
४९८) ॥ इति खल, शृङ्गै, खलतीति वा ॥१॥

किङ्कणी क्षुद्रघण्टिका ।

कङ्कते याति कटिं किङ्कणि “कङ्केरिच्चाऽस्य वा ॥ (उणा-६३९) ॥ इत्यणि,
डयां किङ्कणी, किङ्किक्कणतीति वा । ‘किङ्कणीत्येके ॥ १ ॥ क्षुद्रा अल्पा घण्टिका
घुर्घरकाख्या ॥२॥

शेषश्चात्र- अथ किङ्कण्या घर्घरी विद्या विद्यामणिस्तथा ॥

नूपुरं तु तुलाकोटिः पादतः कटकाङ्गदे ॥ ३२९ ॥

मञ्जीरं हंसक शिञ्जिनी

नुवति स्तौतीव नूपुरं, पुंक्लीवलिङ्ग “श्वशुर-” ॥ (उणा-४२६) ॥ इत्युरे नि-
पात्यते ॥१॥ तुलाकृतेर्जहाया कोटिरिव तुलाकोटि, पुंक्लीवलिङ्ग ॥२॥ पादशब्दात्
कटकाङ्गदे पादस्य कटक पादकटकं, पुंक्लीवलिङ्ग ॥३॥ पादोऽङ्गदमिव पादाङ्गदम ॥४॥
॥३२९॥ मञ्जि सौत्रो मञ्जति मञ्जीर “कृशृपृ-” ॥ (उणा-४१८) ॥ इतीर-
मञ्जु मधुरमीरयति वा पृषोदरादित्वात्, हंसवत् कायति हंसकं, पुंक्लीवलिङ्गावेतौ ॥५॥
॥६॥ शिङ्गेऽव्यक्तं शब्दं करोति शिञ्जिनी, प्रहादित्वाद् णिन् ॥७॥

कृती कृतार्थश्च विज्ञोऽभिज्ञो वैज्ञानिकोऽपि च ।
 विदग्धे छेक-च्छेकालौ छेकिलश्च, कलाविदि ॥ ७ ॥
 कलाज्ञश्च कलज्ञोऽपि, क्षुण्णः संस्कृतवाचकः ।
 तृतीयवर्गप्रान्त्याप्तो, वक्नुर्वग्नु-वचक्नुकौ ॥ ८ ॥
 वाग्मिनि स्यात्, वक्तरि तु वदावद-वदौ समौ ।
 अवाक्श्रुतावेडमूकानेडमूकावनेडकः ॥ ९ ॥
 कलमूकश्चान्ध-शठ-मूर्खवाच्यपि संमतः ।
 सतामनेडमूकश्चाऽस्फुटवाचि तु काहलः ॥ १० ॥
 लोहलोऽपि जड-कडौ, ज्ञायके विदुरस्तथा ।
 विन्दुस्त्रिक-तुर्यवर्गमध्ये कटुर-कद्वरौ ॥ ११ ॥
 अत्यन्तकुत्सिते, क्षिण्णुर्णान्तो निराकरिण्णुके ।
 प्रियंवदे शक्नु-शक्नौ वदान्यश्च वदन्ययुक् ॥ १२ ॥
 दानशीलेऽप्यमू, मूर्खे बालिशो बाडिशो जडः ।
 जलो मुहेर-मुहिरावायोऽयःपूर्वशूलिकः ॥ १३ ॥
 भवेद् रामसिके, लोकप्रीणके तु पृण-प्रिणौ ।
 प्रीणश्च लोकपूर्वाः स्युः, परायत्ते परात्परौ ॥ १४ ॥
 वश-वन्तौ गृह्यकश्च गृह्या-ऽऽगृह्यकसंयुतः ।
 नायके नेत्र-नेतारावीडीश ईश्वरस्तथा ॥ १५ ॥

१ तृतीयवर्गस्य टकारः, चतुर्थवर्गस्य दकारश्च मध्ये ययोरेतादृशौ कटुर-
 कद्वरावित्यर्थः । २ वदान्य-वदन्यौ । ३ आयोऽयःशब्दौ पूर्वौ यस्य तादृशः
 शूलिकशब्द आय.शूलिक अय.शूलिकश्चेत्यर्थः । ४ लोकम्पृणः, लोकम्प्रीणः,
 लोकम्प्रीणश्चेत्यर्थः । ५ परवशः, परवांश्चेत्यर्थः । ६ ईद्, तालव्यशन्तः ।

पति-पाती ऋज-रिजाविडीडौ डान्तिमावुभौ ।
 ह्रस्व-दीर्घादी^१ प्रभुयुग् विभुश्चाप्यथ वेतने ॥ १६ ॥
 भृति-भृत्ये भर्म भर्मण्या कर्मण्याऽथ भारिके ।
 भारवाड् भारवाहश्चाप्यथो वार्तावहे जने ॥ १७ ॥
 वैवधिको विवधिको वीवधिकोऽथ भारके ।
 भरो विवधो वीवधः स्यादथो भारयष्टिका ॥ १८ ॥
 विहङ्गिका विहङ्गिमा, विक्रान्ते शूर-सूरकौ ।
 कातरे भीरुको भीरुभीलुकस्त्रस्नु-त्रस्तकौ ॥ १९ ॥
 भृशाकुले समुत्पिञ्ज उत्पिञ्जल-कपिञ्जलौ ।
 अथो महेच्छेऽनुदार उदारोदात्तकावपि ॥ २० ॥
 दयालौ तु कृपालुः स्यात् कृपारुरनुकम्पने ।
 कारुण्यं करुणा हिंसे हिंसीरोऽपि, निवर्हणे ॥ २१ ॥
 विशारणं विशरणं निर्वासन-प्रवासने ।
 उद्वासनं, वधारहे तु शैर्षच्छेदिकसंयुतः ॥ २२ ॥
 शीर्षच्छेद्यो, मृते प्रेत-परेतौ, तदहेऽर्पणे ।
 तदर्थं चोर्ध्वदेहिकमौर्ध्वदेहिकमित्यपि ॥ २३ ॥
 ऊर्ध्वदैहिकमप्यग्न्याधाने तु मृतदाहगे ।
 चिति-चित्या-चिताः प्रोक्ताः, ऋजौ तु प्राञ्जलोऽञ्जसः ॥ २४ ॥
 अनृजौ तु शठः शण्ठो, धूर्ते व्यंशक-व्यंसकौ ।
 शठ-शण्ठौ च षण्ठेऽपि, जालिके मायि-मायिकौ ॥ २५ ॥

१ ह्रस्वदीर्घादी ययोस्तौ डकारान्तौ इद् ईद् चेत्यर्थः । २ अधिकरणे कृत् । ३ मृतदाहं गच्छतीति मृतदाहगस्तस्मिन्, अग्न्याधानविशेषणमिदम् ।

मायावी, दाण्डाजनिको दण्डाजनिक इत्यपि ।
 मायायां शठता-शाठ्ये, व्याजे लक्ष्यं तु लक्षयुक् ॥२६॥
 संख्यायामपि, पिशुने मत्सरो मत्सरी खलः ।
 प्रखलः खुल्लकः क्षुल्लः क्षुद्रकः क्षुद्रसंयुतः ॥ २७ ॥
 कौलीने वादिको जाते जातो जातात्परो मतः ।
 तस्करे चोरटश्चोर-चौरौ पाटच्चरान्वितः ॥ २८ ॥
 पटच्चरश्चौरकर्म चौर्यं चोरिका स्तेनवत् ।
 स्तेयं स्तेन्यं, हतधने लोप्त्रं लोत्रं च लोद्रकम् ॥२९॥
 मन्दे त्वलस आलस्यश्चतुरे दक्ष-दक्षिणौ ।
 उष्णकोष्णौ, दातरि तु स्यादुदारोऽनुदारयुक् ॥ ३० ॥
 बहुप्रदे स्थूललक्षः स्थूललक्ष्योऽपि यान्तिमः ।
 दानेहतिरंहितिश्च प्रादेशन-प्रदेशने ॥ ३१ ॥
 निर्वापणं निर्वपणं, याचके तु वनीपकः ।
 वनीयक-वनबकौ, प्रार्थनायां तु याचना ॥ ३२ ॥
 याञ्छेषणाऽध्येषणापि भवितरि भविष्णुयुक् ।
 भूष्णुर्भविष्यति भवी भाव्यथो स्यात् प्रसारिणि ॥३३॥
 विसारी च विसृमरो विसृत्वरयुतो मतः ।
 लज्जाशीले तु लज्जालुर्लज्जूः स्यात्, क्षमिता क्षमी ॥३४॥
 क्षन्ता सहिष्णुः सहने, ईर्ष्यालुः कुहने स्मृतः ।
 ईर्ष्युश्च, क्रोधने क्रोधी, बुमुक्षायां तु रोचकः ॥३५॥

रुचिः क्षुधा-क्षुधौ, तृष्णक् तृषिते तृष्णकोऽपि च ।
 क्षुदसहे क्षुधारुः स्यात् क्षुधालुः, शीतकाऽसहे ॥ ३६ ॥
 शीतारुश्च सशीतालुः, पिपासायां तृषा-तृषौ ।
 तृष्णा-तृषौ च, लिप्सायां त्रयोऽन्त्या अपि, भक्षके ॥ ३७ ॥
 आशितश्चाशिरो, भक्ते कुरुः कूरं च दग्धिका ।
 भिस्साटा भिस्सटा भिस्सा, दधिसर्वरसाग्रके ॥ ३८ ॥
 दधिमण्डं मण्डमपि, भक्तमण्डे तु प्रौङ्स्त्रवः ।
 निप्रात् स्रावश्च, श्राणायां विलेपी च विलेपिका ॥ ३९ ॥
 विलेपनी विलेप्याऽपि क्वाथिका कथिकाऽपि च ।
 तरलं तरला, सूपे सूदोऽप्यथ तिलान्नके ॥ ४० ॥
 कृसर-त्रिसरौ पुंस्त्री, पिष्टके पूष-पूषकौ ।
 पूषिकायां पौलि-पौल्यौ पूलिका पोलिकापि च ॥ ४१ ॥
 पूषली चेषत्पके त्वभ्यूषाऽभ्योषाऽभ्युषास्त्रयः ।
 निष्ठानोऽस्त्री तेमने स्यात्, सठः पत्रफलादिके ॥ ४२ ॥
 शाकं साकं हरितके, करम्भो दधिसक्तुषु ।
 करम्भोऽपि, घार्तिके तु पूरः स्याद् घृत-पिष्टतः ॥ ४३ ॥
 घृतवरोऽवसेकिमे वटको वटसंयुतः ।
 स्नेहभृष्टतण्डुलेषु भरुजी भरुजापि च ॥ ४४ ॥

१ तृडादयस्त्रयः शब्दा लब्धुमिच्छायामपीत्यर्थः । २ प्रस्त्रव, आस्त्रवश्च ।
 ३ निप्रशब्दाभ्यां परः स्रावशब्द, निस्त्राव-प्रस्त्रावाधिति यावत् । ४ दधि-
 प्रधानेषु सक्तुष्वित्यर्थः । ५ घृतपूर, पिष्टपूर इत्यर्थः । ६ स्नेहैर्घृतादिभिः
 सह भृष्टेषु भर्जितेषु तण्डुलेषु ।

मर्मराले पर्पटश्चपटः, पृथुके चैः पुटः ।
 चिपिटश्चिपिटिका शर्करायामुपला सिता ॥ ४५ ॥
 सितोपला मधुधूलौ खण्डो वर्गद्वितीयखः ।
 फाणिते स्यात्तु मत्स्याण्डी मत्स्यण्डिश्च मत्स्यण्ड्यपि ॥ ४६ ॥
 मत्सण्डी खण्डतो योज्या शर्करा सर्करापि च ।
 शिखरण्यां रसाला स्याद् रसिता मार्जितायुता ॥ ४७ ॥
 मार्जिता, मुद्गादिरसे यूर्यूषस्त्रिषु जुषयुक् ।
 दुग्धे गव्यं गोरसश्च रसोत्तमरसे समे ॥ ४८ ॥
 क्षीरस्य विकृतौ कूर्चिः कूर्चीका कूचिकान्विता ।
 कूर्चिकापि किलाटी स्यात् किलाटा च किलाटयुक् ॥ ४९ ॥
 द्रप्स-द्रप्स्ये दध्न्यघने, हविष्य-हविषी घृते ।
 रसायन-गोरसौ द्वौ घोले, तत्रे त्वरिष्टयुक् ॥ ५० ॥
 रिष्टमौदश्चित्तौदश्चित्के संस्कृत उदश्चिति ।
 पिच्छिले विजलं प्रोक्तं विजिलं विज्जलं विजम् ॥ ५१ ॥
 विजेविलं विजिपिलमारनाले तु काञ्चिकम् ।
 काञ्चिकं च सुवीराऽऽम्लं सौवीरं चाभितः षुतम् ॥ ५२ ॥
 कुल्माषाभिषुतं चैव कुल्माषं चार्धराद्धके ।
 माषादौ तु कुल्माषः स्यात् कुल्मासश्चाप्युपस्करे ॥ ५३ ॥
 दन्त्य-तालव्य-मूर्द्धन्यमध्यः स्याद् द्वेषवारकः ।
 तिन्तिडीक-तन्तिडीके चुक्रे पक्षण्यपि स्मृते ॥ ५४ ॥

१ चिपुट इत्यर्थः । २ खण्डशर्करा, खण्डमर्करा । ३ अभिषुतम् ।
 ४ अर्धपके मापादावित्यस्य विशेषणमिदम् ।

राजिकायामासुरी स्यादसुरी च क्षुधा-क्षतात् ।
 परोऽभिजननः शब्दो योज्यते शब्दवेदिभिः ॥ ५५ ॥
 कुस्तुम्बुरुर्वा^३र्धुकारस्तस्मिन् धान्यं च धान्यकम् ।
 धन्या धन्याकं धान्याकं धानेयक-धनीयके ॥ ५६ ॥
 धनकोऽथ कोलके स्याद् मरीचं मरिचं तथा ।
 ऊषणं ह्युपणं विश्वा शुण्ठी शुण्ठिश्च, पिप्पली ॥५७॥
 उषणा स्यादूषणापि, कृष्णा च कृष्णतण्डुला ।
 गजपिप्पल्यां वशिरो वसिरः, सर्वग्रन्थके ॥ ५८ ॥
 ग्रन्थकं शिरोऽनादन्तः, क्ली सान्तं चटकाशिरः ।
 व्योषे त्रेः कटु-कटुके, अजाजी जीर-जीरकौ ॥ ५९ ॥
 जीरणो जरणः कणः जीरकः कृष्णजीरके ।
 सुषवी दन्त्य-मूर्धन्य-तालव्यान्तर्गता पृथुः ॥ ६० ॥
 पृथ्वी उत्कुञ्चिका चोपकुञ्चिकाप्यथ हिङ्गुनि ।
 वाल्हीकं वाल्हिकं, जग्धौ खादनं खदनं घसिः ॥६१॥
 निघसोऽपि विष्वाणाऽवष्वाणौ जमन-जेमने ।
 ग्रासे गुडेरक-गुडौ गुडेरोऽपि गडोलयुक् ॥ ६२ ॥
 गण्डोलः कवलोपेतः कवकः, सुहिते पुनः ।
 आघ्राता-ऽऽघ्राणकौ, मुक्तत्यक्ते फेला च फेलियुक् ॥६३॥
 मांसाशिनि शाण्वलः स्याच्छौष्कलः शाण्वलिस्तथा ।

१ क्षुधाक्षतशब्दाभ्यां परोऽभिजननशब्द. क्षुधाभिजनन. क्षताभिजनन-
 इति । २ वार्धिप्रमिताः, चत्वार इत्यर्थ. । ३ तिक्तपिप्पली । ४ शुण्ठिमरीच-
 पिप्पलीनां युगपद्वाचकौ त्रिशब्दात्परौ कटु-कटुकशब्दां ।

मौष्कुलिस्मौष्कुलो, लिप्सौ लोलुपो लोलुभोऽपि च ॥६४॥
लोलोऽपि गर्धनो गृध्नु-गृध्नौ चेहेह ईहने ।

कामश्च कामना, धृष्टो धृष्णुः स्याद् धृष्णजा सहा ॥६५॥

शुभ्युः शुभसंयुक्ते शुभं चश्चाप्यहंकृति ।

अहंयोऽहंयुसंयुक्तः, काम्मुके कामि-कामिनौ ॥६६॥

कामनः कमनः कम्नः कम्नरः कामितापि च ।

कामयिताऽभिक-भीकावन्तर्दुर्विपरो मनाः ॥ ६७ ॥

विचेतस्यमिशस्ते तु स्यादक्षारित-क्षारितौ ।

तिरस्कारे परीभावः परापर्यभितो भवः ॥ ६८ ॥

न्यक्कारः सनिकारः स्यात्, जागरूके तु जागरी ।

जागरिता, जागरणे जागर्या जागरस्तथा ॥ ६९ ॥

जागरा जाग्रिया, शङ्की संशयालुर्भवेदयम् ।

सांशयिको, दक्षिणार्हे दक्षिण्यो दक्षिणीयकः ॥ ७० ॥

दण्डिते दाप्यतः प्रोक्तो दायितोऽपि तथोच्यते ।

अर्च्ये प्रतीक्ष्यो निर्योपि, पूजिते त्वपचायितः ॥ ७१ ॥

अपचितोऽथार्हणायां पूजा पूज्याऽथ पीनके ।

बहुलो बहलः स्थूर-स्थूलौ पीवा सपीवरः ॥ ७२ ॥

मांसलांसलौ निर्दिग्धे, कृशे शात-शितौ स्मृतौ ।

तीक्ष्णेऽप्येतौ, बृहत्कुक्षौ तुन्दी तुन्दिक-तुन्दिलौ ॥७३॥

तुन्दिभोऽप्युदरिकश्चोदरिलोदरिणौ समौ ।

अनासिके विखं-विखू विग्रोऽपि, नतनासिके ॥ ७४ ॥
 अवाद् भ्रट-टीट-नाटा नाशायं तन्नतावपि ।
 खरनासे खरणसः खरणाः, खुरसदृग्नुसि ॥ ७५ ॥
 खुरणाः स्यात् खुरणसः, श्रोणे पङ्गुः सपङ्गुलः ।
 स्यात् खल्वाटे तु खलति-खलतावल्पकायके ॥ ७६ ॥
 पृश्नि-पृष्णी गडुले तु न्युब्ज-कुब्जौ, कुहस्तके ।
 कुणि-कूणी, ह्रस्वकरपादे खर्वो निखर्वयुक् ॥ ७७ ॥
 ह्रस्वशाखे वामनश्च वामा नान्तो, द्विनभ्रके ।
 वण्डो दन्त्योष्ठ्यवादिः स्यादल्पमेढ्रेऽपि, खञ्जके ॥ ७८ ॥
 खोड-खोरौ च खोटोऽपि, पोगण्डो विकलाङ्गके ।
 अपोगण्डोऽप्यूर्ध्वजानावूर्ध्वज्ञोर्ध्वज्ञकौ समौ ॥ ७९ ॥
 विलजानौ प्रञ्जुः स्यात् प्रज्ञोऽपि, युतजानुके ।
 संञ्जु-संज्ञौ च सर्वत्र जञ्जसंयोग उच्यते ॥ ८० ॥
 वलियुक्ते वलिनः स्याद् वलिभः, शस्तकेशके ।
 केशवः केशिकः केशी, तुण्डिलो वृद्धनाभिके ॥ ८१ ॥
 तुण्डिभस्तुन्दिलोऽभ्यान्ताऽभ्यमितौ ग्लान-ग्लास्नुकौ ।
 व्याधिते, कच्छुरे तु स्यात्पामनः पामरस्तथा ॥ ८२ ॥
 सातिसारेऽतिसारक्यतीसारकी, कफान्विते ।
 श्लेष्मणः श्लेष्मलः, क्लिन्ननेत्रे तद्वति-पिष्टयुक् ॥ ८३ ॥
 चिह्नश्चुहोऽपि, मूर्ते तु मूर्च्छालो मूर्च्छितोऽपि च ।

पित्ते पलाग्निः पललज्वरोऽथ खेटयुक् खटः ॥ ८४ ॥
 वलासो दन्त्य-तालव्यप्रान्तकः कथितो बुधैः ।
 कफे, व्याधौ रोग-रुजौ रुजाऽप्यामय आमकः ॥ ८५ ॥
 अमः, क्षये राजयक्ष्मा यक्ष्मा जक्ष्मापि नान्तकः ।
 जक्ष्म-यक्ष्मावदन्तौ द्वौ, क्षवे क्षुत् क्षुतमप्यथ ॥ ८६ ॥
 क्षवथौ काशः कासोऽपि, खसे पामा तु पामया ।
 कच्छूः कच्छुः स्त्रियां सर्वे, खर्ज्वा कण्डूयनं मतम् ॥ ८७ ॥
 कण्डूः कण्डूति-कण्डूये, व्रणे रुषो रुषा सह ।
 ईर्मोऽस्त्रियामीर्म नान्तं, गण्डे विस्फोट-स्फोटकौ ॥ ८८ ॥
 पिटकः पिटका तद्वत्पिटकं च, किलासके ।
 सिध्म-सिध्मे, कुष्ठभेदे दद्रुर्दद्रूश्च दद्रुयुक् ॥ ८९ ॥
 दद्रुर्दद्रूश्च, क्रोठके मण्डलकं च मण्डलम् ।
 हृल्लासे हिक्का हेक्कापि, पीनसे स्यादपीनसः ॥ ९० ॥
 आपीनसः प्रतिश्यायः प्रतिश्या, श्वयथौ पुनः ।
 शोफ-शोथौ, छर्दने तु च्छर्दिश्छर्दी प्रच्छर्दिका ॥ ९१ ॥
 वमनं वमि-वमथू, कुरण्डस्त्वण्डवर्धने ।
 कूरण्डोऽपि, प्रमेहे तु मेहोऽपि च, चिकित्सके ॥ ९२ ॥
 आयुर्वेद्यायुर्वेदिको भिषग्-भिषज-भिण्णजाः ।
 जायौ भेषज-भैषज्ये उपचारश्चिकित्सने ॥ ९३ ॥
 उपचर्यापि, सत्कृत्यालंकृतस्वकनीदये ।
 कूकुदः कूपदश्चाऽऽपदापदे विपदा विपद् ॥ ९४ ॥
 विपत्तौ, कृच्छ्रवञ्च्ये तु समौ दूडाभ-दूडमौ ।

समर्धुकस्तु वरदे स्यात् समर्धक इत्यपि ॥ ९५ ॥
 सदस्ये तु पारिषद्य-पार्षद्यावथ संसदि ।
 परिषत्-पर्षदौ तुल्ये समज्या च समाजयुक् ॥ ९६ ॥
 आस्थानमास्था, दैवज्ञे नैमित्तिको निमित्तावित् ।
 नैमित्तोऽपि च, मौहूर्तो मौहूर्तिकेऽथ लेखके ॥ ९७ ॥
 लिपिकरो लिपिकरोऽक्षरन्यासे लिपिलिपिः ।
 मर्षी-मस्यौ मलिनाऽप्सु, कितवे त्रितयं स्मृतम् ॥ ९८ ॥
 धातो धूर्तोऽक्षधूर्तश्च, दुरोदर-दरोदरे ।
 द्यूतेऽथाऽक्षे पाशकः स्यात् प्रासकः शारितः फलम् ॥ ९९ ॥
 फलकोऽष्टांपदे शारिः शारः खेलनिकोच्यते ।
 व्यालग्राह्यहितुण्डिक आहितुण्डिक इत्यपि ॥ १०० ॥
 मनोजवस्ताततुल्ये मनोजवसकोऽपि च ।
 क्षेमं करो रिष्टतात्यरिष्टताती तथाऽऽस्तिके ॥ १०१ ॥
 श्राद्ध-श्रद्धालू च, सहे प्रभविष्णुः प्रभूष्णुयुक् ।
 शक्त-शक्लावसामर्थ्यजीवके चानवस्थिते ॥ १०२ ॥
 चत्वारोऽमी पराः कर्णात् टिरिटिरि-ष्टिरोष्टिरा ।
 चुरुचुरु-श्चुरुचुरा, शिथिलः शिथिरः श्लथे ॥ १०३ ॥
 स्थित ऊर्ध्वदमश्चोर्ध्वो निर्वाकारो वकारवान् ।
 ऊर्ध्वदमस्तद्भवे तु ऊर्धाद् दमिक दामिकौ ॥ १०४ ॥
 ऊर्ध्वदमिकोऽप्यध्वगे तु स्यादध्वन्योऽध्वनीनवत् ।
 गन्तु-गान्तू पथिकश्च पान्थः, शम्बल-सम्बले ॥ १०५ ॥

पाथेये, जङ्घाकरे तु जङ्घाकरिक जाङ्घिकौ ।
 लरिते जवी च जवनः सहायेऽभ्यनुतश्चरः ॥ १०६ ॥
 अनुगाम्यनुगश्चापि सेवायां स्यादुपासना ।
 उपास्त्युपेता चोपास्या परेश्रैषणमेषणा ॥ १०७ ॥
 पत्तौ पदाति-पादातौ पादातिक-पदातिकौ ।
 पदकः पदगः पद्गः पादाविक-पदाजिकौ ॥ १०८ ॥
 प्रष्टे सरोऽग्रेऽग्र-पुरः-परतो गम-गामि-गाः ।
 पुरस्तः, आवेशिके तु स्तः प्राघूर्णक-प्राघुणौ ॥ १०९ ॥
 अतिथ्योऽतिथिरातिथ्य आङ्परौ गान्तु-गन्तुकौ ।
 आवेशिक आतिथेय्यातिथेयातिथ्यनिःस्वनाः ॥ ११० ॥
 ग्रामे भवे तु ग्रामीण-ग्रामीणौ ग्राम्य इत्यपि ।
 ग्रामेयकश्च, लोके तु जनो जनपदस्तथा ॥ १११ ॥
 देवलोके देवविशा देवविद् वाऽभिजातके ।
 जात्याभिजौ कुलीनश्च कुल्य-कौलेयकौ समौ ॥ ११२ ॥
 महाकुलीनसहितौ माहाकुल-महाकुलौ ।
 गोत्रोऽन्वयोऽन्ववायश्च संतानः संततिस्तथा ॥ ११३ ॥
 स्त्रियां महेला सहिला मेहला च सहेलिका ।
 वामिर्वामा जोषा योषा स्याद् योषिदपि योषिता ॥ ११४ ॥
 स्याद् मत्तकासिनी मत्तगामिन्यां मत्तकाशिनी ।
 स्त्र्यलङ्कारे कुट्टमितं ह्युकारं, कन्यका कनी ॥ ११५ ॥
 कुमार्यां, मध्यमवयःस्त्रियां स्यात् तरुणी तथा ।
 तलुनी, युवतिश्चोक्ता युवत्याद्यवयःस्त्रियाम् ॥ ११६ ॥

सुवासिनी स्ववासिनी वधूटी वध्वटीति च ।
 चिरिण्टी स्याच्चिरण्टी च चरिण्टी सचरण्टिका ॥११७॥
 पत्न्यां सधर्मिणी सहधर्मिणीगृहिणीगृहाः ।
 कलत्रं कडत्रं दारः पुंसि वा भूमिनि दारया ॥ ११८ ॥
 जनिर्जनी कुटुम्बिन्यां स्यात् पुरन्धिः पुरन्ध्यपि ।
 स्नुषायां तु वधूयुक्ता वधूटी च जनिर्जनी ॥ ११९ ॥
 कुलस्त्रियां तु कुलतो वालिका पालिकाऽपि च ।
 कान्तायां प्रेयसी प्रेष्ठा षट्कार-ठकारभाक् ॥ १२० ॥
 प्रिया, कान्ते प्रियः प्रेयान् प्रेष्ठष्ट-ठद्वयान्वितः ।
 वरो वरयितोद्वाहे विवाहे यम-यामकौ ॥ १२१ ॥
 उपात्, जायापत्योस्तु जम्पती दम्पती स्मृतौ ।
 द्वित्वे, जस्यती दस्यती प्रायो वेदे प्रयोजितौ ॥ १२२ ॥
 जित्वरीवाचकौ पूर्वात्रेकत्वादाबुदाहतौ ।
 हरणे तु सुदायः स्याद् दायो युतक-यौतकौ ॥ १२३ ॥
 यौतकः, परगेहस्था त्वायत्ता शिल्पजीविनी ।
 सैरन्ध्री चापि सैरन्ध्यथावरोधनप्रोष्यिका ॥ १२४ ॥
 असिक्रिका स्यादसिक्री, दूत्यां दूतिरपि स्मृता ।
 प्राज्ञी प्रज्ञा प्रजानत्यामाचार्यानी नृयोगके ॥ १२५ ॥
 आचार्या, मातुलानी च मातुल्यपि तथा मता ।
 उपाध्यायान्युपाध्यायी, क्षत्रियाणी स्वतो भवेत् ॥१२६॥

क्षत्रिया स्याद्दुपाध्याय्युपाध्यायाऽऽर्याणिका पुनः ।
 आर्या पुनर्भवा दिधिषूर्दिधीषुरपि तद्धवे ॥ १२७ ॥
 दिधिषूर्दिधिषूर्विप्रे लग्रतो दिधिषुर्मतः ।
 दिधिषूरप्यसत्यां तु वर्षणी धर्षणीति च ॥ १२८ ॥
 पांशुला पांसुलाऽथ स्यात् पतिः पत्नी च जीवतः ।
 पतिवत्न्यां, निर्वीरा च वीरा पति-सुतोऽङ्गिता ॥ १२९ ॥
 भिक्षुकी भिक्षुणी मुण्डा श्रमणा श्रवणाऽपि च ।
 गणिकायां वेश्या वेण्या पण्याङ्गना पणाङ्गना ॥ १३० ॥
 कुट्टन्यां शम्भली दन्त्य-तालव्यादिर्मता बुधैः ।
 कुम्भदास्यां पोटा वोटाऽवस्त्रनार्या तु नमिका ॥ १३१ ॥
 नग्ना कोटवी कोटवी, ऋतुमत्यां तु पुष्पिता ।
 पुष्पवती चाविरवी निष्पुष्पायां तु निष्कला ॥ १३२ ॥
 निष्कल्यपि च स्त्रीधर्मे आर्तवं ऋतुसंयुतम् ।
 रजः सान्तं रजोऽदन्तो ना. गुणेऽप्यथ मैथुने ॥ १३३ ॥
 सुरतं स्याद् रति-रते पशोर्धर्म-क्रिये स्मृते ।
 जभनं यभनं, गर्भवत्यां गुर्वी च गुर्विणी ॥ १३४ ॥
 प्रसूतायां विजाताख्या प्रजाताप्यथ भ्रूणके ।
 वृधसानो वर्धसानो गरभो गर्भ इत्यपि ॥ १३५ ॥
 दोहदं दौहदं श्रद्धा, पुत्र्यां तु स्यात् स्तनन्धर्या ।
 स्तनन्धया सूनुः सुतापत्ये, पुत्रेऽपि तोककम् ॥ १३६ ॥
 तुगपत्ये, भ्रातृपुत्रे भ्रातृव्यो भ्रात्रीयोऽपि च ।
 पुत्रपुत्रे पौत्रस्तस्य युवापत्ये पुनः स्मृतः ॥ १३७ ॥

पौत्रायण एवं पुनर्भूनानान्द्रो दुहितृवत् ।
 पौनर्भव-पौनर्भवायणौ, नानान्द्र इत्यपि ॥ १३८ ॥
 नानान्द्रायणो, दौहित्रो दोहित्रायणकस्तथा ।
 पैत्र्यां नप्ता भवेद् नप्त्री स्यात् पितृष्वसुरात्मजे ॥ १३९ ॥
 पितृष्वसेयवत्पैतृष्वस्त्रीयो, जननीस्वसुः ।
 पुत्रे तु मातृष्वस्त्रीयस्तद्वन्मातृष्वसेयकः ॥ १४० ॥
 दास्याः सुते तु दासेय-दासेरौ च, नटीसुते ।
 नाटेय-नाटेरौ, पुत्रे बन्धक्या बान्धकेयवत् ॥ १४१ ॥
 बान्धकिनेयश्च, कौलटेरः स्यात् कौलटेयवत् ।
 भिक्षुसत्याः सुते कौलटेय-कौलटिनेयकौ ॥ १४२ ॥
 स्वजाते त्वौरसौरस्यौ, भवेद् गोलश्च गोलकः ।
 मृते पत्यौ जारजोऽथ भ्रातरि स्यात्सहोदरः ॥ १४३ ॥
 समानोदर्य-सोदर्य-सोदराः, ज्येष्ठभ्रातरि ।
 अग्रजोऽग्रियाऽग्रिमकौ स्यात् कनीयांश्च कन्यसः ॥ १४४ ॥
 यविष्ठोऽपि यवीयांश्च कनिष्ठे सोदरे समाः ।
 ज्येष्ठ-कनिष्ठ-यविष्ठास्त्रिकवर्गद्वितीयकाः ॥ १४५ ॥
 श्यालस्तालव्य-दन्त्यादिः पत्न्या भ्रातरि कथ्यते ।
 देवृ-देवर-देवानः स्युः पत्युरनुजे, स्वसा ॥ १४६ ॥
 जानिर्यानिः कुलस्त्री च भग्नी स्याद् भगिन्यन्विता ।
 पत्युः स्वसरि ननन्दा ननान्दा नन्दनीत्यपि ॥ १४७ ॥
 पत्नीकनिष्ठभगिन्यां श्याली शाली च, खेलने ।
 परिहासः परीहासः कुर्दनं कूर्दनं समौ ॥ १४८ ॥

किलः केलिश्च जनके बप्पो वप्रश्च तातयुक् ।
 ततो जनयिता तद्वज्जनित्रोऽपि च, मातरि ॥१४९॥
 अम्बाऽप्यम्बा जनयित्री जनित्री जननीयुता ।
 जानी, पित्रोः स्मृतौ माता-पितरौ, मातरात्परौ ॥१५०॥
 पितरः पितृशब्दश्च, ज्ञातौ स्वः स्वजनस्तथा ।
 बान्धवो बन्धुरात्मीये स्व-स्वकीये, नपुंसके ॥ १५१ ॥
 पण्डु-पाण्डौ शण्ठ-शण्ठौ तृतीयाप्रकृतिस्तथा ।
 तृतीयप्रकृतिर्देहे कलेवरं कडेवरम् ॥ १५२ ॥
 तनूः स्यात्तनु-तनुषी घनस्तद्वच्च भूघनः ।
 गात्रं गान्त्रं मूर्तिमच्च मूर्तिः स्यात्, कुणपे शवः ॥१५३॥
 शवः सान्तं भवेत् षण्ठे, मूर्ध्नि मस्तक-मस्तिके ।
 शिरः सान्तं स्मृतं क्लीबे शिरोऽदन्तो भतो नरि ॥१५४॥
 चिकुरश्चिहुरः केशे ललाटस्याऽलके पुनः ।
 भ्रमरकः स्याद् भ्रमरालको वेणिः प्रवेणियुक् ॥ १५५ ॥
 केशन्यासे काकपक्षे शिखण्डक-शिखाण्डिकौ ।
 वक्रस्त्रिषु च्छन्दस्यपि, दान्ते षण्ठे भषद् भसद् ॥१५६॥
 आमाशयस्थाने च, जघनेऽपि तुण्डि-तुण्डिकौ ।
 घनं घनोत्तमं भाले त्वलीकमलिकं तथा ॥ १५७ ॥
 कर्णे श्रवणं श्रुतिवत् श्रवः श्रोत्रं च श्रौत्रकम् ।
 नेत्रेऽक्ष्यऽक्ष्णं दृशि-दृशे दृग् लोचन-विलोचने ॥१५८॥
 कनीनिकायां तारा स्यात् तारकाऽप्यर्धवीक्षणे ।
 काक्षः कटाक्षो नेत्रस्य मीले मेष-मिषौ नितः ॥१५९॥

कालभेदेऽपि भ्रुविकारे भ्र-भ्रु-भ्रू-भृतः कुटिः ।
 भ्रूमध्ये कूर्च-कूपे कूर्प नक्के नस्नया नसा ॥ १६० ॥
 नासा नस्या नासिका च नाशिका घ्राणमाघ्रया ।
 घ्रा, दन्तवस्त्रे ओष्ठः स्यात् त्रिकवर्गद्वितीयवान् ॥ १६१ ॥
 ओष्ठप्रान्ते सृक्क नान्तं क्लीबं सृक्कमदन्तकम् ।
 सृक्कणी सृक्कणिर्धन्तेदन्ते सृक्कि नपुंसके ॥ १६२ ॥
 इदन्तमेकैर्षद्वन्द्वं कयुगमपरैः स्मृतम् ।
 सृक्कशब्देऽथ हन्वग्रसन्धौ स्याच्चिबुकं चिबुः ॥ १६३ ॥
 दंष्ट्रिकायां दाढिका स्याद् द्राढिका खादने पुनः ।
 रदनो रदयुगदंश-दशनौ मल्ल-मल्लकौ ॥ १६४ ॥
 जिह्वायां रसना दन्त्य-तालव्यान्तर्गता रसा ।
 रसमातृका रसा च रसिका रसनं तथा ॥ १६५ ॥
 गले कण्ठः कण्ठी कण्ठं शब्द-समीपयोरपि ।
 अंसे तु स्कन्धः स्कधश्च सान्तं क्लीबमुरोसयोः ॥ १६६ ॥
 सन्धौ तु जत्रु षण्ठे स्यात् तकार-रेफयोगवत् ।
 प्रवेष्टो दोर्दोषा बाहुर्बाहा बाहो भुजो भुजा ॥ १६७ ॥
 भुजामध्ये कपोणिः स्यात् कफोणी च कफोणियुक् ।
 कफणिः कफणी तद्वत्कूर्परः कूर्परोऽपि च ॥ १६८ ॥
 प्रकोष्ठे वर्गद्वितीयः स्यात् कलाचिः कलाचिका ।
 हस्ते करः करिर्हस्तमूले तु मणिबन्धवत् ॥ १६९ ॥
 मणिः स्यात्करशाखायामङ्गुरी चाङ्गुरिस्तथा ।
 अङ्गुलोऽङ्गुलिरङ्गुल्यां तर्जन्यां तु प्रदेशिनी ॥ १७० ॥

प्रदेशिनी प्रदेशिका, ज्येष्ठाङ्गुल्यां तु मध्यमा ।
 मध्या, ज्येष्ठा-कनिष्ठे द्वे टवर्गाद्वितीयान्विते ॥ १७१ ॥
 पुनर्नव-पुनर्भवौ करजे नखरस्त्रिषु ।
 नखोऽस्त्री तर्जन्यायत्तेऽङ्गुष्ठे त्वथ प्रदेशवत् ॥ १७२ ॥
 प्रादेशोऽप्यायताङ्गुलौ हस्ते स्यात् प्रतलस्तलः ।
 तालिका-तालौ चपेटश्चर्पटश्चपटोऽपि च ॥ १७३ ॥
 तद्द्वये योजिते सिंहतलः संहतलस्तथा ।
 तताङ्गुष्ठमध्याङ्गुलिमाने तालस्तलोऽपि च ॥ १७४ ॥
 वितस्ति-खड्गमुष्टयोश्च, कुब्जिताङ्गुलिके करे ।
 प्रसृतः प्रसृतिश्चापि गण्डूषे चलुकश्चलुः ॥ १७५ ॥
 चुलुको, निष्कनिष्ठे स्याद् हस्त आर्तिररत्नयुक् ।
 तिर्यक्प्रसारितबाहोर्व्यायामो व्याम-व्यामनी ॥ १७६ ॥
 वियामः, पृष्ठवंशे तु रीढको रीढयुग्मतः ।
 पृष्ठं वर्गाद्वितीयात्समुत्सङ्गेऽङ्गो नपुंसके ॥ १७७ ॥
 सान्तमङ्गोऽप्यदन्तो नाऽथोरोजोरसिजौ स्तने ।
 कुच-कूचौ, जठरे तु स्यात् पिचण्डः पिचिण्डयुक् ॥ १७८ ॥
 तुन्दं तुन्दिः कुक्ष-कुक्षी, यन्नि कालेय-कालके ।
 कालखण्डं कालखञ्जं, गुल्मे प्लीहा प्लीहा तथा ॥ १७९ ॥
 नान्तौ, प्लीहा चाब्रन्तोऽपि, मध्ये मध्यम इत्यपि ।
 विलग्नावलम्बौ सर्वे पुंस्त्रीबाः, रसनापदे ॥ १८० ॥
 कटीरं च कटि-कटी-कटाः श्रोणी च श्रोणियुक् ।
 वलित्रयसमाहारे त्रिवलिस्त्रिवली तथा ॥ १८१ ॥

त्रिकपार्श्वगर्तयोस्तु कुकुन्दरे कुकुन्दुरे ।
 युतौ सिफचौ सिफजौ चान्तौ जान्तौ, स्यात्स्मरमन्दिरे ॥१८२॥
 योनियोनी च, पुंश्चिहे शेषः शेषश्च सान्तगे ।
 शेष-शेफौ च शेषश्च त्रयोऽदन्ता बुधैः स्मृताः ॥१८३॥
 लाङ्गूलं शङ्कु लङ्गूलं, मुष्क आण्डाण्डकौ नरि ।
 अण्डं पेलं पेलकोऽप्यथोरूरुश्च सक्थनि ॥ १८४ ॥
 जङ्घायां तु टङ्क-टङ्गौ खनित्रेऽपि च तौ मतौ ।
 पादग्रन्थौ कुल्फ-गुल्फौ घुटिको घुण्ट-घुण्टकौ ॥१८५॥
 घुटः सर्वेऽपि पुंस्त्रिणाः, चरणे चलनः क्रमः ।
 क्रमणः पाद-पदौ पात् पत्-पदे अंहिरङ्घ्रियुक् ॥१८६॥
 तिलके कालकस्तद्वत् तिलकालक इत्यपि ।
 जडुलो जडुलो, मांसे पलं पललमामिषम् ॥१८७॥
 अमिषं चार्द्रमांसे तु भवेदर्पशमर्पिशम् ।
 मुख्यमांसे शुक्ला नान्तं त्रिषु वुक्कस्त्रिषु स्मृतः ॥१८८॥
 वुक्काग्रमांसाग्रमांसे वृक्कः स्यात्पुंस्त्रियोर्वसा ।
 'मेदः सान्तं मेदोऽदन्तो मस्तिष्को मस्तुलङ्गकः ॥१८९॥
 मस्तकस्त्रेहे गोदोऽस्त्री करोटं शिरसोऽस्थनि ।
 'करोटीवत् करोटिश्च भकालं च भगालयुक् ॥१९०॥
 पृष्ठहड्डे कशेरुका कशारुकाऽस्थिसंभवे ।
 मज्जा नन्तो द्वयोर्मज्जाऽऽबन्तः स्त्री रेत्र-रेतसी ॥१९१॥
 बल-बल्ये च वीर्ये द्वे लोम रोम तनूरुहे ।
 तनुरुहं, चर्म चर्म त्वक् त्वचं चोचमित्यपि ॥१९२॥

असृग्धरा सृग्धरा च कषिते लेख्यचर्मणि ।
 कडित्रं सकटित्रं च, स्नायौ वसस्त्रया स्नासा ॥१९३ ॥
 स्नावा नान्तो, धमन्यां तु धमनिर्नाडि-नाडकौ ।
 नाडी शिरा सिरा नेत्रमले दूषी सदूषिका ॥ १९४ ॥
 दूषीका काणुकं काणुकमाणुकवदाणुकम् ।
 घ्राणमले शिङ्घाणक-सिङ्घाणौ, लालिका पुनः ॥१९५॥
 सृणीका सृणिका गूथो विड्-विषौ शान्त-षान्तगौ ।
 वर्चस्क-वर्चसी तुल्ये विष्ठा वर्गद्वितीयभाक् ॥१९६॥
 नेपथ्ये वेष-वेशौ द्वाबुत्सादनमुद्धर्तने ।
 उच्छादनं चापि समालभने चर्चिक्यं मतम् ॥१९७॥
 चर्चाऽपि, मण्डने प्रति-परितः कर्म कथ्यते ॥
 मार्ष्टो मार्जो मृजा मार्जा मार्जना, स्नान आप्लवः ॥१९८॥
 आप्लावोऽपि च, गात्रानुलेपन्यां वर्तिरुच्यते ।
 वर्ती तथा जोङ्गके स्यादगर्वगुरु वंशकम् ॥ १९९ ॥
 वंशिका वंशिकं कृमिजग्धं कृमिजमित्यपि ।
 प्रवरं प्रकरं तुल्ये गोशीर्षे हरिचन्दनम् ॥ २०० ॥
 हरिश्च, रक्तचन्दने पत्रगं च पतङ्गकम् ।
 पत्राङ्गं, सौमनसे तु जातिर्जाती फलं तथा ॥ २०१ ॥
 जातीफलं जातिफलं तद्वत्कोशफलं मतम् ।
 जातीकोशं जातीकोषं, कर्पूरे स्यात् सिताभ्रकः ॥२०२॥
 सिताभ्रश्चापि, कस्तूर्यां नाभिबद् मृगनाभिजा ।
 मृगनाभिर्मृगमदो मृगः स्याद् मद् इत्यपि ॥ २०३ ॥

कुङ्कुमे वरवाह्नीकं वरं वाह्नीक-वाह्निके ।
 कश्मीरजन्म काश्मीरं कश्मीरजमपि स्मृतम् ॥ २०४ ॥
 संकोचपिशुनं तद्वत्संकौचं पिशुनं समे ।
 वर्णं वर्ण्यं, देवसुमे लवङ्गं लवसंयुतम् ॥ २०५ ॥
 कोशफले कक्कोलकं कक्कोलं कोलकं तथा ।
 कोलं कोरं च, कालानुसार्ये यापक-जापके ॥ २०६ ॥
 कालीयकं कालेयकं कालियं चाऽग्निवल्लभे ।
 रालोऽक्षयरालः, श्रीवासे धूपः स्याद् वृक-वृक्षतः ॥ २०७ ॥
 श्रीविष्टः श्रीपिष्टकश्च, कोटीरे मुकुटोऽस्त्रियाम् ।
 मकुटोऽपि किरीटं स्यात् तिरीटं पुष्पदाम तु ॥ २०८ ॥
 नान्तः क्लीत्रोराबन्तोऽस्मिन् मुण्डमालाभिधे स्मृतम् ।
 ललामवल्ललामाऽश्व-प्रधान-ध्वज-लक्ष्मसु ॥ २०९ ॥
 पुण्ड्र-त्रालधि-शृङ्गेषु भूषा-प्रभावयोरपि ।
 माल्यं माला, तिलके तमालपत्रं तमालवत् ॥ २१० ॥
 शीर्षिस्रज्यवतंसः स्याद् वसन्तोत्तंसकौ समौ ।
 त्रयोऽमी कर्णपूरेऽपि पत्रावल्यां तु पत्रतः ॥ २११ ॥
 भङ्गि-लेखा-लताङ्गुल्यो वल्लरी मञ्जरीति च ।
 वह्निश्चोत्क्षिप्तकायां तु कर्णान्दूश्च कर्णान्दुयुक् ॥ २१२ ॥
 कण्ठभूषायां ग्रैवेयं ग्रैवं ग्रैवेयकं तथा ।
 मुक्तास्रज्याहारो हारः स्त्रीत्रोर्यष्टयां सरिः सरः ॥ २१३ ॥
 सारिकाऽप्येकावल्यां तु कण्ठी कण्ठिकया सह ।

कटिके तु पारिहार्यःपरिहार्यश्च कङ्कणम् ॥ २१४ ॥

कङ्कणिश्चेर्मिकायां त्वङ्गुलीयकाङ्गुरीयके ।

मेखलायां सारसनं दन्त्य-तालव्यमध्यगा ॥ २१५ ॥

रसना, काञ्चिः काञ्ची च किङ्किणिः क्षुद्रघण्टिका ।

किङ्कणी कङ्कणीका च कङ्कणी किङ्किणीत्यपि ॥२१६॥

समे मञ्जीर-मन्दारे नूपुरे पादतः परे ।

शीली च नालिका पादाङ्गुलीये पादतः परे ॥२१७॥

पालिका कीलिका, वस्त्रे वसनं वस्त्र-वाससी ।

सिनो निवसनं सन्नं कर्पटं पटमित्यपि ॥ २१८ ॥

पटः पट्याच्छादनं च छादः सिक्-सिचयौ तथा ।

वस्त्राञ्चले वर्ति-वस्ती दुकूलमतसीपटे ॥ २१९ ॥

दुगूलं, कम्बले रल्लो रल्लकोऽथ निवीतके ।

प्रावृतं निवृतं, स्थूलशाटे तालव्य-दन्त्यवान् ॥२२०॥

वरासिः, परिधानस्य ग्रन्थौ नीवी च नीवियुक् ।

चण्डातके चलनकश्चलनश्चलनिका पुनः ॥ २२१ ॥

चोलश्चोली कञ्चुलिका कञ्चूलः कञ्चुकोऽपि च ।

कूर्पासकश्च कूर्पासः कुर्पासः सकूर्पासकः ॥ २२२ ॥

शाटके तु शाटः शाटी, परिधानापराञ्चले ।

कच्छा कच्छाटी च कच्छाटिका, कौपीनके पुनः ॥२२३॥

कक्षापटः कक्षापुटः, कर्पटे नक्तको मतः ।

लक्तकः, प्रच्छदपटे उत्तरच्छद उच्यते ॥ २२४ ॥

निचोलको निचुलको निचोलं च निचोल्यपि ।

निचुलोऽवसत्थिकायां स्मृता पर्यस्तिकायुता ॥२२५॥
 पर्यस्तिश्चापि पर्यङ्कः पल्यङ्कोऽपि, कुथे पुनः ।
 वर्णपरिस्तोम-वर्णौ परिस्तोमवदास्तरः ॥ २२६ ॥
 आस्तरणं प्रवेणीयुक् प्रवेणिः प्रतिसीरिका ।
 जवनी जवनिकापि यवनी यमनीति च ॥ २२७ ॥
 दूष्ये स्थूलं स्थुडमपि, पटकुट्यां तु केणिका ।
 केणिः, पल्लवादिभृता शय्या संस्तर-प्रस्तरौ ॥ २२८ ॥
 स्रस्तरोऽपि च, तल्पे तु शयनं शयनीयवत् ।
 शय्यापि च खट्वायां तु मञ्चवद् मञ्चकः स्मृतः ॥२२९॥
 पर्यङ्कोऽपि च पल्यङ्कः, पतद्ग्राह-पतद्ग्रहौ ।
 प्रतिग्रह-प्रतिग्राहौ पालेऽथो दर्पणे मतः ॥ २३० ॥
 मकुरो मुकुरस्तद्वद् मङ्कुरोऽप्यात्मदर्शवत् ।
 आदर्शो, वस्त्रासने त्वासन्दा-सन्धौ च सन्दवत् ॥२३१॥
 सन्दी भोजन आच्छादे एकोक्त्या चोभयोरपि ।
 कशिपुर्दन्त्य-तालव्यमध्यः स्याच्छयनासने ॥ २३२ ॥
 एकोक्तयोशीरमौशीरं पलङ्कशा पलङ्कषा ।
 राक्षा रक्षा च लाक्षापि तद्रसे याववद्यतः ॥ २३३ ॥
 यावको लक्तकालक्तौ, दीपस्तु कज्जलध्वजे ।
 प्रदीपो दीपवृक्षश्च तालवृन्ते तु वीजनम् ॥ २३४ ॥
 व्यजनं मृगचर्मोते धवित्रं च धुवित्रवत् ।
 केशमार्जे कङ्कतिका कङ्कतः काक-कङ्कते ॥ २३५ ॥
 कङ्कती, बालक्रीडने गिरिको गिरिवट्टुडः ।

गिरिगुडो गिरियको गिरीयकोऽथ गिन्दुकः ॥ २३६ ॥

गेन्दुकोऽपि कन्दुके द्वौ, पार्थिवे नृपतिर्नृपः ।

भूप-भूपति-भूपालास्तथा मूर्ध्नाभिषिक्तयुक् ॥ २३७ ॥

मूर्ध्नावसिक्तो राजा राट् राज्ये महिन-माहिने ।

वसुदेवा वासुदेवा अर्द्धचक्रिषु संमताः ॥ २३८ ॥

तज्ज्येष्ठभ्रातृषु बला बलदेवाः, पृथौ नृपे ।

वेनिर्वैन्यो, भरते तु स्यात् सर्वदमनस्तथा ॥ २३९ ॥

सर्वदमः, सीतापतौ रामः स्याद् रामचन्द्रवत् ।

रामभद्रोऽपि, सौमित्रौ लक्ष्मणो लक्षणान्वितः ॥ २४० ॥

कैकेयी कैकयी चास्याः पुत्रे तु भरतो मतः ।

भरथोऽप्यथ जानक्यां शीता तालव्य-दन्त्ययुक् ॥ २४१ ॥

इन्द्रसुते वालिर्वाली, मारुतो हनुमानिति ।

हनूमान्, भीमशत्रौ किर्मीरः कर्मीर-किर्मिरौ ॥ २४२ ॥

हिडिम्बो डीकारयुक्तोऽर्जुने फल्गुन-फाल्गुनौ ।

बीभत्सो बीभत्सुरपि, पाण्डुसूनुषु पाण्डवाः ॥ २४३ ॥

पाण्डवायनाश्चाऽर्जुनधनौ गाण्डीव-गाण्डिवौ ।

धनुर्मात्रेऽप्यमू, हाले वाहनः सात-सालतः ॥ २४४ ॥

सालोऽपि, परिवारे तु परेर्वर्हश्च वर्हणम् ।

आतपत्रे प्रतपत्रं छत्रं छत्रश्च छत्र्यपि ॥ २४५ ॥

रोमगुच्छे चामरं स्याच्चमरश्चामरस्तथा ।

चामरापि, भृङ्गारे लालूराण्डूः, सचिवे पुनः ॥ २४६ ॥

अमात्य आमात्यो मन्त्री मन्त्रिश्च, द्वारपालके ।

प्रतीहारः प्रतिहारो द्वाःस्थो द्वाःस्थितदर्शकः ॥ २४७ ॥
 द्वाःस्थितो दर्शकस्तद्वत् द्वाःस्थितादर्श्यऽपि स्मृतः ।
 सूदाध्यक्षे पुरोगुः स्यात् तथा पौरोगवोऽपि च ॥२४८॥
 सूपकारे सूप-सूडौ स्यादन्तःपुरके पुनः ।
 आन्तर्वेशिमकयुगान्तर्वेशिकोऽन्तःपुरे समौ ॥ २४९ ॥
 अवरोधनात्ररोधौ भवेत्कञ्चुकिके पुनः ।
 कञ्चुकी सौविदिल्लश्च सौविदः, स्थपतिस्तथा ॥२५०॥
 स्थापत्यः स्थापतीकश्च, रिपौ शत्रुः सशात्रवः ।
 अभिमातिरभियातिरारातिश्चाऽप्यरातियुक् ॥ २५१ ॥
 ऋष्व-ऋष्वौ घातुकेऽपि द्विषन् द्वेषी च द्विड्युतः ।
 परेः पन्थक-पन्थिनौ, सख्यौ सूर्येऽपि चोच्यते ॥२५२॥
 मित्रशब्दो द्वितकारः, सख्ये सौहार्द-सौहृदे ।
 मैत्र्यं मैत्री, हेरिके तु चरश्चारोऽवसर्प्यवत् ॥ २५३ ॥
 अपसर्पः, सान्त्वजे तु शाम तालव्य-दन्त्ययुक् ।
 प्रावृते लञ्चया लञ्च उपदोपप्रदानवत् ॥ २५४ ॥
 शौर्ये शौण्डीर्य-शौण्डीरे नय-न्यायौ समञ्जसे ।
 भागधेयो भागधेयी भागोऽपि कारवत् करः ॥२५५॥
 राजदेयेऽनीकिन्यां तु सेना सैन्यं चमूश्चमुः ।
 सैन्यपृष्ठे प्रति-परेर्ग्रहः, केतौ तु केतनम् ॥ २५६ ॥
 वैजयन्ती वैजयन्तो जयन्ती च ध्वजो ध्वजिः ।
 ध्वाजिश्च ध्वजपस्तद्वत्पताकाऽपि पटाकया ॥ २५७ ॥
 ध्वज कूर्चक उच्चूडोच्चूलौ द्वौ चूड-चूलकौ ।

अवात्परौ क्रीडाथे तु स्ये पुष्परथो मतः ॥ २५८ ॥
 मूर्द्धन्यान्तस्थायोगातो, भवेत् कर्णरथे पुनः ।
 उयनं हयनं चाप्यनसि स्याच्छकटस्तथा ॥ २५९ ॥
 शकटी शकटं तद्वच्छकटिर्वहसाऽन्वितः ।
 वाहसो वृषभेऽप्येतौ, अश्वौ नेमी च नेमिवत् ॥२६०॥
 अक्षाग्रक्रीले त्वण्यानी अस्त्रिंसीम्नोरपि स्मृतौ ।
 पिण्डिकायां नाभिर्नाभी, कूर्वरं स्याद् युगन्धरे ॥२६१॥
 कुवरं चाश्वःस्थदारावनुकर्षा नरि नान्तगः ।
 अनुकर्षोऽस्स्यदन्तोऽपि धूर्वावद् धूर्धुराऽपि च ॥२६२॥
 यानमुखेऽथ द्रोलायां प्रेङ्खुः प्रेङ्खा, विनीतकम् ।
 वैनीतकं, परम्परावाहने शिविकादिके ॥२६३॥
 याने तु वह्यं वाह्यं च वहनं वाहनं तथा ।
 सारथौ वर्ग्यद्वादश ऋकाराकारयुक् त्विह ॥२६४॥
 सव्येनः घृष्ट-शतारौ दक्षिणात् स्थश्च संस्यवत् ।
 रथवति त्रयोऽप्येते रथिको रथिरो रथी ॥२६५॥
 अश्ववारे सादिः सादी रथिकेऽप्यमू यन्तरि ।
 निषादी सनिषादिश्च, भटे योद्वा सयोधकः ॥२६६॥
 तथा मण्डीर-भाण्डीरौ वनेऽपि कथितावमू ।
 सेनासमवेते सैन्यः सैनिकोऽपि च, योद्घृषु ॥२६७॥
 सहस्रेण साहस्रिणः साहस्रः, प्रतिमुक्तवत् ।
 स्यादासुक्तो पिनद्धश्च पिनद्धे, क्वचै पुनः ॥ २६८ ॥
 सोढिर्माढा दशनं च दंशस्त्वक्त्रं तनुत्रवत् ।

प्रतीहारः प्रतिहारो द्वाःस्थो द्वाःस्थितदर्शकः ॥ २४७ ॥
 द्वाःस्थितो दर्शकस्तद्वत् द्वाःस्थितादर्श्यऽपि स्मृतः ।
 सूदाध्यक्षे पुरोगुः स्यात् तथा पौरोगवोऽपि च ॥२४८॥
 सूपकारे सूप-सूदौ स्यादन्तःपुरके पुनः ।
 आन्तर्वेशिकयुगान्तर्वेशिकोऽन्तःपुरे समौ ॥ २४९ ॥
 अवरोधनात्ररोधौ भवेत्कञ्चुकिके पुनः ।
 कञ्चुकी सौविदिहृश्च सौविदः, स्थपतिस्तथा ॥२५०॥
 स्थापत्यः स्थापतीकश्च, रिपौ शत्रुः सशात्रवः ।
 अभिमातिरभियातिरारातिश्चाऽप्यरातियुक् ॥ २५१ ॥
 ऋष्व-ऋष्वौ घातुकेऽपि द्विषन् द्वेषी च द्विड्युतः ।
 परेः पन्थक-पन्थिनौ, सख्यौ सूर्येऽपि चोच्यते ॥२५२॥
 मित्रशब्दो द्वितकारः, सख्ये सौहार्द-सौहृदे ।
 मैत्र्यं मैत्री, हेरिके तु चरश्चारोऽवसर्प्यवत् ॥ २५३ ॥
 अपसर्पः, सान्त्वजे तु शाम तालव्य-दन्त्ययुक् ।
 प्रावृते लञ्चया लञ्च उपदोपप्रदानवत् ॥ २५४ ॥
 शौर्ये शौण्डीर्य-शौण्डीरे नय-न्यायौ समञ्जसे ।
 भागधेयो भागधेयी भागोऽपि कारवत् करः ॥२५५॥
 राजदेयेऽनीकिन्यां तु सेना सैन्यं चमूश्चमुः ।
 सैन्यपृष्ठे प्रति-परैर्ग्रहः, केतौ तु केतनम् ॥ २५६ ॥
 वैजयन्ती वैजयन्तो जयन्ती च ध्वजो ध्वजिः ।
 ध्वाजिश्च ध्वजपस्तद्वत्पताकाऽपि पटाकया ॥ २५७ ॥
 ध्वज कूर्चक उच्चूडोच्चूलौ द्वौ चूड-चूलकौ ।

अत्रात्परौ क्रीडार्थे तु रथे पुष्परथो मतः ॥ २५८ ॥
 मूर्द्धन्यान्तस्थायोगाप्तो, भवेत् कर्णरथे पुनः ।
 डयनं हयनं चाप्यनसि स्याच्छकटस्तथा ॥ २५९ ॥
 शकटी शकटं तद्वच्छकटिर्वहसाऽन्वितः ।
 वाहसो वृषभेऽप्येतौ, प्रधौ नेमी च नेमिवत् ॥२६०॥
 अक्षाग्रक्रीले त्वप्यानी अस्त्रिन्-सीम्नोरपि स्मृतौ ।
 पिण्डिकायां नाभिर्नाभी, कूबरं स्याद् युगन्धरे ॥२६१॥
 कुबरं चाधःस्थदारावनुकर्षा नरि नान्तगः ।
 अनुकर्षोऽस्त्यदन्तोऽपि धूर्वीवद् धूर्धुराऽपि च ॥२६२॥
 यानमुखेऽथ दोलायां प्रेङ्खः प्रेङ्खा, विनीतकम् ।
 वैनीतकं, परम्परावाहने शिबिकादिके ॥२६३॥
 याने तु वह्यं वाह्यं च वहनं वाहनं तथा ।
 सारथौ वर्ग्यद्वादश ऋकाराकारयुक् त्विह ॥२६४॥
 सव्येतः पृष्ठ-घातारौ दक्षिणात् स्थश्च संस्थवत् ।
 रथवति त्रयोऽप्येते रथिको रथिरो रथी ॥२६५॥
 अश्ववारे सादिः सादी रथिकेऽप्यमू यन्तरि ।
 निषादी सनिषादिश्च, भटे योद्धा सयोधकः ॥२६६॥
 तथा भण्डीर-भाण्डीरौ वनेऽपि कथितावमू ।
 सेनासमवेते सैन्यः सैनिकोऽपि च, योद्धृषु ॥२६७॥
 सहस्रेण साहस्रिणः साहस्रः, प्रतिमुक्तवत् ।
 स्यादामुक्तो पिनद्धश्च पिनद्धे, कवचे पुनः ॥ २६८ ॥
 माण्डिर्माढा दशनं च दंशस्त्वक्त्रं तनुत्रवत् ।

कञ्चुके वारबाणः स्याद् बाणवारो धियाङ्गवत् ॥२६९॥
 अधियाङ्गमधिकाङ्गं सारसने त्रयं स्मृतम् ।
 शिरस्त्राणे तु शीर्षण्यं शीर्षकं, शस्त्रजीवनि ॥२७०॥
 आयुधीयश्चायुधिको भवेत् परश्वधायुधे ।
 पारश्वधिकवत् पारश्वधः, प्रहरणेऽस्त्रवत् ॥२७१॥
 शस्त्रं, चापे धन्व धन्वं पुंक्लीबो धनुवद्भुः ।
 धनूः स्त्रियां त्रिणतावत् तृणता धनुषोऽग्रके ॥२७२॥
 अटन्यटनिरत्यार्त्नी पीडायामपि स्यात्तलम् ।
 तलाचाऽपि गोधायां स्याद् वेध्ये लक्ष्यं सलक्षकम् ॥२७३॥
 बाणे पृषत्कस्तात्कान्तः सायकः सायवत्सरः ।
 शरः शरुः स्वरुर्भ्रष्टो भल्लिश्चापि कडम्बयुक् ॥२७४॥
 कलम्ब इव कादम्बो भेर-भेलावमू तथा ।
 भेकेऽपि, कर्तरिः पुङ्खे कर्तरी, शरधौ पुनः ॥२७५॥
 तूणी तूणा तूणं तूणस्तूणीरश्च निषङ्गवत् ।
 उपासङ्गोऽपि खड्गे तु ऋष्टि-रिष्टी नरस्त्रियोः ॥२७६॥
 करवालः करपालः करालिकस्तथोदितः ।
 चन्द्रहासश्चन्द्रभासो धारान्तोगो धरोऽपि च ॥२७७॥
 प्रत्याकारे कोश-कोषावावरणे फरं स्फरम् ।
 स्फरः स्फरकः फरकः फलकं फलमित्यपि ॥२७८॥
 खेटकः खेटकं खेटं, कृपाणिका लुरी क्षुरी ।
 क्षुरिका साऽऽयता पत्रात्पालः स्यात्पालिकाऽपि च ॥२७९॥
 एकधारासौ स्याद्द्विली इली च करवालिका ।

करपालिकाऽपि तरवालिकाऽपि च, कुन्तके ॥२८०॥
 प्रासस्तालव्य-दन्त्यान्तो, मुद्गरे द्रुघणो घनः ।
 द्रुघनः, कुठारे पर्शुः परशुश्च परस्वधः ॥ २८१ ॥
 पश्वधः परश्वधश्च स्वधितिः, परितो घके ।
 पलिघो दन्त्य-तालव्यौ शर्वली शर्वला युधि ॥२८२॥
 लोहदण्डे पट्टिशः स्याद् दन्त्य-तालव्यप्रान्तमः ।
 अभ्यासभुवि खडूरः खलूरश्च खलूरिका ॥ २८३ ॥
 प्रस्थाने त्वभिनिर्माणं प्रयाणं खलु हेतवे ।
 तृणकाष्ठादेः, प्रसृतौ प्रसरणा प्रसारणी ॥ २८४ ॥
 प्रसारश्च प्रसरणं, वैरिणः प्रति गच्छति ।
 अभ्यमित्र्योऽभिमित्रीयोऽभ्यमित्रीणो, बलान्वितै ॥२८५॥
 उरस्वान् स्यादुरसिलोऽप्यतिबले ऊर्जस्वलः ।
 ऊर्जस्वप्यूर्जस्वांश्च जिष्णौ जेता च जैत्रवत् ॥२८६॥
 जिल्वरो, वैतालिके तु सौखशायनिको मतः ।
 सौख्यशयिकश्चाक्रिके घाण्टिको घाटिकोऽपि च ॥२८७॥
 मागधो मगधो मङ्गे वैश्यात् क्षत्र्यां भवेऽपि च ।
 छन्दोजाताबुष्णिहोष्णिग् बले शुष्मं तु शुष्मणा ॥२८८॥
 ऊर्ज ऊर्जो, गूर्जः सान्तं क्लीबं च सहसा सहः ।
 संग्रामे युद्धं युत् संयत् पुंस्त्रियोश्च संयद्धरः ॥ २८९ ॥
 संयतं राटी रालिर्ना समितिः समितः समित् ।
 समः स्फोट-स्फेट-फेटाः प्रध्मश्च प्रधनं तथा ॥२९०॥
 समुदायः समुदयः सांपरायकमित्यपि ।

सांपरायः संपरायकमग्रगमने मतेम् ॥२९१॥
 नासीरस्त्रिषु, धाटौ तु धाट्यवस्कन्द इत्यपि ।
 अभ्यवस्कन्दः, सौप्तिके त्ववापात् स्कन्द उच्यते ॥२९२॥
 पलायने तु संदावः समुत्प्रेभ्यश्च द्राववत् ।
 द्रववद् विद्रवो, भग्ने पराजित-जितौ समौ ॥२९३॥
 भूतः परापर्यभितो, गुप्तौ तु चार-चारकौ ।
 बन्धां ग्रहश्च ग्रहकः प्रोपतो ग्रह इष्यते ॥ २९४ ॥
 संन्यासिके तापसः स्यात् तपस्व्यपि च सूरतः ।
 सूरथोऽपि च दाने द्वौ शान्त-श्रान्तौ जितेन्द्रिये ॥२९५॥
 शुद्धकर्माऽवापाद् दानं महादाने प्रवारणम् ।
 वरणं, विप्रे ब्रह्मा स्याद् ब्रह्माणो जाति-जन्म-जाः ॥२९६॥
 द्व्यग्राभ्यां, बटौ माणवो माणवकस्तथैव च ।
 मौञ्जीबन्धे तूपापाद् नाय-नयावानय इत्यपि ॥२९७॥
 अग्नीन्धने स्यादाग्नीध्राग्नीध्र्यौ स्यातां जटाजटिः ।
 सटायां, तपस्विपीठे वृषी वृसी, कमण्डलौ ॥ २९८ ॥
 कुण्डं कुण्डी कुण्डिका च, यजमाने तु याजकः ।
 थष्टाऽथ सोमपे सोमा सोमात्पीती पीथी च नान्तगौ ॥२९९॥
 सर्ववेदः-सर्ववेदौ सान्ताऽदन्तौ तु याजके ।
 सर्वस्वदक्षणेष्टेश्च, हुतौ होम नपुंसकम् ॥ ३०० ॥
 नान्तं, होमो नरेऽदन्तो होत्रं, भूमिः परिष्कृता ।
 वेदिर्वेदी च, निर्मन्थदारुणि त्वरणिर्द्वयोः ॥ ३०१ ॥
 अरणी समिधि त्वेध एधः सान्तं तथेन्धनम् ।

नान्तादन्ते तु इध्मेध्मे रक्षाभस्मनि क्षारवत् ॥३०२॥
 सुवे सुग्, मखवधे तु शसनं शमनं समे ।
 शृतोष्णक्षीरगे दधिनि आमीक्षाऽमिक्षया सह ॥३०३॥
 दधिषाज्य-दीधीषाज्यौ दधियुक्तघृते मतौ ।
 मृषावादिन्यपि चाग्निहोत्रिण्यग्न्याहितो भवेत् ॥ ३०४ ॥
 आहिताग्निर्दर्विर्दर्वी घृतलेखनिकोच्यते ।
 आचमने तूपस्पर्श उपसंस्पर्शनं तथा ॥ ३०५ ॥
 उपसंस्पर्शः, पाठे तु निपाठ-निपठौ समौ ।
 स्वाध्याये जपो जाप उपवास उपोषितम् ॥३०६॥
 अपवस्त्रमुपवस्त्रमौपवस्त्रोपवस्त्रके ।
 वृत्ते चरित्रं चारित्रमाचार-चरणे अपि ॥३०७॥
 चरितं, प्राचेतसे तु वाल्मीकिर्वल्मीकयुक् ।
 वाल्मीक-वाल्मिकौ तद्वत् कविरादिकविस्तथा ॥३०८॥
 मैत्रावरुणिः समैत्रावरुणो, बादरायणे ।
 वेदव्यासश्च व्यासः, स्याद् रामः परशुरामवत् ॥३०९॥
 जामदग्न्यो, याज्ञवल्क्यो योगेशः सयोगीशकः ।
 वशिष्ठो दन्त-तालव्यमध्यो, वर्गद्वितीययुक् ॥ ३१० ॥
 गोनर्दीयमुनौ तुल्यौ पतञ्जलि-पतञ्जलौ ।
 वररुचौ कात्यायन-कात्यौ, कक्षविति स्मृतः ॥३११॥
 स्फोटायनः स्फौटायनः, पालकाव्ये करेणुभूः ।
 कारणवो मुनिभेदे स्यादत्रिरत्रिणा समम् ॥३१२॥
 अपिशलिरापिशलिः कशात् कृत्स्नः सकृत्सकः ।

मृकण्डुवद् मृकण्डश्च, हारीतो हारितोऽपि च ॥३१३॥
 पक्षिभेदेऽपि, कुमारः कुमारिलसमन्वितः ।
 नास्तिके लौकायतिको लोकायतिक इत्यपि ॥३१४॥
 बाहुसंभवे राजन्यो राजा च क्षत्र-क्षत्रियौ ।
 आर्ये विड्वैश्यौ वेतने वृत्तिर्वार्तापि जीविका ॥३१५॥
 ऋते तूञ्छं शिलञ्चोञ्छं शिलोञ्छं शिलवत्तथा ।
 कृषौ प्रमृतमनृतं वाणिज्यं वणिक्कर्मणि ॥३१६॥
 वणिज्या वणिज्यं क्रयविक्रयिके तु वाणिजः ।
 वणिक् प्रापणिकः प्रोक्त आङ्पराः पणिकस्तथा ॥३१७॥
 पणिकः पतिकश्चैव पदिकः, क्रायके पुनः ।
 क्रायिको विक्रायके च क्रयिको विक्रयी तथा ॥३१८॥
 मूल्ये वक्रयाऽवक्रयौ मूलद्रव्ये तु नीविवत् ।
 नीवी स्यात्तु विनिमयो नैमेयो निमयोऽपि च ॥३१९॥
 वैमेयोऽपि परदाने व्यवहारे पणं पणः ।
 न्यासार्पणे प्रतिदानं परिदानं, सत्यापने ॥३२०॥
 सत्यङ्कारः सत्याकृतिः, संख्येये तु गणयवत् ।
 गण्यं, पोते प्रवहणं वहनं वहितं तथा ॥३२१॥
 वहित्रं वाहित्थमपि, पोतवाहे नियामकः ।
 निर्यामोऽपि च बेडायां स्तरगिस्तरणी तरिः ॥३२२॥
 तरी स्तरी च काष्ठाम्बुवाहिन्यां द्रुणिवद् द्रुणीः ।
 द्रोणिर्द्रोणी च नौदण्डे क्षेपणिः क्षेपणीयुता ॥३२३॥
 काष्ठकुदालेऽभ्रिर्भ्री, प्लवे स्याद्द्रुडुवो डुवः ।

उडूप उडुपस्तरपण्ये तु तर-आतरः ॥३२४॥
 आतार आतारुरपि, वृद्धयाजीविते तु वार्धुषिः ।
 वार्धुषिक ऋणे धारोऽस्त्र्युद्धारे प्रतिभूः पुनः ॥३२५॥
 लग्नको लग्नः, षोडशमात्रैः करिष-कार्षकौ ।
 तुला विंशत्या तु भारो भरश्च शकटीनवत् ॥३२६॥
 शाकटोऽपि शलाटश्च शरारोऽपि तुरीयके ।
 प्रस्थभागे कुटपः स्यात् कुडवः कुलवोऽपि च ॥३२७॥
 द्रोणैः षोडशभिः खारी खारी मानभिदि स्मृता ।
 काकनी काकिणी, क्रोशद्वये गव्यूतिरुच्यते ॥३२८॥
 गव्यागव्यूते, गोमति गवीश्वर-गवेश्वरौ ।
 गोम्याभीरे तु गोपाल-गोपौ स्यातां, कुटुम्बिनि ॥३२९॥
 कार्षकः कर्षकस्तद्वत् कृषकः कृषिकोऽपि, च ।
 क्षेत्राजीवो भवेत् क्षेत्री सीरे हालेः हलं हलः ॥३३०॥
 लाङ्गलदण्डे ईषेशे, प्रोक्ता लाङ्गलपद्धतौ ।
 शीता तालव्य-दन्त्यादिर्नदीभेदेऽपि लाङ्गले ॥ ३३१ ॥
 निरीषे तु कुट-कूटौ कुटकं, कुशिके पुनः ।
 कृशिकश्च फलं फालः कुदालश्च कुदालवत् ॥३३२॥
 गोदारणे प्रवयणे तोत्रं प्रतोद-तोदने ।
 आबन्धे तु योत्र-योक्त्रे कोटीशो लोष्ठभेदने ॥३३३॥
 कोटिशः खलवाल्यां तु मेधिर्मेथिश्च शूद्रके ।
 पद्म-पज्जौ क्षत्र-वैश्याजातौ माहेप्यवद् मतः ॥३३४॥
 महिष्योऽपि शिल्पिनि तु स्युः कारु-कारि-कारयः ।

ध्वजो ध्वजी कल्पपाले मद्ये कपिश-कापिशे ॥३३५॥
 कापिशायनं माध्वीकं माद्वीकं च परिश्रुता ।
 परिसुद् दन्त्य-तालव्यमध्यातालव्य-दन्त्यभृत् ॥३३६॥
 सुरा, मदिरा मद्वरी मदना मद्य-बीजके ।
 नग्नहूर्नग्नहुर्मद्यसन्धाने, मिष-वासवौ ॥३३७॥
 पानपात्रे तु, तर्षणा ऽनुतर्षौ मद्यपाशने ।
 उपदंशश्चावदंशः स्यात् तेजसावर्तनीमुखा ॥३३८॥
 मूषा मूषी शाणे शाणा शाणिर्निकषवत्कषः ।
 कृपाण्यां कर्तरिः प्रोक्ता कर्तरी चापि, सेवनी ॥३३९॥
 सूत्रिः सूत्री सूचि-सूत्रे द्वे पिप्पलक-पिप्पले ।
 कर्तनसाधने तर्कुस्तर्कुल्यप्रपि च सीवनम् ॥ ३४० ॥
 सेवनं च स्यूतौ, स्यूते तु प्रसेवश्च प्रसेवकः ।
 स्योनं स्यात्तन्तुवाये तु तन्त्रवायः कुविन्दवत् ॥३४१॥
 कुपिन्दोऽपि सूत्रवेष्टे त्रसरस्तसरोऽपि च ।
 वानदण्डे वेम वेमा तन्तौ स्यात् सूत्रतन्तुवत् ॥३४२॥
 सूत्रः सूत्रं सूत्र्यपि स्यादुपानहि तु पादुका ।
 पादूः पन्नद्धापि पादाज्जङ्गुर्वीथी रथी तथा ॥३४३॥
 पीठी त्राणं रक्षणं च पदात् त्वरायतापि च ।
 वरत्रायां नध्री वध्री वार्द्धी वर्द्धापि वर्द्धवत् ॥३४४॥
 पिण्याके खलिः खलोऽस्त्री स्यात्तक्षिण्यां तु वासिवत् ।
 वासी तूलिका लीषी कोषिका कान्दविके पुनः ॥३४५॥
 भक्ष्यकारो भक्ष्यकार आदितालव्य-दन्त्यभृत् ।

अजहन्नमणुक्कोसो ओ खित्तओ णेगसंठाणो ॥ ५४ ॥
 तप्पागारे पल्लग पडहग झल्लरि मुहंग पुप्फ जवे ।
 तिरिअमणुअेसु ओही नाणाविहसंठिओ भणिओ ॥ ५५ ॥
 अणुगामिओ उ ओही नेरइआणं तहेव देवाणं ।
 अणुगामि-अणणुगामी मीसो अ मणुस्सतेरिच्छे ॥ ५६ ॥
 खित्तस्स अवट्टाणं तिचीसं सागरा उ कालेणं ।
 दव्वे भिन्नमुहुत्तो पज्जवलंभे अ सत्तट्ट ॥ ५७ ॥
 अद्धाइ अवट्टाणं छावट्टीसागरा उ कालेणं ।
 उक्कोसगं तु एअं इक्को समओ जहन्नेणं ॥ ५८ ॥
 नुद्धी वा हाणी वा चउव्विहा होइ खित्तकालाणं ।
 दव्वेसु होइ दुविहा छव्विह पुण पज्जवे होइ ॥ ५९ ॥
 फड्डाई असंखिज्जा संखिज्जे आवि एगजीवस्स ।
 एकप्फड्डुवओगे निअमा सवत्थ उवउत्तो ॥ ६० ॥
 फड्डाई आणुगामी अणणुगामी अ मीसगो चैव ।

अजघन्योत्कृष्टस्तु क्षेत्रतोऽनेकसंस्थानं ॥ ५४ ॥
 तप्राकारः पत्यक पटहको झल्लरी मृदङ्गः पुष्प यवः ।
 तिर्यग्मनुजेषु अवधिर्नानाविधसंस्थितो भणित ॥ ५५ ॥
 अनुगामिकस्त्ववाधिनैरयिकाणा तथैव देवानाम् ।
 अनुगामि-अननुगामी मिश्रश्च मनुष्यतिर्यक्षु ॥ ५६ ॥
 क्षेत्रस्याऽवस्थानं त्रयस्त्रिंशत्सागरास्तु कालेन ।
 द्रव्ये भिन्नमुहूर्तं पर्यवलाभे च सप्ताऽष्टौ ॥ ५७ ॥
 अद्धाऽवस्थानं षट्षष्टिसागरास्तु कालेन ।
 उत्कृष्टं त्वेतदेक समयो जघन्येन ॥ ५८ ॥
 तृद्धिर्वा हानिर्वा चतुर्विधा भवति क्षेत्रकालयो ।
 द्रव्येषु भवति द्विविधा षड्विधा पुन पर्यवे भवति ॥ ५९ ॥
 फड्डुकान्यसंख्येयानि संख्येयान्यप्येकजाविस्य ।
 एकफड्डुकोपयोगे नियमात् सर्वत्रोपयुक्त ॥ ६० ॥
 फड्डुकान्यानुगाम्यनानुगामी च मिश्रकश्चैव ।

पडिवाइ अपडिवाइ मीसो अ मणुअतेरिच्छे ॥ ६१ ॥
 बाहिरलंभो भज्जो दब्बे खित्ते अ कालभावे अ ।
 उत्पा-पडिवाओ विअ तदुभयं चैगसमअेणं ॥ ६२ ॥
 अब्भंतरलद्धीए उ तदुभयं नत्थि एगसमअेणं ।
 उत्पा-पडिवाओ वि अ एगयरो एगसमअेणं ॥ ६३ ॥
 दब्बाउ असंखिज्जे संखिज्जे आवि पज्जवे लहइ ।
 दो पज्जवे दुगुणिअे लहइ अ एगाओ दब्बाओ ॥ ६४ ॥
 सागारमणागारा ओहिविभंगा जहन्नगा तुल्ला ।
 उवरिमगेविज्जेसु ओ परेण ओही असंखिज्जो ॥ ६५ ॥
 नेरइआ देवतित्थंकरा य ओहिस्स बाहिरा हुन्ति ।
 पासंति दब्बओ खल्लु सेसा देसेण पासति ॥ ६६ ॥
 संखिज्जमसंखिज्जो पुरिसमबाहाए खित्तओ ओही ।
 संबद्धमसंबद्धो लोगमलोगे अ संबद्धो ॥ ६७ ॥
 गइनेरइआईआ हिट्ठा जह वन्निआ तहेव इहं ।

प्रतिपाल्यप्रतिपाती मिश्रश्च मनुजतिर्यक्षु ॥ ६१ ॥
 बाह्यलाभो भाज्यो द्रव्ये क्षेत्रे च कालभावयोश्च ।
 उत्पाद-प्रतिपातावपि च तदुभयं चैकसमयेन ॥ ६२ ॥
 अभ्यन्तरलद्धौ तु तदुभयं नास्त्येकसमयेन ।
 उत्पाद-प्रतिपातावपि चैकतर एकसमयेन ॥ ६३ ॥
 द्रव्यात् असंख्येयान् संख्येयानपि पर्यवोल्लभते ।
 द्वौ पर्यवौ द्विगुणितौ लभते चैकस्माद् द्रव्यात् ॥ ६४ ॥
 साकाराऽनाकाराववधिविभङ्गौ जघन्यकौ तुल्यौ ।
 उपरिमग्रैवयकेषु तु परेणावाधिरसंख्येयः ॥ ६५ ॥
 नैरयिका देवतीर्थकराश्चावधेर्वाह्या भवन्ति ।
 पश्यन्ति सर्वतः खलु शेषा देशेन पश्यन्ति ॥ ६६ ॥
 संख्येयोऽसंख्येयः पुरुषाऽवाधया क्षेत्रतोऽवधिः ।
 संबद्धोऽसंबद्धो लोकेऽलोके च संबद्धः ॥ ६७ ॥
 गतिनैरयिकादयोऽधो यथा वर्णिता तथैवेह ।

इड्ढी एसा वन्निज्जइ चि तो सेसिआओ वि ॥ ६८ ॥
 आमोसहि विप्पोसहि खेलोसहि जल्लमोसही चैव ।
 संभिन्नसोअ उजुमइ सव्वोसहि चैव बोधव्वो ॥ ६९ ॥
 चारणं आसीविस केवली अ मणनाणिणो अ पुव्वधरा ।
 अरहंत चक्कवट्ठी बलदेवा वासुदेवा य ॥ ७० ॥
 सोलसरायसहस्सा सव्वबलेणं तु संकलनिवद्धं ।
 अंछंति वासुदेवं अगडतडम्मि ठिअं संतं ॥ ७१ ॥
 धित्तूणं संकलं सो वामगहत्थेण अंछमाणणं ।
 भुंजिज्ज विलिपिज्ज वं महुमहणं ते नवा यंति ॥ ७२ ॥
 दो सोला बत्तीसा सव्वबलेणं तु संकलनिवद्धं ।
 अंछन्ति चक्कवट्ठीं अगडतडम्मि ठिअं सन्तं ॥ ७३ ॥
 धित्तूणं संकलं सो वामगहत्थेण अंछमाणणं ।
 भुंजिज्ज विलिपिज्ज व चक्कहरं ते नवा यंति ॥ ७४ ॥
 जं केसवस्स बलं तं दुगुणं होइ चक्कवट्ठिस्स ।

ऋद्धयेषा वर्णत इति तु शेषिका अपि ॥ ६८ ॥
 आमशौषधिर्विप्रुषोषधि खेलौषधिर्जल्लौषधिरेव ।
 सभिन्नश्रोता ऋजुमति. सर्वौषधिरेव बोद्धव्य ॥ ६९ ॥
 चारणा आशीर्विषा केवलिनश्च मनोज्ञानिनश्च पूर्वधरा. ।
 अरहन्तश्चक्रवर्तिनो बलदेवा वासुदेवाश्च ॥ ७० ॥
 षोडश राजसहस्रं सर्वबलेन तु शृङ्खलानिवद्धम् ।
 आञ्छन्ति वासुदेवं कूपतटे स्थितं सन्तम् ॥ ७१ ॥
 गृहीत्वा शृङ्खला स वामकहस्तेनाऽऽञ्छमानानाम् ।
 भुञ्जीत विलिम्पेत वा मधुमथनं ते नवा यान्ति ॥ ७२ ॥
 द्वे षोडश द्वात्रिंशत् सर्वबलेन तु शृङ्खलानिवद्धम् ।
 आञ्छन्ति चक्रवर्तिन कूपतटे स्थितं सन्तम् ॥ ७३ ॥
 गृहीत्वा शृङ्खला स वामकहस्तेनाऽऽञ्छमानानाम् ।
 भुञ्जीत विलिम्पेत वा चक्रधरं ते नवा यान्ति ॥ ७४ ॥
 यत् केशवस्य बलं तत् द्विगुणं भवति चक्रवर्तिन. ।

ततो बला बलवगा अपरिमिअबला जिणवरिंदा ॥ ७५ ॥

मणपज्जवनाणं पुण जणमणपरिचिंतिअत्थपागडणं ।

माणुसखित्तनिवद्धं गुणपच्चइअं चरित्तवओ ॥ ७६ ॥

अह सव्वदव्वपरिणामभावविन्नत्तिकारणमणंतं ।

सासयमप्पडिवाई एगविहं केवलं नाणं ॥ ७७ ॥


केवलनाणेणत्थे नाउं जे तत्थ पन्नवणजुग्गा ।

ते भासइ तित्थयरो वयजोगसुअं हवइ सेसं ॥ ७८ ॥

इत्थं पुण अहिगारो सुअनाणेणं जओ सुअेणं तु ।

सेसाणमप्पणो वि अ अणुओग पर्इवदिट्ठन्तो ॥ ७९ ॥

पेढिआ समत्ता ।



तित्थयरे भगवंते अणुत्तरपरक्कमे अमिअनाणी ।

तिन्ने सुगइगइगए सिद्धिपहपएसए वन्दे ॥ १ ॥

वंदामि महाभागं महामुणिं महायसं महावीरं ।

अमरनररायमहिअं तित्थयरमिमस्स तित्थस्स ॥ २ ॥

ततो बलदेवा बलवन्तोऽपरिमितबला जिनवरैन्द्रा ॥ ७५ ॥

मनःपर्यवज्ञानं पुनर्जनमन परिचिन्तितार्थप्रकटनम् ।

मनुष्यक्षेत्रनिवद्ध गुणप्रत्ययितं चारित्रवत् ॥ ७६ ॥

अथ सर्वद्रव्यपरिणामभावविज्ञप्तिकारणमनन्तम् ।

शाश्वतमप्रतिपाति एकविधं केवलं ज्ञानम् ॥ ७७ ॥

केवलज्ञानेनाऽर्थावज्ञात्वा ये तत्र प्रज्ञापनयोग्याः ।


तान् भाषते तीर्थकरो वचोयोगश्रुत भवति शेषम् ॥ ७८ ॥

अत्र पुनरधिकारः श्रुतज्ञानेन यत श्रुतेन तु ।

शेषाणामात्मनश्चापि अनुयोग प्रदीपदृष्टान्त ॥ ७९ ॥

।

पिटिका समाप्ता ।



तीर्थकरान् भगवतोऽनुत्तरपराक्रमानमिनज्ञानिनः ।

तीर्थान् सुगतिगतिगतान् सिद्धिपथप्रदेशकान् वन्दे ॥ १ ॥

वन्दे महाभागं महामुनिं महायशसं महावीरम् ।

अमरनरराजमहितं तीर्थकरमस्य तीर्थम्य ॥ २ ॥

इक्कारस वि गणहरे पवार्यए पवयणस्स वंदामि ।
 सव्वं गणहरवंसं वायगवंसं पवयणं च ॥ ३ ॥
 ते वंदिऊण सिरसा अत्थपुहुत्तस्स तेहिं कहिअस्स ।
 सुअनाणस्स भगवओ निज्जुत्तिं कित्तइस्सामि ॥ ४ ॥
 आवस्सगस्स दसकालिअस्स तह उत्तरज्झमायारे ।
 सूअगडे निज्जुत्तिं वुच्छामि तथा दसाणं च ॥ ५ ॥
 ऋप्पस्स य निज्जुत्तिं ववहारस्सेव परमनिउणस्स ।
 सूरिअपन्नत्तीए वुच्छं इसिभासिआणं च ॥ ६ ॥
 एएसिं निज्जुत्तिं वुच्छामि अहं जिणोवएसेण ।
 आहरण-हेउ-कारण-पयनिवहमिणं समासेण ॥ ७ ॥
 सामाइअनिज्जुत्तिं वुच्छं उवएसिअं गुरुजणेण ।
 आयरिअपरम्परेण आगयं आणुपुव्वीए ॥ ८ ॥
 निज्जुत्ता ते अत्था जं बद्धा तेण होइ निज्जुत्ती ।
 तहवि इच्छावेइ विभासिउं सुत्तपरिवाडिं* ॥ ९ ॥

एकादशाऽपि गणधरान् प्रवादकान् प्रवचनस्य वन्दे ।
 सर्व्वं गणधरवंशं वाचकवंशं प्रवचनं च ॥ ३ ॥
 तान् वन्दित्वा शिरसाऽर्थपृथुत्वस्य तै कथितस्य ।
 ध्रुतज्ञानस्य भगवतो निर्युक्तिं कीर्तयिष्यामि ॥ ४ ॥
 आवश्यकस्य दशकालिकस्य तथोत्तराध्ययनाऽऽचारयो ।
 सूत्रकृते निर्युक्तिं वक्ष्यामि तथा दशानां च ॥ ५ ॥
 कल्पस्य त्व निर्युक्तिं व्यवहारस्यैव परमनिपुणस्य ।
 सूर्यप्रज्ञसेर्वक्ष्ये ऋषिभाषितानां च ॥ ६ ॥
 एतेषा निर्युक्तिं वक्ष्याम्यहं जिनोपदेशेन ।
 उदाहरण-हेतु-कारण-पदनिवहामिमां समासेन ॥ ७ ॥
 सामायिकनिर्युक्तिं वक्ष्ये उपदिष्टा गुरुजनेन ।
 आचार्यपारम्पर्येणाऽऽगतामानुपूर्व्या ॥ ८ ॥
 निर्युक्तास्तेऽर्था यस्माद् वद्धास्तेन भवति निर्युक्ति ।
 तथाप्येषयति विभाषितु सूत्रपरिपाटिं ॥ ९ ॥

तव-निअम-नाणरुक्खं आरूढो केवली अमिअनाणी ।
 तो मुअइ नाणवुट्ठिं भविअजणविबोहणट्टाए ॥ १० ॥
 तं बुद्धिमयेण पडेण गणहरा गिण्हिउं निरवसेसं ।
 तित्थयरभासिआइं गंथन्ति तओ पक्खणट्टा ॥ ११ ॥
 धित्तुं च सुहं सुहगुण*णधारणा दाउ पुच्छिउं चैव ।
 एएहिं कारणेहिं जीअं ति कयं गणहरोहिं ॥ १२ ॥
 अत्थं भासइ अरिहा सुत्तं गंथंति गणहरा निउणा † ।
 सासणस्स हिअट्टाए तओ सुत्तं पवत्तेइ ॥ १३ ॥
 सामाइअमाईअं सुअनाणं जाव विन्दुसाराओ ।
 तस्स वि सारो चरणं सारो चरणस्स निव्वाण ॥ १४ ॥
 सुअनाणम्मि वि जीवो वट्टन्तो सो न पाउणइ मुक्खं ।
 जो तव-संजममइए जोए न चएइ वोढुं जे ॥ १५ ॥
 जह च्छेअलद्धनिज्जामओ वि वाणिअगइच्छिअं भूमिं ।
 वाएण विणा पोओ न चएइ महन्नवं तरिअं ॥ १६ ॥

तपो-नियम-ज्ञानवृक्षमारूढ केवल्यमितज्ञानी ।
 ततो मुञ्चति ज्ञानवृष्टिं भव्यजनविवोधनार्थम् ॥ १० ॥
 तां बुद्धिमयेन पटेन गणधरा गृहीत्वा निरवशेषां ।
 तीर्थकरभाषितानि ग्रन्थन्ति ततः प्रवचनार्थम् ॥ ११ ॥
 गृहीतं च सुखं सुखगुणनधारणे दातुं प्रष्टुमेव ।
 एतै कारणै जीतमिति कृतं गणधरैः ॥ १२ ॥
 अर्थं भाषतेऽर्हन् सूत्रं ग्रन्थन्ति गणधरा निपुणाः ।
 शासनस्य हितार्थं तत सूत्रं प्रवर्तते ॥ १३ ॥
 सामायिकादिकं श्रुतज्ञानं यावत् विन्दुसारात् ।
 तस्यापि सारश्चरणं सारश्चरणस्य निर्वाणम् ॥ १४ ॥
 श्रुतज्ञानेऽपि जीवो वर्तमानः स न प्राप्नोति मोक्षम् †
 यस्तप-सयममयान् योगान् न शक्नोति वोढुं ॥ १५ ॥
 यथा लब्धच्छेकनिर्यामकोऽपि वणिगिष्ठां भूमिम् ‡ ।
 वातेन विना पोतो न शक्नोति महार्णवं तरीतुम् ॥ १६ ॥

तह नाणलद्धनिज्जामओ वि सिद्धिवसहिं न पाउणइ ।
 निउणो वि जीवपोओ तव-संजममारुअविहीणो ॥ १७ ॥
 संसारसागराओ उच्छुद्धो मा पुणो वि* बुद्धिज्जा ।
 चरणगुणविप्पहीणो बुद्धइ सुवहु पि जाणन्तो ॥ १८ ॥
 सुवहुं पि सुअमहीअं किं काही चरणविप्पहीणस्स ? ।
 अंधस्स जह पलित्ता दीवसयसहस्सकोडी वि ॥ १९ ॥
 अप्पं पि सुअमहीअं पगासगं होइ चरणजुत्तस्स ।
 इक्को वि जह पईवो सचक्खुअस्सा पयासेइ ॥ २० ॥
 जहा खरो चंदण भारवाही भारस्स भागी न † उ चंदणस्स ।
 एवं खु नाणी चरणेण हीणो नाणस्स भागी न ‡ उ सुगईए ॥ २१ ॥
 हय नाणं किआहीणं हआ अन्नाणओ किआ ।
 पासंतो पंगुलो दड्ढो धावमाणो अ अंधओ ॥ २२ ॥
 संजोगसिद्धीइ फलं वयंति न हु एगचक्केण रहो पयाइ ।
 अंधो अ पंगू अ वणे समिच्चा ते संपउत्ता नगरं पविट्ठा ॥ २३ ॥

तथा लब्धज्ञाननिर्यामकोऽपि सिद्धिवसतिं न प्राप्नोति ।
 निपुणोऽपि जीवपोत तप-संयममारुतविहीन ॥ १७ ॥
 संसारसागरादुन्मग्नः मा पुनरपि निमज्जेत् ।
 चरणगुणविप्रहीणो निमज्जति सुवहपि जानन् ॥ १८ ॥
 सुवहपि श्रुतमधीतं किं करिष्यति चरणविप्रहीणस्य ? ।
 अंधस्य यथा प्रदीप्ता दीपशतसहस्रकोटिरपि ॥ १९ ॥
 अल्पमपि श्रुतमधीतं प्रकाशकं भवति चरणयुक्तस्य ।
 एकोऽपि यथा प्रदीप सचक्षुष प्रकाशते ॥ २० ॥
 यथा खरश्चन्दनभारवाही भारस्य भागी न तु चन्दनस्य ।
 एवं हि ज्ञानी चरणेन हीनो ज्ञानस्य भागी न तु सुगते- ॥ २१ ॥
 हतं ज्ञानं क्रियाहीनं हताऽज्ञानत क्रिया ।
 पश्यन् पद्भुर्दग्धो धावमानश्चाऽन्धक ॥ २२ ॥
 संयोगसिद्धौ फलं वदन्ति न खल्वेक चक्रेण रथ प्रयाति ।
 अन्धश्च पद्भुश्च वने समेत्य संप्रयुक्तौ तौ नगरं प्रविष्टौ ॥ २३ ॥

* ख, निवुद्धिज्जा. † ख, ग, न सु, न हु. ‡ ख न हु.

- नाणं पयासगं सो हेऊ तवो संजमो अ गुत्तिगरो ।
 तिण्हं पि समाओगे मुखो जिणसासणे भणिओ ॥ २४ ॥
 भावे खओवसमिए दुवालसंगं पि होइ सुअनाणं ।
 केवलिअनाणलभो नन्नत्थ खए कसायाणं ॥ २५ ॥
 अट्टण्हं पयडीणं उक्कोसठिईइ वट्टमाणो उ ।
 जीवो न लहइ सामाइअं चउण्हं पि एगयरं ॥ २६ ॥
 सत्तण्हं पयडीणं अब्भंतरओ उ कोडिकोडीए ।
 काऊण सागराणं जइ लहइ चउण्हमन्नयरं ॥ २७ ॥
 १ पल्लय-गिरिसरिउवला पिवीलिआ पुरिस पहजरगाहिआ ।
 ११ कुइवजलवत्थाणि य सामाइअलाभदिट्टन्तो ॥ २८ ॥
 पढमिल्लुआण उदए नियमा संजोअणाकसायाणं ।
 २ सम्महंसणलंभं भवसिद्धीआ वि न लहन्ति ॥ २९ ॥
 ३ वीअकसायाणुदए अपच्चक्खाणनामधिजाणं ।
 ४ सम्महंसणलंभं विरया विरई न उ लहन्ति ॥ ३० ॥

- ज्ञानं, प्रकाशकं तस्य हेतु तप संयमश्च गुप्तिकरः ।
 त्रयाणामपि समायोगे मोक्षो जिनशासने भणित ॥ २४ ॥
 भावे क्षयोपशमिते द्वादशाङ्ग भवति श्रुतज्ञानम् ।
 कैवल्यज्ञानलाभं नान्यत्र क्षये कषायाणाम् ॥ २५ ॥
 अद्याना प्रकृतीनामुत्कृष्टस्थितौ वर्तमानस्तु ।
 जीवो न लभते सामायिकं चतुर्णामप्येकतरम् ॥ २६ ॥
 यत्तानां प्रकृतीनामभ्यन्तरतस्तु कोटाकोट्याः ।
 कृत्वा सागराणा यदि लभते चतुर्णामप्यन्यतरत् ॥ २७ ॥
 १ पल्लय-गिरिसरिदुपला पिपीलिका पुरुषा पथज्वरगृहीता ।
 ११ कोद्रवजलवत्त्राणि च सामायिकलाभदृष्टान्त ॥ २८ ॥
 प्राथमिकानामुदये नियमात् संयोजनकषायाणाम् ।
 सम्यग्दर्शनलाभं भवसिद्धिका अपि न लभन्ते ॥ २९ ॥
 ३ द्वितीयकषायाणामुदयेऽप्रत्याख्याननामधेयानाम् ।
 ४ सम्यग्दर्शनलाभं विरता विरतिं न तु लभन्ते ॥ ३० ॥

अद्यावधि मुद्रिता ग्रन्थाः

१. प्रमाणनयतस्वालोकालङ्कारः—जैनन्यायदर्शनस्यापूर्वोऽयं प्रवेशग्रन्थः, कर्ता चास्म श्रीचादिदेवसूरिः। मूल्यम् ०-८-०
२. हेमलिङ्गानुशासनम्—अवचुरिसहितम् । लिङ्गबोधकोऽयं मनोहरो ग्रन्थः । कर्ताऽस्य श्रीहेमचन्द्राचार्यः। ,, ०-५-०
३. सिद्धहेमशब्दानुशासनम्—लघुवृत्तिधातुपाठादिसहितम्—व्याकरणे व्युत्पत्सनां सरलोऽयं ग्रन्थः—कर्ताऽस्य श्रीहेमचन्द्राचार्यः । ,, ३-०-०
४. गुर्वावली (द्वितीयावृत्तिः) श्रीमृणिसुन्दरसूरिविरचिता ०-४-०
५. रत्नाकरावतारिकायाः टिप्पणपञ्जिकासहितायाः परिच्छेदद्वयम्—प्रमाणनयतस्वालोकालङ्कारस्य व्याख्यानरूपं रत्नप्रभाचार्यविरचितम् । ,, १-०-०
६. सिद्धहेमशब्दानुशासनम्—मूलपात्रम् । ,, ०-५-०
७. मुद्रितकुमुदचन्द्रप्रकरणम्—श्रीश्रावकयशश्चन्द्रकृतम्, ,, ०-८-०
८. क्रियारत्नसमुच्चयः—गुणरत्नसूरिरचितः—सकलवैयाकरणा-नामुपकारी । ,, २-०-०
९. श्रीसिद्धहेमशब्दानुशासनसूत्रपाठस्याकारादिक्रमेण सूचीपात्रम् । ,, ०-४-०
१०. कविकल्पद्रुमः । ,, ०-४-०
११. सम्प्रतितर्काख्यप्रकरणस्य प्रथमो विभागः, श्रीसिद्धसेन-दिवाकररचितः । श्रीराजगच्छीयाभयदेवसूरिरचितया तस्वबोधविधायिन्या व्याख्यया विभूषितः । अयं ग्रन्थो जैनदार्शनिकविषयस्य सम्यगाविवेचकः सकलन्यायग्रन्थानां मौलिमुकुटतामावहति । ,, ३-०-०
१२. जगद्गुरुकान्यम्—श्रीपद्मसागरगणिविरचितम् ,, ०-४-०
१३. श्रीशालिभद्रचरितम्—टिप्पणसहितं, श्रीधर्मकुमारसुधिया विरचितम् । अपूर्वोऽयं कथाग्रन्थः । ,, १-४-०

१४. पर्वकथासंग्रहस्य प्रथमो विभागः । ,, ०-४-०
१५. षड्वर्जनसमुच्चयः—भीराजशेखरसूरिविरचितः,, ०-४-०
१६. शीलदूतम्—श्रीचारित्रसुन्दरगणिविनिर्मितम् । ,, ०-४-०
१७. निर्भयभीमकथायोगः—श्रीरामचन्द्रसूरिविरचितः,, ०-४-०
१८. श्रीज्ञान्तिनाथमहाकाव्यम्—श्रीमुनिभद्रसूरिविरचितम् । ,, ३-०-०
१९. रत्नाकरावतारिका— श्रीरत्नप्रभाचार्यकृता— तृतीयपरि-
च्छेदादारभ्याऽष्टमपरिच्छेदपर्यन्ता । ,, १-८-०
- ,, आश्रयपरिच्छेदद्वयस्य । ,, १-०-०
- ,, प्रथमाष्टमपरिच्छेदस्य संपूर्णस्य । ,, ३-०-०
२०. उपदेशतरङ्गिणी । ,, ३-०-०
२१. न्यायार्थमञ्जूषा स्वोपब्रह्मधुन्वाससहिता । ,, ३-०-०
२२. गुरुगुणरत्नाकरकाव्यम्—अस्मिन् लालित्यमये खण्डका-
व्ये तपागच्छाचार्यश्रीलक्ष्मीसागरमूरीणां चरित्रमैतिहा-
सिकदृष्ट्या सरसमुपवर्णितम् । अन्येषामपि तात्कालिकानां
बहूनां महात्मनां चरित्राणि प्रसङ्गतो जिवेशितानि सन्ति ।
कर्ताऽस्य श्रीसोमचारित्रगणिः । ,, ०-८-०
२३. विजयप्रशस्तिमहाकाव्यम्, सटीकम्—अस्मिन् महाकाव्यस-
र्वलक्षणान्विते ग्रन्थे श्रीहीरविजयसूरि—श्रीविजयसेनसूरि—
श्रीविजयदेवमूरीणां चरित्राणि रसावर्षिण्या सुसंबद्धपदल्या
सम्यग्निर्वर्णितानि । प्रसिद्धनरपतिश्रीअकम्बरपातिज्ञाहि-
ना सहजातो हीरविजयमूरीणां हृद्यान्तोऽपि यथार्थत्वनो-
षदञ्चितः । निर्माताऽस्य कविपुरन्दरः श्रीहेमविजयगणिः ।

मूल्यम्—५-०-०

प्राप्तिस्वानम्—

शा. हर्षचन्द्र—भूराभारि,

भंभेजीकोठी बनारस सिटी ।

जैनश्वेताम्बर, मैरापंथी कृत

जिनज्ञान दर्पण

प्रथम भाग ।

जिसको गंगाशहर निवासी श्रावक भैरुंदान,
ईसरचन्द चोपडाने भव्यजीवाके पठनार्थ
महालचन्द वयद के द्वारा नरसिंह प्रेस
कलकत्ता में छपवाकर प्रगट
किया ।

लेखक—

महालचन्द वयद ।

सं० १८७० साल ।

प्रथम वार २०००]

[विना मूल्य

पुस्तक मिलने के पते

- (१) भैरूँदान ईसरचन्द चोपड़ा,
मु० गंगाशहर,
जि० बीकानेर ।
- (२) भैरूँदान ईसरचन्द चोपड़ा,
२ पोर्चुगीज चर्च फ्रीट,
कलकत्ता ।



विषय-सूची

संख्या	विषय	पृष्ठांक
--------	------	----------

१	चौबीस जिनस्तवन २४	१
२	नवकार १०८ गुणोंके नाम संयुक्त	२१
३	सामायक लेणेकी और पारणेकी पाटी	२४
४	तिखूता की पाटी	२४
५	पंच पद बंदणा	२५
६	पचीस बोल	२७
७	पानाकी चरचा	४४
८	तेराद्वार	८२
९	लघु दण्डक	१११
१०	पडिकमणो अर्थ सहित	१३७
११	छन्द बोटक (सक्तमलजी स्वामी कृत)	१६६
१२	जिन आज्ञा ओलखावणको चौढालियो (स्वामी भिन्ननजीकृत)	१७०

१३	श्रीपुज्य भिक्षणजीको स्मरण (शोभजीकृत)	२००
१४	सरधा उपर सभाय	२०६
१५	अनाथी मुनिको स्तवन	२११
१६	जिन कल्पी साधुकी ढाल	२१४
१७	बारे भावना उपर ढाल	२१६
१८	सौलकीनव बाडकी ढाल	२१८
१९	श्रीभिक्षणजी स्वामीके गुणाकी ढाल (जयाचार्य कृत)	२२०
२०	श्रीभिक्षणजी स्वामीके गुणाकी ढाल (जयाचार्य कृत)	२२१
२१	श्रीभिक्षु गणीके गुणाकी ढाल (श्रावक शोभजी कृत)	२२२
२२	मुनि गुणावर्णनकी ढाल (जयाचार्य कृत)	२२४
२३	श्रीपूज्यगणीके गुणाकी ढाल (क्रोगजीकृत)	२२६
२४	श्रीपुज्य गणीके गुणाकीढाल (हरषुजीकृत)	२२६
२५	श्रीपुज्य गणीराजके गुणाकी ढाल (मोतीजी स्वामी कृत)	२३०
२६	श्रीकालु गणीके गुणाकी ढाल (हातीमलजी खटेड कृत)	२३२
२७	श्रीकालु गणीराजके गुणाकी ढाल	२३४

२८	श्रीकालुगण्डीके गुणाकी ढाल (नेमीचंदजी फूलफगरकृत)	२३६
२९	श्रीकालु गणिराजके गुणाकी ढाल (महा सत्यांजी महाराज श्रीकानकंवरजी कृत	२३७
३०	श्रीगुलाव कंवरजी महासत्यांजी महाराजके गुणाकी ढाल	२३८
३१	आषाढ मुनिको व्याख्यान ढाल ७	२४०
३२	सामायकरा बत्तीस दोष	२५३
३३	श्रीअरिहन्त भगवानकी चौतीस अतिशय	२५५
३४	श्रीअरिहन्त भगवानकी पैतीस बाणी	२५७
३५	पांच मंडलाका दोष	२५९
३६	दश विधि यतिधर्म	२६०
३७	सत्रह भेद संयम	२६०
३८	बयालीस दोष	२६१
३९	बावन अणाचार	२६३
४०	बहु श्रुतिने सोलह उपमा	२६६
४१	अष्ट सम्पदा	२६७
४२	चवदे स्थानक समुर्द्धिम मनुष्य उपजे	२६७
४३	एकलरो चौढालियो (स्वामीभिषणजीकृत)	२६८



य पाठको ! मैंने यह “जिन ज्ञानदर्पण” नामक पुस्तक, अपनी अल्पबुद्धिके अनुसार, भव्य जीवोंके पठनार्थ, प्राचीन महर्षियों कृत

चरचाके बोलोंके थोकड़ा, श्रीजिनेश्वर देव व पूज्य गणौराजके गुणोंके स्तवन, सभाय, ढाल, छन्द, सवैया गजल, और आषाढ मुनिको व्याख्यान सामायकरा बत्तीस दोष, चौतीस अतिशय, पैंतीस वाणी, पञ्च मण्डलेका दोष, दशविधि, यति-धर्म, सतह भेद-संयम, बयालीस दोष, बावन अणाचार, बहु श्रुति की सोलह उपमा, अष्ट सम्पदा, चौदह स्थानक समु-र्द्धिम मनुष्य उपजे तथा एकलको चौढालियो इत्यादि संग्रह कर तैयार की है ।

इस पुस्तकके तैयार करनेमें, भगसक सावधानी से काम लिया गया है; तथापि भूल करना मनुष्यका


स्वभाव है अतः थोड़ी या बहुत भूलें प्रायः प्रत्येक मनुष्यसे हो ही जाती हैं। जिसमें मैं न तो कोई मुलेखक हूँ और न लेखक ही हूँ और यह मेरा प्रथम साहस है फिर मुझसे ग़लती होना क्या आश्चर्य है? यदि प्रमादवश या मेरी अल्पज्ञताके कारण कुछ भूल चूक या त्रुटियाँ रह गई हों तो उदारहृदय पाठक मुझे क्षमा करें। मैंने यथावकाश इस पुस्तककी छपने बाद पढ़ लिया है। मेरी नज़रमें जहाँ जहाँ भूल दिखार्ई पड़ीं वहीं वहीँसे उनको चुन चुनकर शुद्धाशुद्ध पत्र छपा दिया है। विज्ञ पाठक शुद्धाशुद्ध पत्रसे मिलाकर अपनी अपनी पुस्तकोंको शुद्ध करले और इस कष्टके लिये मुझे अवश्य क्षमा करें। भूलें रहनेका कारण यह है कि यह पुस्तक बहुतही जल्दी छपी है इससे प्रूफ़ देखने का समय कम मिला। सम्भव है कि छपते समय कुछ अक्षर और मात्राएँ टूट गई हों। जो भूलें पाठकोंकी नज़र तले आवें उनसे मुझे सूचित कर दें। इस कृपाके लिये मैं उनका चिरकृतज्ञ रहूँगा और दूसरी आवृत्तिमें हठ त्यागकर उन भूलोंको सुधार दूँगा।

यदि जिन-धर्म प्रेमी पाठक इस पुस्तकसे कुछ भी लाभान्वित होंगे तो मैं अपने परिश्रमको सार्थक

समभूंगा । यदि जिनेश्वर देवकी बचनोके विरुद्ध
कुछ छप गया हो तो मुझे मिच्छामि दुक्कडं ।

आपका हितेच्छु

श्रावक महालचन्द बयद ।



॥ गजल ॥

जिनेश्वर धर्म साग है ।

मेरे प्राणों से प्यारा है ॥

जिनका ध्यान धर भाई ।

श्रीजिनराज फरमाई ॥

जिससे होत सुखदाइ ।

इसीसे दिल हमारा है ॥ जिने ॥ १ ॥

जिनेश्वर नाम जो गावे ।

कि भव से पार होजावे ॥

जनम वो फेर ना पावे ।

होय भवसिन्धु पारा है ॥ जिने ॥ २ ॥

ऐसे जिनराज प्यारे हैं ।

जिन्होंने भक्त त्यारे हैं ॥

जिन्होंने कर्म मारे हैं ।

उन्हींका मो आधार है ॥ जिने ॥ ३ ॥

विमुख जो धर्म से होवे ।

पकड़ सिर अन्तमें रोवे ॥

जिनेश्वर धर्म वो खोवे ।

जिन्होंकी नर्क प्यारा है ॥ जिने ॥ ४ ॥

नहीं नर भव जनम हारे ।

जिनेश्वर घर्म जो धारे ॥

वोही यम फांसको टारे ।

महालचंद दास थारा है ॥ जिने ॥ ५ ॥

—

दोहा । चौबीस जिन प्रणमी करी । बले
भिन्नू गणीराज ॥ प्रणम्यांथी शिव सुख लहै ।
पामे भवोदधि पाज ॥ १ ॥ पंचम आरे अव-
तस्या । दान दया दिपाय ॥ सांसण नन्दण
वन समो । दिन २ तेज सवाय ॥ २ ॥ बसु
पट स्वाम कालुगणी । सादृश जेम जिणन्द ॥
षटमत षट खण्ड साभवा । नवलज नाह
नरिन्द ॥ ३ ॥ तेरो सर्ग लडू प्रभु । “जिन
ज्ञान दर्पण” ताज ॥ करी प्रगट पढ़वा
भणी । भव्य जीवों हित काज ॥ ४ ॥
पामे गुरु पसायथी । समकित रत्न सुजीय ॥
महालु कहै नित सेवियां । मनवांछित फल
होय ॥ ५ ॥

॥ श्रीजिनायनमः ॥

अथ

॥ श्रीचउवीसजिनस्तुतिप्रारभः ॥

प्रथम ऋषभजिनस्तवनं

रागप्रभाति ।

बेकरजोडीप्रणमुंसदा ॥ युगआदेआदिजिगंदा ॥
करमरिपुगजउपरे ॥ सृगराजमुगंदा ॥ प्रणमुंप्रथम-
जिगंदने ॥ जयजयजिगचंदा ॥१॥ एआंकसी ॥ अनु-
कूलप्रतिकूलसमसही ॥ तपधिविधतपंदा ॥ चेतनतन-
भिन्नलेखवी ॥ ध्यानमुक्तध्यावंदा ॥ प्र० ॥ २॥ पुदगल-
सुखद्वरिपेखिया ॥ दुःखहेतुभयाला ॥ विरक्तचित्तवि-
गच्योद्रस्यो ॥ जाण्याप्रत्यक्षजाला ॥ प्र० ॥ ३ ॥ संवेग-
सरोवरजूलतां ॥ उपशमरसलीनो ॥ निंदास्तुतिमुख-
दुःख ॥ समभावमुचीनो ॥ प्र० ॥ ४ ॥ वांसीचंदन-
समपणे ॥ समचित्तजिनध्याया ॥ इमतनसारतजी-
करी ॥ प्रभुकेवलपाया ॥ प्र० ॥ ५ ॥ हुंवलेहारीशर-
हरी ॥ वाहावाहाजिनराया ॥ वाइदशाकदआवसि ॥

मुक्तमनउमाया ॥ प्र० ॥ ६ ॥ संवतउगणीसेंभाद्रवे ॥
दशमीदित्यवार ॥ ऋषभजिनंदरटवेकरी ॥ हुउहर्ष-
अपार ॥ प्र० ॥ ७ ॥

अथ अजितजिनस्तवन ।

अहोप्रभुअजितजिणेसरआपरी ॥ ध्यावुंध्यानहमेस
हो ॥ अहोप्रभुअसरणसरणतुंहीसही ॥ मिटेशकल-
कलीसहो ॥ अहोप्रभुतुमहीदायकशिवपंथना ॥ १ ॥
अहोप्रभुउपशमरसभरीआपरी ॥ वाणीसरसरसालहो ॥
अहोप्रभुमुक्तिनिसरणीमहामनोहरु ॥ सुण्यामिटेभ्रमजा
लहो ॥ अ० ॥ २ ॥ अहोप्रभुउभयबंधणआपआखि
या ॥ रागद्वेषविकरालहो ॥ अहोप्रभुहेतुएनरकनि-
गोदना ॥ राच्यामुरखवालहो ॥ अ० ॥ ३ ॥ अहोप्रभु
रमणीराखशणीसमीकही ॥ विषयवेलमोहजालहो ॥
अहोप्रभुकामनेभोगकिंपाकशा ॥ दाख्यादीनदयाल-
हो ॥ अ० ॥ ४ ॥ अहोप्रभुविविधउपदेशदेइकरी ॥
तेंताख्यानरनारहो ॥ अहोप्रभुभवमिंधुपोततुंहीसहो
तुंहीजगतआधारहो ॥ अ० ॥ ५ ॥ अहोप्रभुसरणेआयो
तुजसाहेवा ॥ वसौरह्याहीयामांयहो ॥ अहोप्रभुआगम
वयणअंगीकरो ॥ रह्यीध्यानतुजध्यायहो ॥ अ० ॥ ६ ॥
अहोप्रभुसंवतओगणीसेंनेभाद्रवे ॥ दसमीआदित्यवार-

हो ॥ अहोप्रभुआपतणागुणगावीया ॥ वर्त्योजयजय
कारहो ॥ अ० ॥ ७ ॥

अथ संभवजिनस्तवन ।

संभवसाहिवसमरीये ॥ ध्यायोहोजिणनिर्मलध्यानके ॥
एकपुद्गलदृष्टयापीने ॥ कौधोहेमनमेरुसमानकेसंभव
साहिवसमरिये ॥ १ ॥ एआंकणौ ॥ तनचंचलतामेटने
हुआहेजगथीउदासीनके ॥ ध्यानसुक्लथिरचित्तकरी ॥
उपशममुखमेंहोडरह्यालीनके ॥ सं० ॥२॥ सुखदंड्रा-
दिकनांसहु ॥ जाण्याहोप्रभुअनीतअसारके ॥ भोग
भयंकरकटकफल ॥ पेख्याहेंदुरगतदातारके ॥ सं० ॥
॥ ३ ॥ सुधासंवेगरसेंकरी ॥ पेख्याहेंपुद्गलमोहपासके
अरुचअनादरआणीने ॥ आत्मध्यानेकरतांविलासके ॥
सं० ॥ ४ ॥ संगछांडीमनवशकरी ॥ इंद्रियदमनकही
दुरदंतके ॥ विविधतपेकरीस्वामीजीं ॥ घातीकर्मनो
कौधोअंतके ॥ सं० ॥ ५ ॥ हुंतुजसरणेआवियो ॥
कर्मविदारणातुंप्रभुवीरके ॥ तेंतनमनबचनवशकिया ॥
दुःकरकरणीकरणमहाधीरके ॥ सं० ॥ ६ ॥ संवतओ
गणीसनेभाद्रवे ॥ सुदिइग्यारसआणविनोदके ॥
संभव साहिवसमरिया ॥ पामेहेमनअधिकप्रमोदके
॥ सं० ॥ ७ ॥

अथ अभिनन्दनजिस्तवन ।

तीर्थं करहोचोथाजगभाग्छांडिग्रहवासकरीमतिनिर्म
 ली ॥ विषयविटंबनाहोतजियाविप्रफलजाण ॥ अभि
 नंदनवंदुं नितमनरलो ॥१॥ एआं कणी ॥ दुःकरकरणी
 होकीधोआपदयाल ॥ ध्यानशुधारससमदममनगली ॥
 संगछांडोहोजाणोमायाजालके ॥ अ० ॥२॥ वोररसे
 करीहोकीधोतपस्याविशाल ॥ अनित्यअशरणअसुभभावे
 अगदली ॥ जगभूठोहोजाण्योआपकृपाल ॥ अ० ॥३॥
 आत्ममंत्रीहोसुखदातासमपरिणाम ॥ एहौजअमित
 अशुभभावेकलकली ॥ एहवीभावनाहोभायांजिनगुण
 धाम ॥ अ० ॥४॥ लीनसंविगेहोध्यायांशुक्तध्यान ॥ चा
 यकश्रेणीचढीहुआकेवली ॥ प्रभुपायाहोनिरावरणसु
 नाण ॥ अ० ॥५॥ उपशमरसनीहोवागरीप्रभुवाण ॥
 तनमनप्रेमपायाजनसांभली ॥ तुमवचधारीहोपास्या
 परमकल्याण ॥ अ० ॥६॥ जिनअभिनंदनहोगायातन
 मनधार ॥ संवतओगणीसेनेभाद्रवे अगदली ॥ सुदि
 इग्यारसहीहुओहर्षअपार ॥ अ० ॥७॥

॥ अथ सुमतिजिनस्तवन ॥

सुमतिजिणेसरसाहेवसोभता ॥ सुमतिकरणसंसार ॥
 सुमतिजप्यांथीसुमतिवधेघणो ॥ सुमतिसुसतदातार ॥

सु० ॥ १॥ एआं०कणी ॥ ध्यानसुधारसनिर्मलध्यायने ॥
 पायाकेवलनाण ॥ वाणसरसवरजनबहुताया ॥ ति
 मरहरणजगभाण ॥ सु० ॥२॥ फिटिकसिंहासणजिन
 जीफावता ॥ तरुआशोकउदार ॥ छत्रचामरभामंडल
 भलकता ॥ सुरदुंदुभिभूणकार ॥ सु० ॥३॥ पुष्प
 विष्टिवरसुरध्वनीदीपतां ॥ साहिवजगसिणगार ॥
 अनंतज्ञानदर्शनसुखबलघणुं ॥ एदुवादशगुणश्रीकार ॥
 सु० ॥४॥ वाणीशुधारसउपशमरसभरी ॥ दुर्गतिमूल
 खपाय ॥ शिवसुखनाअरिशब्दादिककह्या ॥ जगता-
 रकजिनराय ॥ सु० ॥५॥ अंतरजामीरेसरणेआपरे ॥
 हुंआयोअवधार ॥ ध्यानतुमारोनिशदिनसांभरे ॥
 सरणागतसुखकार ॥ सु० ॥६॥ संवतओगणीसेरेसुद
 पखभाद्रवे ॥ बारसमंगलवार ॥ सुमतिजिणेसरसाहिव
 समरिया ॥ आणंदहर्षअपार ॥ सु० ॥७॥

अथ पद्मजिनस्तवन ।

निर्लेपपद्मजिसाप्रभु ॥ पद्मप्रभुपीछाण ॥ संयमलीधोति
 णसमें ॥ पायाचोथोनाण ॥ पद्मप्रभुनितसमरिये ॥१॥
 एआं०कणी ॥ ध्यानशुक्लप्रभुध्यायने ॥ पायाकेवलसोय ॥
 दीनदयालतणीदिशा ॥ कहणीनआवेकोय ॥ पद्म० ॥२॥
 समदमउपशमरसभरी ॥ प्रभुतुमतणीवाणि ॥ त्रिभु-

वनतिलकतुंहीसही ॥ तुंहीजनकसमान ॥ पद्म० ॥३
 तुंप्रभुकल्पतरुसमो ॥ तुंचिंतामणीसोय ॥ समरण
 करताआपरो ॥ मनवांछितहोय ॥ पद्म० ॥४॥ सुखदा
 द्रसहुजगभणो ॥ तुंहीदीनदयाल ॥ सरणेआयोतुज
 साहिबा ॥ तुंहीपरमकृपाल ॥ पद्म० ॥५॥ गुणगातां
 मनगहगहे ॥ सुखसंपतजाण ॥ विघ्नमिटेसमरण
 कियां ॥ पामेपरमकल्याण ॥ पद्म०॥५॥ संवतश्रीगणी
 सेनेभाद्रवे ॥ सुदिवारसदेख ॥ पद्मप्रभुरटालाडणुं ॥
 ह्रश्रीहर्षविशेष ॥ पद्म०॥७॥

अथ सुपार्श्वजिनस्तवन ।

सुपारससातमांजिणं दए ॥ त्यांनेसिविसुरनरव्वंदए ॥
 सेवकपूरणआसए ॥ भजियेंनित्यस्वामिसुपासए ॥१॥
 एआंकणी ॥ जनप्रतिबोधणकामए ॥ प्रभुवागरिवाण
 अमामए ॥ संसारथीहुआउदाशए ॥भ०॥२॥ पाम्या
 कामभोगथी उद्देगए ॥ वलीउपजेपरमसंवेगए ॥ एह
 वातुमवचनसरसविलासए ॥भ० ॥३॥ घणीभीठीचक्री
 नीखीरए ॥ वलीखीरसमुद्रनोनीरए ॥ एहथीतुम
 वचनअधिकविमासए ॥भ०॥४॥ सांभलनेजनव्वंदए ॥
 रोमरोममेंपामेंआनंदए॥जियांरीमिटेनरकादिकवामए
 ॥भ० ॥५॥ तुंप्रभुदीनदयालए ॥ तुंहीअसरणसरण

निहालए ॥ हुंकुंतुमारोदासए ॥भ०॥६॥ संवतओ
गणीसेसोयए ॥ भाद्रवामुदितेरसजोयए ॥ पोचोम
ननीआसए ॥भ०॥७॥

अथ चंद्रप्रभुजिनस्तवन ।

होप्रभुचंद्रजिनसरचंद्रजिस्या ॥ वाणीशौतलचंद्रसी
निहालहो ॥ प्रभुउपशमरसजिनसांभले ॥ मिटेकर्म
भ्रममोहजालहो ॥ प्रभु० ॥१॥ एआंकणी ॥ हो प्रभु
सूरतमुद्रासोभती ॥ वारुरूपअनूपविशालहो ॥ प्रभु
इंद्रमुचिजिननिरखतां ॥ तेतोत्पन्नहुवेनिहालहो ॥
प्रभु०॥२॥ अहावोतरागप्रभुतुंहीसही ॥ तुमध्यानध्या
वेचित्तरोकहो ॥ प्रभुतुमतुल्यतेहुवेध्यानधी ॥ मनपाया
पर्मसंतोषहो ॥ प्रभु०॥३॥ होप्रभुलीनप्रणेतुमेध्याविया ॥
पामेइंद्रादिकनीकृद्धिही ॥ वलेविविधभांतसुखसं-
पदा ॥ लहेआंमोसहीआदिलब्धिही ॥ प्रभु० ॥ ४ ॥
नरेंद्रपदपामेसही ॥ चरणसहीतध्यानतनमनहो ॥
वलेअहमिंद्रपदपावेसही ॥ निश्चलकियांधारोभजनहो ॥
प्रभु० ॥५॥ होप्रभुसरणेआयोतुजसाहेवा ॥ तुमध्यान
धरुंदिनरयणहो ॥ प्रभुतुममिलवामुभूमनउमह्यो ॥
तुमसरणाथीसुखचेनहो ॥ प्रभु० ॥ ६ ॥ संवतओगणी
सेनेभाद्रवे ॥ सुदितेरसबुधवार हो ॥ प्रभुचंद्रजिने
प्रवरसमरिया ॥ हुओआनंदहर्षअपारहो ॥ प्रभुः ॥७॥

अथ सुबुद्धिजिनस्तवन ।

सुबुद्धिकरीभजियसदा ॥ सुबुद्धिजिनेसरस्वामीहो ॥
 पुष्पदंतनामेदुसरो ॥ जगअंतरजामीहो ॥ सुबुद्धिभ
 जियेसिरनामीहो ॥१॥ ऐत्रांकणी ॥ इन्द्रनरिंद्रचंद्रते
 इन्द्राणीअभिरामीहो ॥ निरख निरख धापेनही ॥ ऐह
 वोरूपअमामीहो सुः ॥ २ ॥ खेतवरणप्रभुसोभतां वा
 रूवाणअमामीहो ॥ उपशमरसजनसांभल्यां ॥ मिटेभव
 भवखामीहो सुः ॥३॥ समीसरणविचफावतां ॥ त्रिभु
 वनतिलकतमामीहो ॥ इन्द्रथकीउपेघणां ॥ शिवदाय
 कस्वामीहो सुः ॥४॥ मधुमकरंदतणीपरें ॥ सुरगरकर
 तसलामीहो ॥ तोपणारागव्यापेनही ॥ जीत्योमोहहरा
 मीहो सुः ॥५॥ जेजोधाजगमेंघणा ॥ सिंघसाथेसगरा
 मीहो ॥ तेमनइंद्रियवसकरो ॥ जोडीकेवलपामीहो ॥
 सुः ॥६॥ ओगणीसेपुनमभाद्रवे ॥ प्रणमीसिरनामीहो ॥
 मनचिंततवस्तुमिलें ॥ रटियाजिनस्वामीहो सुः ॥७॥

अथ शीतलजिनस्तवन ।

शीतलजिनशिवदायका ॥साहेवजी॥ शीतलचंद्रसमान
 हो ॥ निरनेही ॥ शीतलअमृतसारिखा ॥ साहेवजी ॥
 तममिटेतुजध्यानहो ॥ निरनेही ॥ सूरतथाहेरीमनवसी

साहेबजी ॥१॥ निंदेवंदेतोभणीसाहेबजी ॥ रागद्वेषनही
 तामहो ॥ निस्नेही ॥ मोहदावानलतेमेटियो ॥ साहेब-
 जी ॥ गुणनीपनतुजनामहो निस्नेही ॥ सु० ॥२॥ नृत्य
 करेतुजआगलेंसाहेबजी ॥ इंद्राणीसुरनारहो ॥ नि-
 स्नेही ॥ रागभावनहीउपजे ॥ साहेबजी ॥ अंतरतप्त
 निवारहो ॥ निस्नेही ॥ सु० ॥३॥ क्रोधमानमायालो-
 भनी ॥ साहेबजी ॥ अग्नसुअधिकीआगहो ॥ निस्ने-
 ही ॥ शुक्लध्यानरूपजलकरी ॥ साहेबजी ॥ ययाशी-
 तलिभूतमाहाभाग्यहो ॥ निस्नेही ॥ सु० ॥४॥ इंद्रीनो
 इंद्रीआकरा ॥ साहेबजी ॥ दुरजयनेदुरदंतहो ॥ नि-
 स्नेही ॥ तेंजीत्यामनथिरकरी ॥ साहेबजी ॥ धरिउप-
 शमचितसंतहो ॥ निस्नेही ॥ सु० ॥५॥ अंतरजामी
 आपरो ॥ साहेबजी ॥ ध्यानधरुंदिनरयणहो ॥ नि-
 स्नेही ॥ वाहौदिशाकदआवणे ॥ साहेबजी ॥ होसे
 उत्कृष्टचेनहो ॥ निस्नेही ॥ सु० ॥६॥ उगणीसीपुनम
 भाद्रवे ॥ साहेबजी ॥ शीतलमोलवाकाजहो ॥ नि-
 स्नेही ॥ शीतलजिनजीनेसमरिया ॥ साहेबजी ॥ हि
 योशीतलहुवोआजहो ॥ निस्नेही ॥ सु० ॥ ७ ॥

अथ श्रीश्रेयांसजिनस्तवन ।

मोक्षमार्गश्रेयेसोभता ॥ गिरवास्वामश्रेयांसउदाररे ॥
 जेजेश्रेयवस्तुसंसारमें ॥ तेतेआपकरीअंगीकाररे २॥

अथ यांमजिनेस्वरुप्रणमुनितवेकरजोडरे ॥ १ ॥ समितगु
 म्निदुधरगणा ॥ धर्मसुक्तध्यानउदाररे ॥ एश्रेयवस्तुशि
 वदायनी ॥ आपआदरीहर्षअपाररे ॥ श्रे० ॥२॥ तन
 चंचलतामेठने ॥ पद्मासनआपविराजरे ॥ उत्कृष्टीध्या
 नतिणाकियो ॥ अतंतश्रीजिनराजरे ॥ श्रे० ॥ ३ ॥
 इंद्रीयविषयविकारथी ॥ नरकादिक्केरुलियोजीवरे ॥
 कामनेभोगकिंपाकसा ॥ रहियेदुरथीदुरसदीवरे ॥श्रे०
 ॥४॥ संयमतपजपशीलए ॥ शिवसाधनमहासुखकाररे ॥
 अनित्यअसरणअनंतए ॥ धरुोनिर्मलध्यानउदाररे ॥
 श्रे० ॥ ॥५॥ स्त्रीयादिकनासंगते ॥ आलिंबनदुःखदा
 ताररे ॥ अशुद्धआलिंबनछांडने ॥ धरुीध्यानआलंबन
 साररे ॥ श्रे० ॥६॥ सरणेआयोतुजसाहिवा ॥ वारं
 वारकरुंनमस्काररे ॥ उगणीसेपुनमभाद्रवे ॥ मुजव
 र्त्याजयजयकाररे ॥श्रे० ॥७॥

अथ श्रीवासुपुज्यजिनस्तवन ।

हादशमाजिनवरभजिये ॥ रागद्वेगमच्छरमायात्
 जिये ॥ लालवरणतनछिवजाणी ॥ प्रभुवासुपुज्यभजले
 प्राणी ॥ १ ॥ वनीताजाणीवितरणी ॥ शिवमुंदरवर
 वाहुंसघणी ॥ कामभोगतज्याकिंपाकजाणी ॥ प्र०
 ॥ २ ॥ अंजनमंजणसुअलगा ॥ वलीपुष्कविलेपननही
 वलगा ॥ कर्मकाच्याध्यानमुद्राधारी ॥ प्र० ॥३॥ इंद

यकीअधिकाओपे ॥ करुणागरकदेहिनहीकोपे ॥ वर
 साकरदुधजिसीवाणी ॥ प्र० ॥४॥ स्त्रीरनेहपासादुरदं
 ता ॥ कल्याणरकनिगोदतणापंथा ॥ इहभवपरभव
 दुःखदाणी ॥ प्र० ॥५॥ गजकुंभदलमृगराजहणी ॥ पण
 दोहलीनिजआत्मादमणी ॥ इमसुणीबहुजीवचेत्याजा
 णी ॥ प्र० ॥६॥ भाद्रवापुनमओगणीसो ॥ करजोड़नमु
 वासुपुज्यइसो ॥ प्रभुगातारोमरायहुलसाणी ॥ प्र० ॥७॥

अथ श्री विमलजिनस्तवन ।

सरणेतिहारेहोविमलप्रभु ॥ सेवकनीअरदाश ॥ आ
 योसरणतिहारेहो ॥ विमलकरणप्रभुविमलनाथजी ॥
 विमलआपमलरहीत ॥ विमलध्यानधरतांहुवेनिर्मल ॥
 तनमनलागीप्रीत ॥ साहेबसरणेतिहारेहो ॥ १ ॥ विम
 लध्यानप्रभुआपध्याया ॥ तिणसुंहुआविमलजगदीस ॥
 विमलध्यानवलीजेकोइध्यासी ॥ होसीविमलसरीस ॥
 सा० ॥ २ ॥ विमलग्रहेवासिद्रव्यजिनंद्रथा ॥ दिक्षालि
 यांभावेसाध ॥ केवलउपनाभावेजिनेस्वर ॥ भावेविम
 लआराध ॥ सा० ॥ ३ ॥ नामस्थापनाद्रव्यविमलथी ॥
 कार्यनसरिकोय ॥ भावविमलथीकार्यसुधरे ॥ भावजप्यां
 शिवहोय ॥ सा० ॥ ४ ॥ गुणगीरवागंभीरधीरतुंम ॥
 तुंमेटणजमत्ताम ॥ मेंतुमवयणआगमसिरधाया ॥ तुं

मुजपूरणआस ॥सा०॥५॥ परमदयालकूपालसाहेब ॥
 शिवदायकतुंमजगनाथ ॥ निश्चलध्यानकरेतुमओल
 खि ॥ तोमिलेतुमसंघात ॥ सा० ॥ ६ ॥ अंतरजामी
 आपउजागर ॥ मेंतुमसरणोलीध ॥ संवतओगणीसें
 भाद्रवेपुंनमवंबीतकार्यसिद्ध ॥ सा० ॥ ७ ॥

अथ श्री अनंतजिनस्तवन ।

अनंतनाथजिनचउदभा ॥ जिनरायारे ॥ द्रव्यचो
 थेगुणस्थान ॥ स्वामिमुखदायारे ॥ भावेजिनहुआते
 रमे ॥ जिन० ॥ एटलेद्रव्यजिनजाण ॥ स्वामि०॥१॥
 जिनचक्रिसुरजुगलिया ॥ जि०॥ वासुदेववलदेव ॥
 स्वामि०॥ पंचमगुणपावेनही ॥जि०॥ यांरोरीतअनादि
 स्वमेव ॥ स्वा०॥२॥ दीक्षालीधीतिणसमे ॥जि०॥ आ
 यासातमेंगुंणस्थान ॥स्वा०॥ अंतरमुहूर्त्ततिहारही ॥
 जि०॥ छठेवहुस्थितिजाण ॥ स्वा०॥३॥ आठमांथौदो
 यश्रेणीके ॥ जि० ॥ उपशमखपकपिकाण ॥स्वा०॥ उप
 शमजायद्ग्यारमे ॥जि०॥ मोहदवावतोजाण ॥ स्वा०
 ॥ ४ ॥ श्रेणोउपशमजिननवीलहे ॥ जि० ॥ खपकश्रे
 णोधरिखंत ॥स्वा०॥ चारितमोहखपावतां ॥ जि० ॥
 चडीयाध्यानअत्यंत ॥स्वा०॥५॥ नवमेंआदिसंजलचि
 हुं ॥जि०॥ अंतममेएकलोभ ॥ दमसेमुक्तमावते ॥

जि० ॥ सागारउपयोगसोभ ॥ स्वा० ॥६॥ एकादश
 मोओलंघीने ॥ जि० ॥ बारमेंमोहखपाय ॥ स्वा० ॥
 त्रिकर्मएकसमयहण्या ॥ जि० ॥ तीरमेंकेवलपाय ॥ स्वा०
 ॥७॥ तीर्थयापीयोगरुंधीने ॥ जि० ॥ चउदमांथीसि
 इथाय ॥ स्वा० ॥ ओगणीसपुनमभाद्रवे ॥ जि० ॥ अनंत
 रव्याहरखाय ॥ स्वा० ॥८॥

अथ श्रीधर्मजिनस्तवन ।

धर्मजिनधर्मतणाधोरी ॥ त्रकटमोहपासनाख्यातो
 डो ॥ तीरणधर्मआत्मसुंजोड़ी होप्रभुधर्मदेवप्यारा ॥१॥
 सुक्लध्यानअमृतरसलीना ॥ संवेगरसेकरीजिनभीना ॥
 प्यालाप्रभुउपशमनापीना ॥ हो० ॥२॥ पुद्गलमुखअरि
 जागयास्वामी ध्यानथिरचित्तआत्मधामी ॥ जोडीजुगके-
 वल नौपामी ॥ हो० ॥३॥ जाण्याशब्दादिकमोहजाला ॥
 रमणीमुखकिंपाकसमकाला ॥ हेतुनरकादिकदुःखआ
 ला ॥ हो० ॥४॥ थाप्याप्रमुच्यारतीरथतायो ॥ आख्यो
 धर्मजिनआज्ञामांयो ॥ आज्ञाबाहिरअधर्मदुःखदा
 यो ॥ हो० ॥५॥ ब्रतधर्मधर्मजिनअख्याता ॥ इब्रत
 कहीअधर्मदुखदाता ॥ सावद्यनिरवद्यजूदाजूदाकह्या
 खाता ॥ हो० ॥६॥ बहुजनतारीमुक्तिध्याया ॥ ओग
 णीसेंआसोजधुरदिनआया ॥ धर्मजिनरटवेमुखपाया ॥
 हो० ॥ ७ ॥

अथ श्रीसांतिजिनस्तवन ।

शांतिकरणप्रभुशांतिनाथजी ॥ सुखदायकशिवकं
दकी ॥ बलिहारीहोसांतिजिगंदकी ॥ १ ॥ उपशमवा
णीसुधारसन्ननुपम ॥ सेटणमिथ्यात्वमंदकी ॥ व० ॥
॥२॥ कामभोगरागद्वेषकटुकफल ॥ विषवेलमोहअ
धकी ॥ व० ॥३॥ राक्षणीरमणीवैतरणी ॥ पापपुतली
अमुचदुरगंधकी ॥ व० ॥४॥ विविधउपदेशदेइजनता
र्यां ॥ हुंबलिहारीजाउंविश्वानंदकी ॥ व० ॥ ५ ॥
परमदयालगुवालकूपानिधि ॥ तुजजयमालाआनंद
की ॥ व० ॥६॥ उंगणीसेंआसोजविदिएकम ॥ सांभल
तासुखकंदकी ॥ व० ॥ ७ ॥

अथ श्रीकुंथुजिनस्तवन ।

॥ रागप्रभाती ॥

कुंथुजिनेसरकरुणासागर ॥ त्रिभुवनसिरटीकीरे ॥
प्रभुजीकोसमरणकरनीकीरे ॥१॥ अद्भुतरूपअनूपमकुं
थुजिन ॥ दर्शनजगप्रियकीरे ॥ प्र० ॥ २ ॥ उपशमवा
णीसुधारसन्ननुपम ॥ बालहोजिनवरवेकीरे ॥ प्र० ॥३॥ अ
नुकंपादोयश्रीजिनभांषी ॥ मर्मएममदृष्टीकीरे ॥ प्र० ॥४॥
असंयतीरोजीवणोवंके ॥ तैसावद्यतहतौकीरे ॥ प्र० ॥५॥
निरवद्यकरुणाकरीजिनताम्यां ॥ धर्मवैजिनजीकीरे ॥

प्र०॥६॥ उंगणीसेआसीजवदिएकम ॥ सरणोसाहेब
जीकोरे ॥ प्र०॥ ७ ॥

अथ श्रीअरुहजिनस्तवन ।

॥ रागशोरठ ॥

अरीजिनकर्मअरौनांहंता ॥ जगतउद्धारणजिहाज ॥
म्हांनेप्यारालागोछोजीअरिजिनराज ॥ म्हांनेवाला
लागोछोजी ॥ अरिमहाराज ॥१॥ वारूरेजिनेस्वरूप
अनूपम ॥ तुंसुगुणासौरताज ॥म्हां०॥ २ ॥ परिसह
उपसर्गरूपअरिहण्या ॥ पायाछोकेवलआज ॥ म्हां०
॥३॥ नयणनधापेनिरखतांजी ॥ इंद्राणीसुरराज ॥
म्हां० ॥४॥ वाणीविशालदयालपुरुषनी ॥ भूषटषाजा
वेभाज ॥ म्हां०॥५॥ सरणेआयोस्वामरेजी ॥ अविचल
मुखरेकाज ॥ म्हां० ॥ ६ ॥ ओगणीसेआसीजवदी
एकम ॥ आनंदउपनुंआज ॥ म्हां० ॥७॥

अथ श्रीमल्लीजिनस्तवन ।

रागप्रभाती ।

नीलवरणमल्लोजिनेस्वर ॥ ध्याननिर्मलध्यायी ॥
अल्पकालमां हेप्रभु ॥ परमज्ञानपायी ॥ मल्लीजिनेस्वर
समरनाम ॥ असर्गासरणआयी ॥१॥ कल्पपुष्पमाला
जेस ॥ सुंगधतनसुहायी ॥ सुरवधुवरनयणभ्रसर ॥

अथ श्रीसांतिजिनस्तवन ।

शांतिकरणप्रभुशांतिनाथजी ॥ सुखदायकशिवकं
दकी ॥ बलिहारीहोसांतिजिगंदकी ॥ १ ॥ उपशमवा
णीसुधारसअनुपम ॥ मेढणमिथ्यात्वमंदकी ॥ व० ॥
॥२॥ कामभोगरागद्वेषकटुकफल ॥ विषवेलमोहअ
धकी ॥ व० ॥३॥ राक्षणीरमणीवैतरणी ॥ पापपुतली
असुचदुरगंधकी ॥ व० ॥४॥ विविधउपदेशदेइजनता
स्यां ॥ हुंबलिहारीजाउंविश्वानंदकी ॥ व० ॥ ५ ॥
परमदयालगुवालक्षपानिधि ॥ तुजजयमालाआनंद
की ॥ व० ॥६॥ उंगणीसेंआसोजविदिएकम ॥ सांभल
तासुखकंदकी ॥ व० ॥ ७ ॥

अथ श्रीकुंथुजिनस्तवन ।

॥ रागप्रभाती ॥

कुंथुजिनेसरकरुणासागर ॥ त्रिभुवनसिरटीकोरे ॥
प्रभुजीकोसमरणकरनीकोरे ॥ १ ॥ अद्भुतरूपअनूपमकुं
थुजिन ॥ दर्शनजगप्रियकोरे ॥ प्र० ॥ २ ॥ उपशमवा
णीसुधारसअनूपम ॥ वालहोजिनवरवेकोरे ॥ प्र० ॥३॥ अ
नुकंपादीयश्रीजिनभांषी ॥ मर्मएसमदृष्टीकोरे ॥ प्र० ॥४॥
असंयतीरोजीवणोवंछे ॥ तैसावद्यतहतौकोरे ॥ प्र० ॥५॥
निरवद्यकरुणाकरीजिनताम्यां ॥ धर्मवैजिनजीकोरे ॥

प्र०॥६॥ उंगणीसीआसोजवदिएकम ॥ सरणोसाहेव
जीकोरे ॥ प्र०॥ ७ ॥

अथ श्रीअरुहजिनस्तवन ।

॥ रागशोरठ ॥

अरौजिनकर्मअरौनांहंता ॥ जगतउद्धारणजिहाज ॥
म्हांनेप्यारालागोकोजीअरिजिनराज ॥ म्हांनेवाला
लागोकोजी ॥ अरिमहाराज ॥१॥ वारूरेजिनेस्वरूप
अनूपम ॥ तुंसुगुणासौरताज ॥म्हां०॥ २ ॥ परिसह
उपसर्गरूपअरिहण्या ॥ पायाकोकेवलआज ॥ म्हां०
॥३॥ नयणनधापेनिरखतांजी ॥ इंद्राणीसुरराज ॥
म्हां० ॥४॥ वाणीविशालदयालपुरुषनी ॥ भूषट्टाजा
वेभाज ॥ म्हां०॥५॥ सरणेआयोस्वामरेजी ॥ अविचल
मुखरेकाज ॥ म्हां० ॥ ६ ॥ ओगणीसीआसोजवदी
एकम ॥ आनंदउपनुंआज ॥ म्हां० ॥७॥

अथ श्रीमल्लीजिनस्तवन ।

रागप्रभाती ।

नीलवरणमल्लोजिनेस्वर ॥ ध्याननिर्मलध्यायो ॥
अल्पकालमां हेप्रभु ॥ परमज्ञानपायो ॥ मल्लीजिनेस्वर
समरनाम ॥ असर्गसरणआयो ॥१॥ कल्पपुष्पमाला
जेम ॥ सुंगधतनमुहायो ॥ सुरवधुवरनयणभ्रसर ॥

अधिकहिलपटायो ॥ म० ॥ २ ॥ स्वपरचक्रविविधविघने ॥
 मिटततुजपसायो ॥ सिंहनादयक्रीगजेंद्रजेमदुरजा
 यो ॥ म० ॥ ३ ॥ वाणीविमलनिर्मलसुधा ॥ रससंवे
 गच्छायो ॥ नरसुरासुरत्रिय समजसुगतहरखायो ॥ म०
 ॥ ४ ॥ जगदयालतुंहीकृपाल ॥ जनकव्युंमुखदायो ॥
 वत्सलनाथस्वामसाहिव ॥ सुजशतिलकपायो ॥ म०
 ॥ ५ ॥ जप्तजापखप्तपाप ॥ तप्ततह्मिटायो ॥ मल्लीदे
 वत्रिविधसेव ॥ जगअक्केरोपायो ॥ म० ॥ ६ ॥ ओगणीसे
 आसोजकृस्त ॥ तिजसुदिनआयो ॥ कुंभनंदनकर
 आनंद ॥ हरषथीमेंगायो ॥ म० ॥ ७ ॥

अथ श्रीमुनीसुव्रतजिनस्तवन ।

शोरठ ।

सुमितानंदनश्रीमुनिसुव्रत ॥ तीरथनाथजिनजाणी ॥
 चारित्रलेङ्गकेवलउपजायो ॥ उपशमरसनीवाणीरा ॥
 प्रभुजीआपप्रवलवडभागी ॥ १ ॥ त्रिभुवनदायकसागि
 रा ॥ प्र० ॥ आ० ॥ एआंकणी ॥ चौवीसअतिशयपेंत्री
 सवाणी ॥ निरखतसुरइंद्राणी ॥ उपशमरसनीवाणी
 सांभली ॥ हरखसुंआंखभराणीरा ॥ प्र० ॥ आ० ॥ २ ॥ शब्द
 रूपरसगंधनेफरस ॥ तेप्रतिकूलनैहुवेतुमआगे ॥ पां
 चदरशनयासुंपगनहीमंडे ॥ तिमअशुभशब्दादिकभा
 गीरा ॥ प्र० ॥ आ० ॥ ३ ॥ सुरकृतजलस्थलपुष्पपुजवर ॥

तेच्छांडीचितदीनो ॥ तुजनिश्वाससुगंधमुखपरिमल ॥
 मनभमररसलीनोरा ॥ प्रः ॥ आः ॥४॥ पंचेद्रीयनरसु
 रत्नोय, तुमस्युंतेकिमहुण्डुखदायो ॥ एकेंद्रीअनलतजे
 प्रतिकूलपणुं ॥ वाजेगमतोवायोरा ॥ प्रः आः ॥ ५ ॥
 रागद्वेषदुरदंततेदस्या ॥ जीत्याविषयविकारो ॥ दीन
 दयालभायोतुजसरणे ॥ तुंगतिमतिदातारोरा ॥ प्रः
 आः ॥६॥ ओगणीसेंआसोजतीजकृस्न ॥ श्रीमुनिसुव्रत
 गाया ॥ सहेरलाडणुंरूडीरीते ॥ आनंदअधिकीपा
 यारा ॥ प्रः ॥ आः ॥७॥

अथ श्रीनिमिजिनस्तवन ।

नमिनाथअनाथांरोनाथोरे ॥ नित्यनमणकरुंजोडी
 हाथोरे ॥ कर्मकाटणवौरविख्यातो ॥ प्रभुनमिनाथजी
 मुजप्यारारे ॥१॥ प्रभुध्यानसुधारसध्यायारे ॥ पदकेव
 ल जोडोपाया रे ॥ गुणउत्तमउत्तम आया ॥ प्र० ॥२॥
 वागरीप्रभुवाणविशालोरे ॥ खीरसमुद्रथीअधिकरसा
 लोरे ॥ जगतारकदिनदयालो ॥ प्र० ॥३॥ थाप्यातीरथ
 च्यारजिणंदारे ॥ सिध्यातिमिरहरणनेमुणंदारे ॥ त्याने
 सेवेसुरनरहंदा ॥ प्र० ॥४॥ सुरअनुत्तरविमाननासेवेरे
 प्रश्नपूछांउत्तरजिनदेवेरे ॥ अवधिग्यांनकरीजाण
 लेवे ॥ प्रः ॥५॥ तिहांविठातेतुमध्यानध्यावेरे ॥ तुमेयो
 गमुद्राचित्तचावेरे ॥ तेपणआपरीभावनाभावे ॥ प्रः ॥

॥ ६ ॥ श्रीगणेशसो ज उदारोरे ॥ क्लृप्ततीजगायागुण
सागोरे ॥ ह्यश्रीशानंदहरषत्रपारो ॥ प्रः ॥ ७ ॥

अथ श्रीनेमजिनस्तवन ।

रिठनेमिस्वामितुं जगतार ॥ अंतरजामी ॥ तुंतो
रणभ्युफिह्योजिनस्वाम ॥ अद्भूतवातकरीते असाम ॥ रिः
॥ १ ॥ राजमतीच्छाड़ीनेजिनराय ॥ शिवसुंदरस्युंप्रीत
लगाय ॥ रिः ॥ २ ॥ केवलपायाध्यानवरध्याय ॥ इन्द्र
सुचीनिरखतहरषाय ॥ रिः ॥ ३ ॥ नेरियापणपामेसन
मोद ॥ तुजकल्याणसुरकरतविनोद ॥ रिः ॥ ४ ॥ राग
रहीतशिवसुखस्युंप्रीत ॥ कर्महणोवलीद्वेषरहीत ॥ रिः ॥
॥ ५ ॥ अचरिजकारोप्रभुथारोरेचरित्र ॥ हुंप्रणमुंकरजो
डीनित ॥ रिः ॥ ६ ॥ श्रीगणेशवदिचोथकुमार ॥ नेमज
प्यांपायोसुखसार ॥ रिः ॥ ७ ॥

अथ श्रीपार्श्वजिनस्तवन ।

लोहकांचनकरेपारसकाचो ॥ तेकरकहोक्कुणलेवे होः ॥
पारसतुंप्रभुसाचोपारस ॥ आपसमोकरदेवे होः ॥ २ ॥ पार
सदेवतुसारादर्शन ॥ भागभलासोडपावे २ हुंवारीजा
उं ॥ जीवमगनहुइजावे होः ॥ १ ॥ तुजमुखकमलपारस
चमरावल ॥ कनकक्रांततनसोहे होः ॥ हंससेणजाणेपंकज
सेवे ॥ देखतजनमनमोहे ॥ होः ॥ २ ॥ फिटकसिंघासण
सिंघआकारि ॥ वैठदेशनादेवेहोः ॥ वनमृगभावेवाणीमुण

वा ॥ जाणकसिंहनेसेवे ॥ होः ॥३॥ चंद्रसमीतुजमुख
महासीतल ॥ नयणचकोरहरखावेहोः ॥ इंद्रनरेंद्रसुरासुर
रमणी ॥ निरखतत्रपतनैपावे ॥ होः ॥४॥ आपनिरागी
पाखंडीसरागी ॥ आपसमुद्रमगेहरीहोः ॥ वैरभावपाखं
डीराखे ॥ पिण्णआपत्यांरानहीवैरी ॥ होः ॥५॥ जिमसू
रजबुद्योतउपरे ॥ वैरभावनहीआणे होः ॥ तिमतुंपिण्ण
प्रभुपाखंडीयाने ॥ खुद्योतसरिखाजाणे ॥ होः ॥६॥ पर
मदयालकृपालपारसप्रभु ॥ सबंतओगणीसेंगायाहोः ॥
आसोजकृस्नतिथचोथलाडणु ॥ आनंदअधिकोपाया
॥ होः ॥७॥

अथ श्रीमहावीरजिनस्तवन ।

॥ रागशोरठ ॥

चरम जिगंदचोवीसमारे ॥ अगहण्यामहावीर ॥
विकटतप वरध्यानकर ॥ प्रभु ॥ पायाभवजलतीर ॥
नहीएसोदुसरोमहावीर ॥ १ ॥ परिसहउपसर्गजीतवा
प्रभु ॥ सूर वीरजिमसधोर ॥ नही० ॥ संगमेंदुखदि-
याआकरारे ॥ पणसुप्रसन्नजरदयाल ॥ जगउद्धार-
हुवेमोथकीरे ॥ एडूवेइणकाल ॥ नही० ॥२॥ लोक-
अनार्यजिनसच्चारे ॥ उपसर्गविविधप्रकार ॥ ध्यान-
सुधारसलीनतारे ॥ मनमें हर्षअपार ॥ नही० ॥ ३ ॥
इणीपरिकर्मखपायने प्रभु ॥ पायाकेवलनांग ॥ उपश-

॥ ६ ॥ श्रीगणीसेआसोजउदारोरे ॥ कृसनतीजगायागुण
सागेरे ॥ ह्रओआनंदहरषअपारो ॥ प्रः ॥ ७ ॥

अथ श्रीनेमजिनस्तवन ।

रिठनेमिस्वामितुंजगतार ॥ अंतरजामी ॥ तुंती
रणभ्युफिह्योजिनस्वाम ॥ अङ्गूतवातकरीतेअसाम ॥ रिः
॥ १ ॥ राजमतीछाड़ीनेजिनराय ॥ शिवसुंदरस्यंप्रीत
लगाय ॥ रिः ॥ २ ॥ केवलपायाध्यानवरध्याय ॥ इंद्र
सुचीनिरखतहरषाय ॥ रिः ॥ ३ ॥ नेरियापणपामेसन
मोद ॥ तुजकल्याणसुरकरतविनोद ॥ रिः ॥ ४ ॥ राग
रहीतशिवसुखस्यंप्रीत ॥ कर्महणेवलीद्वेषरहीत ॥ रिः ॥
॥ ५ ॥ अचरिजकारोप्रभुधारोरेचरित्र ॥ हुंप्रणमुंकरजो
डीनित ॥ रिः ॥ ६ ॥ श्रीगणीसेवदिचोथकुमार ॥ नेमज
प्यांपायोसुखसार ॥ रिः ॥ ७ ॥

अथ श्रीपार्श्वजिनस्तवन ।

लोहकंचनकरेपारसकाचो ॥ तेकरकहोकृणलिवे होः ॥
पारसतुंप्रभुसाचोपारस ॥ आपसमोकरदेवे होः ॥ २ ॥ पार
सदेवतुसारादर्शन ॥ भागभलासोडूपावे २ हुंवागीजा
उं ॥ जीवमगनहुइजावे होः ॥ १ ॥ तुजमुखकमलपारस
चमरावल ॥ कनकक्रांततनसोहे होः ॥ हंसेणजागेपंकज
सेवे ॥ देखतजनमनमोहे ॥ होः ॥ २ ॥ फिटकसिंघासण
सिंघआकारि ॥ वेठदेशनादेवेहोः ॥ वनसृगआवेवागीमुण

वा ॥ जाणकसिंहनेसेवे ॥ होः ॥३॥ चंदसमोतुजमुख
महासीतल॥नयणचकोरहरखाविहीः॥ इंद्रनरेंद्रसुरासुर
रसणी ॥ निरखतत्रपतनैपावे ॥ होः॥४॥ आपनिरागी
पाखंडीसरागी ॥ आपसमुद्रमगेहरीहोः॥ वैरभावपाखं
डीराखे ॥ पिणआपत्यांरानहीवैरी ॥होः॥५॥ जिमसू
रजबुद्योतउपरे ॥ वैरभावनहीआणे होः ॥ तिमतुंपिण
प्रभुपाखंडीयाने ॥ खुद्योतसरिखाजाणे ॥होः॥६॥ पर
मदयालकृपालपारसप्रभु ॥ सबंतओगणीसेंगाथाहोः ॥
आसोजकृस्नतिथचोथलाडणु ॥ आनंदअधिकोपाया
॥होः ॥७ ॥

अथ श्रीमहावीरजिनस्तवन ।

॥ रागशोरठ ॥

चरम जिणंदचोवीसमारे ॥ अगहण्यामहावीर ॥
विकटतप वरध्यानकर ॥ प्रभु॥ पायाभवजलतीर ॥
नहीएसोदुमरोमहावीर ॥ १ ॥ परिसहउपसर्गजीतवा
प्रभु ॥ सूर वीरजिमसधौर ॥ नही० ॥ संगमेंदुखदि-
याआकरारे ॥ पणसुप्रस्ननजरदयाल ॥ जगउड्वार-
हुवेमोथकीरे ॥ एडूवेइणकाल ॥ नही० ॥२॥ लोक-
अनार्यजिनसह्यारे ॥ उपसर्गविधिधप्रकार ॥ ध्यान-
सुधारसलीनतारे ॥ मनमें हर्षअपार ॥ नही० ॥ ३ ॥
इणीपरेकर्मखपायने प्रभु ॥ पायाकेवलनांग ॥ उपश-

न संपना २४ चारित्र संपना २५ वैदमी आयांसमी
अहियासे २६ मरणआयां समी अहियासे २७ ॥

इति संपूर्णम् ।

सामायक लोणेकी पाटी ॥

करेमि भन्ते सामाडयं सावजं जोगं ।

पच्चखामी जाव नियम (महुरत एक) पेजवा-
सामी दुविहेणं तिबिहेणं नकरेमी नकारवेमी मनसा
वायसा कायसा तस्म भन्ते पडिक्कमामि निंदामी
गरिहामी अप्पाणं वो सरामि ॥

सामायक पारणेकी पाटी ।

नवमा सामायक विहरमाण व्रतके विषे ज्यो
कोई अतीचार दोष लागोहुवे ते आलोडं सामायक
में सुमता नेकीधि विकथाकीधि हुवे अणापूरी
पागी होय पारतां विसाखो होय मन वचन कायाका
जोग माठा परिवरताया होय सामायकमें राज कथा
देश कथा स्त्री कथा भक्त कथा करी होय तस्म
मिच्छामि दोक्कडं ।

॥ अथा तिख्खुताकी पाटी ॥

तिख्खुतो अयाहीणं पयाहीणं वंदामि नमंसामि

सकारेमि सम्भागेमी कल्लाणं मंगलं देइयं चेइयं पञ्चु,
वासामी मत्थेण वंदामी ।

॥ अथः पंचपद बन्दना ॥

पहिले पदे श्री सीमंधर स्वामी आदि देई जघन्य
२० (बीस) तीर्थंकर देवाधिदेवजी उत्कृष्टा १६०
(यकसहमाठ) तीर्थंकर देवाधिदेवजी पंचमाहाविदेह
खेतांकी विषे विचरेछै अनन्त ज्ञानका धणी अनन्त
दरिशनका धणी अनन्त चारित्रका धणी अनन्त बल
का धणी एक हजार आठ लक्षनाका धारणाहार
चौसठ इन्द्राका पूजनीका चौतीस अतिसय पैतीस
बाणी द्वादस गुन सहित विराजमान छै ज्यां अरि-
हन्ता से मांहरौ बंदना तिखबुत्ताका घाठसे मालुम
होज्यो ।

दूजे पदे अनन्ता सिद्ध पंनरा भेदे अनन्ती चौबीसी
आठ कर्म खपायसिध भगवांन मोक्ष पहुँता तिहां
जनम नहीं जरा नहीं रोग नहीं सोग नहीं मरण
नहीं भय नहीं संजोग नहीं विजोग नहीं दुःख नहीं
दारिद्र नहीं फिर पाछा गर्भा वासमें आवे नहीं
सदा काल साखता सुखामें विराजमानछै इसा उत्तम
सिद्ध भगवंतांसे मांहरौ वन्दना तिखबुत्ताका घाठसे
मालुम होज्यो ।

तीजे पदेजघन्य दाय कोड़ केवली उत्कृष्टा नव
कोड़ केवली पञ्चमाहविदेह खेतामे विचरेछे केवल
ज्ञान केवल दरिशनका धारक लोकालोक प्रकाशक
सर्व द्रव्यखेत कालभाव जाणे देखे छै ज्यां केवलीजी
सें मांहरौ वन्दना तिखखुत्ताका पाठसें मालुम
होज्यो ॥

चौथे पदेगणधरजी आचार्यजी उपाध्यायजी धवि
रजी तेगणधरजी महाराजकेवाछे अनेक गुणां विरा-
जमान छै आचार्यजी महाराज केवाछै षट तीस
गुणां विराजमान छै उपाध्यायजी महाराज केवाछै
पचवीसगुणां विराजमान छै धविरजी महाराज
केवा छै धर्मसें डिगता हुया प्राणींनें धिरकरी राखे
शुद्ध आचार पाले पलावे ज्यां उत्तम पुरुषां से मां
हरी वन्दना तिखखुत्ताका पाठसें मालुम होज्यो ।

पञ्चमें पदेमाहारा धर्म आचारज गुरु पुज्य श्री
श्रीश्री १००८ श्रीश्रीकालूरामजी स्वामी (वर्तमान
आचारजको नांव लेणो) आदि जघन्य दाय हजार
कोड़ साधू साधवी जाभेरा उत्कृष्टा नवहजार कोड़
साधू साधवी अढ़ार्द्ध द्वीप पन्दरे खेतामे विचरे छै ते
साहा उत्तम पुरुष केवाछै पञ्च महाव्रतका पालण-
हार छव कावानां पीहर पञ्च सुमति सुमता तीन

गुप्ती गुप्ता नववाडसहितब्रह्मचर्यका पालक-दसवि-
 धी यतीधर्मका धारक वारे भेदे तपस्याका करणहार
 सतरे भेदे संजमका पालणहार बावीस परीसहका
 जीतणहार सताबीस गुण करी संयुक्त बयालीस दोष
 टाल आहार पांशीका लिवणहार बावन अनाचारका
 टालणहार निरलोभी निरलालची संसार नांत्यागी
 लोचनं अमीलाषी संसारसें पूठा मोक्षसे सामा
 सचित्तका त्यागी अचित्तका भोगी अस्वादी त्यागी
 वैरागी तेडीया आवै नही मोंतीया जीमें नहि मोलकी
 वस्तु लेवे नही कनककामणीसें न्यारा बायरानी
 परे अप्रतिबन्ध बिहारी इसा माहापुरुषासें माहरी
 बन्दना तिख्खुत्ताका पाठसें मालूम होज्यो ॥

॥ पच्चीस बोल ॥

॥ अश्रः पचबीस बोलको थोकडो ॥

१ पहिले बोले गति चार ४

नर्कगति १ तिर्यंचगति २ मनुष्यगति ३ देव-
 गति ४

२ दूजेबोले जातिपांच ५

एकेन्द्री वेद्वेन्द्री तेद्वेन्द्री चोरेन्द्री पचेन्द्री

३ तीजे बोले काया छव ६

पृथिवकाय १ अम्पकाय २ तैजकाय ३ वाउकाय
४ वनस्यपतिकाय ५ वसकाय ६

४ चोथे बोले इन्द्री पांच ५

श्रोतेइन्द्री १ चक्षूइन्द्री २ घ्राणइन्द्री ३ रस-
इन्द्री ४ स्पर्षइन्द्री ५

५ पांचमें बोले पर्याय छव ६

आहारपर्याय १ शरीरपर्याय २ इन्द्रीय पर्याय
३ शासीश्वासपर्याय ४ भाषापर्याय ५ मनपर्याय ६

६ छठे बोले प्राण दस १०

श्रोतेन्द्री बलप्राण १ चक्षूइन्द्रीबलप्राण २ घ्राण
इन्द्रीबलप्राण ३ रसेन्द्रीबलप्राण ४ स्पर्षइन्द्री
बलप्राण ५ मनबलप्राण ६ वचनबलप्राण ७ काया
बलप्राण ८ शासीश्वासबलप्राण ९ आउषोबलप्राण १०

७ सातमें बोले शरीर पांच ५

श्रीदारिक शरीर १ वैक्रियशरीर २ आहारिक
शरीर ३ तैजसशरीर ४ कार्मणशरीर ५

८ आठवे बोले जोग पंदरा १५

४ चारमनका

सत्यमनजोग १ असत्यमनजोग २ मिश्रमनजोग ३
व्यवहारमनजोग ४

४ चारवचनका

सत्यभाषा १ असत्यभाषा २ मिश्रभाषा ३ व्यवहार भाषा ४

७ सातकाथाका

औदारिक १ औदारिक मिश्र २ वैक्रिय ३ वैक्रिय मिश्र ४ आहारिक ५ आहारिक मिश्र ६ कामगजोग ७

६ नवमें बोले उपयोग बारे १२

५ पांच ज्ञान

मतिज्ञान १ श्रुतिज्ञान २ अवधिज्ञान ३ मनपञ्जवज्ञान ४ केवलज्ञान ५

३ तीन अज्ञान

मतिअज्ञान १ श्रुतिअज्ञान २ विभंगअज्ञान ३

४ चार दरिशन

चक्षुदर्शण १ अचक्षुदर्शण २ अवधिदर्शण ३ केवल दर्शण ४

१० दसमें बोले कर्म आठ ८

ज्ञानावरणी कर्म १ दर्शणावरणी कर्म २ वेदनी कर्म ३ मोहणी कर्म ४ आयुष्यकर्म ५ नामकर्म ६ गोत्रकर्म ७ अंतरायकर्म ८

११ द्रग्यारामें बोले गुण स्थान चौदा १४

१ पहिलो मिथ्याती गुणस्थान ।

- १ दूजो सादस्वादान समष्टि गुणस्थान ।
- ३ तीजो मिश्र गुणस्थान ।
- ४ चौथो अब्रती समदृष्टी गुणस्थान ।
- ५ पांचमो देशविरती श्रावक गुणस्थान ।
- ६ षट्ठो प्रमादी साधू गुणस्थान ।
- ७ सातवीं अप्रमादी साधू गुणस्थान
- ८ आठवीं नियट वादर गुणस्थान
- ९ नवमो अनियट वादर गुणस्थान
- १० दसवीं सुचम संप्राय गुणस्थान
- ११ इग्यारमूं उपशान्ति मोह गुणस्थान
- १२ वारमूं क्षीणमोहनी गुणस्थान
- १३ तेरमूं संयोगी क्ववली गुणस्थान
- १४ चौदमूं त्रयोगी क्ववली गुणस्थान
- १२ वारमें बोले पांच इन्द्रियांका तेवीस विषय
श्रोतइन्द्रिका तीन विषय
जीव शब्द १ अजीव शब्द २ मिश्र शब्द ३
चक्षुइन्द्रिका पांच विषय
कालो १ पीली २ धोली ३ रातो ४ लीली ५
घ्राण इन्द्रिका दोय विषय
सुगंध १ दुर्गंध २
रस इन्द्रिका पांच विषय

खट्टो १ मींठो २ कडवो ३ कसायलो ४ तीखो ५
स्पर्ष इन्द्रिका आठ विषय

हलको १ भारी २ खरदरो ३ मुहालो ४ लूखो ५
चोपड्यो ६ ठंडो ७ उन्हो ८

१३ तेरमें बोले दस प्रकारका मिथ्याती

१ जीवनै अजीव सरदै ते मिथ्याती

२ अजीवनै जीव सरदै ते मिथ्याती

३ धर्मनें अधर्म सरदै ते मिथ्याती

४ अधर्मनें धर्म सरदै ते मिथ्याती

५ साधूनें असाधू सरदै ते मिथ्याती

६ असाधूनें साधू सरदै ते मिथ्याती

७ मार्गनें कुमार्ग सरदै ते मिथ्याती

८ कुमार्गनें मार्ग सरदै ते मिथ्याती

९ मोक्षगयानें अमोक्षगयो सरदै ते मिथ्याती

१० अमोक्षगयानें मोक्षगयो सरदै ते मिथ्याती

१४ चोदमें बोले नवतत्वकी जाण पणों तीका

११५ एकसो पंदरा बोल

१४ चोदेजीवका—

सुक्ष्म एकेंद्रीका दोयभेद :—

१ पहिलो अपर्याप्तो २ दूसरो पर्याप्तो

वादर एकेन्द्रिका दोय भेद :—

भण्डोपकरणमेलताञ्जयणाकरै * ते आश्रव १६
सुई कुसाग्रमात्र सेवे ते आश्रव २०

२० वीस संवरका :—

सम्यक् ते संवर १ वर्त ते संवर २ अप्रमाद ते
संवर ३ अकषाय संवर ४ अजोग संवर ५
प्राणातिपात न करे ते संवर ६ मृषावाद न बोले
ते संवर ७ चोरी न करे ते संवर ८ मैथुन न
सेवे ते संवर ९ परिग्रह न राखे ते संवर १०
श्रुत इन्द्री वसकरे ते संवर ११ चक्षुइन्द्री वसकरे
ते संवर १२ ध्राणइन्द्री वसकरे ते संवर १३
रसेन्द्री वसकरे ते संवर १४ स्पर्षइन्द्री वसकरे
ते संवर १५ मन वसकरे ते संवर १६ वचन
वसकरे ते संवर १७ काया वसकरे ते संवर १८
भण्डोपकरणमेलतां अजयणानकरे ते संवर १९
सुई कुसाग्र न सेवे ते संवर २०

१२ निरजरा वारे प्रकारे :—

अणसण * १ उणोदरी * २ भिन्नाचरी ३ रसपरि-
त्याग ४ कायाक्लेश ५ प्रतिसंलिषणा ६ प्रायश्चित

* अजयणा = यत्ना नीं ।

† अणसण = उपवासान्दिक ।

‡ उणोदरी = कमखागां ।

७ विनय ८ बेयावच्च ९ सिज्भाय १० ध्यान
११ विउसग्ग * १२

४ बंध चार प्रकारे :—

प्रकृतिबंध १ स्थितिवंध २ अनुभागबन्ध ३
प्रदेशबन्ध ४

४ मोक्ष चार प्रकारे :—

ज्ञान १ दर्शण ३ चारित्र ३ तप ४

१५ पंदरमें बोले आत्मा आठ :—

द्रव्य आत्मा १ कषाय आत्मा २ योग आत्मा ३
उपयोग आत्मा ४ ज्ञान आत्मा ५ दर्शण
आत्मा ६ चारित्र आत्मा ७ वीर्य आत्मा ८

१६ सोलमें बोले दंडक चौबीस १२ :—

१ सातनारकीयांको येक दंडक

१० दसदंडक भवनपतिका :—

असुर कुमार १ नाग कुमार २ सोवन कुमार ३
विद्युत कुमार ४ अग्निकुमार ५ दीप कुमार ६
उदधि कुमार ७ दिसा कुमार ८ वायुकुमार ९
स्तनित कुमार १०

५ पांचथावरका पंच दंडक :—

पृथ्वीकाय १ अप्पकाय २ तेउकाय ३ वायुकाय
४ वनस्पतिकाय ५

- १ वे इन्द्री को सतरमों
 १ ते इन्द्री को अठारमों
 १ चौ इन्द्री को उगणीसमों
 १ तिर्यञ्च पंचेन्द्री को बीसमों
 १ मनुष्य पंचेन्द्री को इकवीसमों
 १ वानव्यंतर देवतांको वावीसमों
 १ जोतषी देवतांको तेवीसमों
 १ वैमानिक देवतांको चौवीसमों
- १७ सतरवें बोलि लिस्या छव ६ :—
 कृष्णालिस्या १ नील लिस्या २ कापोत लिस्या ३
 तेजुलिस्या ४ पद्म लिस्या ५ शुक्ल लिस्या ६
- १८ अठारमें बोलि दृष्टी ३ तीन :—
 सम्यक् दृष्टी १ मित्या दृष्टी १ सममिथ्या
 दृष्टी ३
- १९ उगणीसमे बोलि घ्यान ४ चार :—
 आर्तध्यान १ गौद्र ध्यान २ धर्मध्यान ३ मुक्तध्यान ४
- २० बीसमें बाले षट् द्रव्यको जांग पणो
 धर्मास्तिकायनै पांचां बाला ओलखीजि :—
 द्रव्यकी येक द्रव्य खेचथी लोक प्रमाणे काल
 यकी आदि अन्त रहीत भावथी अरूपी गुणय-
 की जीव पुद्लगने हालवा चालवाको माभ.

अधर्मास्तिकायने पांचा बिलां ओलखीजि :—
 द्रव्यथी येक द्रव्य खेत्तथी लोकप्रमाणे काल-
 थकी आदि अन्तराहित भावथी अरूपी गुणथी
 थिररहवानों साभ, आकासास्तीकायनें पांच
 बोलकरी ओलखीजि :—द्रव्यथी एक द्रव्य
 खेत्तथी लोक अलोक प्रमाणे कालथी आदि
 अंत रहित भावथी अरूपी गुणथी भाजन गुण
 कालनें पांचां बिलां ओलखीजि :—द्रव्यथी
 अनन्ता द्रव्य खेत्तथी अढाई द्वीप प्रमाणे
 कालथी आदि अन्त रहित भावथी अरूपी
 गुणथी वर्त्तमानगुण पूदगलास्तिकायने पांच
 बोलकरी ओलखीजि:—द्रव्यथी अनन्ता द्रव्य
 खेत्तथी लोक प्रमाणे कालथी आदि अन्त
 रहित भावथी रूपीगुणथी गलेः मले, जीवा-
 स्तिकायने पांच बोलकरी ओलखीजे:—द्रव्यथी
 अनन्ता द्रव्य खेत्तथी लोक प्रमाणे कालथी
 आदि अंत रहित भावथी अरूपी गुणथी
 चैतन्य गुण ।

२१ एक वीसमें बिले रासि २ दोय :—

जीवरासि १ अजीवरासि २

२२ वाविसमें बिले श्रावक का १२ वारे व्रत :—

* गले मले: गठे वधे: अथवा: छुदा येकत्र होय ।

- १ पहिला व्रतमें श्रावक स्थावर जीव हणवाको प्रमाण करे और तस जीव हालतो चालतो हणवाका से उपयोग त्याग करे ।
- २ दूजा व्रतमें मोटकी भूँट बोलवाकासे उपयोग त्याग करे ।
- ३ तीजा व्रतमें श्रावक राजडण्डे लोकभण्डे इसी मोटकी चोरी करवाका त्याग करे ।
- ४ चौथा व्रतमें श्रावक मरियाद उपरांति मैथुन सेवाका त्याग करे ।
- ५ पांचमो व्रतमें श्रावक मरियाद उपरांति परिग्रह राखवाका त्याग करे ।
- ६ छट्टा व्रतके विखैश्रावक दसों दिसिमें मरियाद उपरान्ति जावाका त्याग करे ।
- ७ सातवा व्रतके विखे श्रावक उपभोग परिभोग का बोल २६ छावीस है जिणारी मरियाद उपरांति त्याग करे तथा पंद्रे कर्मादानकी मरियाद उपरांति त्याग करे ।
- ८ आठमा व्रतके विखे श्रावक मरियाद उपरांति अनर्थ दण्डका त्याग करे ।
- ९ नवमां व्रतके विखे श्रावक सामायककी मरियाद करे ।

- १० दसमां व्रतके विखे श्रावक देसावगासी संव-
रकी मरियाद करे ।
- ११ इगारमूँ व्रत श्रावक पोसह करे ।
- १२ वारमूँ व्रत श्रावक सुध साधू निग्रंथनें
निर्दोष आहार पाणी आदि चउदे प्रकार
दान देवे ।
- २३ तेबीसमें वोले साधूजीका पंच महाव्रत :—
 - १ पहिला महाव्रतमें साधूजी सर्वथा प्रकारे
जीव हिन्सा करे नहीं करावे नहीं करताने
भलो जाणे नहीं मनसें वचनसें कायासें ।
 - २ दूसरा महा व्रतमें साधूजी सर्वथा प्रकार
भूँठ वोले नहीं बालावे नहीं वोलतां प्रते
भलो जाणे नहीं मनसें वचनसें कायासें ।
 - ३ तीजा महा व्रतमें साधूजी सर्वथा प्रकारे
चोरी करे नहीं करावे नहीं करतां प्रते
भलोजाणे नहीं मनसें वचनसें कायासें ।
 - ४ चौथा महा व्रतमें साधूजी सर्वथा प्रकारे
मैद्युन सेवे नहीं सेवावे नहीं सेवतां प्रते
भलोजाणे नहीं मनसें वचनसें कायासें ।
 - ५ पंचमां महाव्रतमें साधूजी सर्वथा प्रकारे
परिग्रह राखे नहीं रखावे नहीं राखतां प्रते
भलोजाणै नहीं मनसें वचनसें कायासें ।

वायसा कायसा, कराज् नहीं अनुमोदूँ नहीं
 मनसा वायसा, कराज् नहीं अनुमोदूँ नहीं
 मनसा कायसा, कराज् नहीं अनुमोदूँ नहीं
 वायसा कायसा ।

आंक २३ तेवीसको भांगा ३ तीन :—

दोय करण तीन जोगसें करूँ; नहीं कराज्
 नहीं मनसा वायस कायसा, करूँ नहीं
 अनुमोदूँ नहीं मनसा वायसा कायसा, कराज्
 नहीं अनुमोदूँ नहीं मनसा वायसा कायसा ।

आंक ३१ दूकतीसको भांगां ३ तीन :—

तीन करणैक जोगसें; करूँ नहीं कराज्
 नहीं अनुमोदूँ नहीं मनसा, करूँ नहीं
 कराज् नहीं अनुमोदूँ नहीं वायसा, करूँ
 नहीं कराज् नहीं अनुमोदूँ नहीं कायसा ।

आंक ३२ बतीसको भांगा ३ तीन :—

तीन करण दोयजोगसें: करूँ नहीं कराज्
 नहीं अनुमोदूँ नहीं मनसा वायसा, करूँ नहीं
 कराज् नहीं अनुमोदूँ नहीं मनसा कायसा,
 करूँ नहीं कराज् नहीं अनुमोदूँ नहीं वायसा
 कायसा ।


आंक ३३ तैतीसको भांगो १ एक :—

तीन करण तीन जोगसैं: करूँ नहीं करारुँ
नहौँ अनुमोदूँ नहौँ मनसा बायसा कायसा ।

२५ पच्चीसमे बोले चारित ५ पांच :—

सामायक चारित १ छेदो स्थापनीय चारित २
पडिहार बिशुद्ध चारित ३ सूक्ष्म संपराय
चारित ४ यथाचाति चारित ५

॥ इति पच्चीस बोल सम्पूर्ण ॥



॥ अथ पानाकी चरचा ॥

- १ जीव रूपीके अरूपी; अरूपी किण्वन्याय कालो पौली नीलो रातो धोलो ए पांच वर्ण नही पावे इण न्याय ।
- २ अजीव रूपीके अरूपी; रूपी अरूपी दोनूँ ही छै किण्वन्याय धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकास्तिकाय काल ये चारूँ तो अरूपी और पुद्गलास्तिकाय रूपी ।
- ३ पुण्य रूपीके अरूपी, रूपीते किण्वन्याय पुण्य ते शुभ कर्म, कर्म ते पुद्गल, पुद्गल ते रूपी ही छै ।
- ४ पाप रूपीके अरूपी, रूपी ते किण्वन्याय पापते अशुभ कर्म कर्मते पुद्गल पुद्गलते रूपी ही छै ।
- ५ आश्रव रूपीके अरूपी, अरूपीते किण्वन्याय आश्रव जीवका परिणाम छै, परिणामते जीव छै, जीव ते अरूपी छै, पांच वर्ण पावे नही इण न्याय ।
- ६ संवर रूपीके अरूपी, अरूपी किण्वन्याय पांच वर्ण पावे नही ।
- ७ निर्जरा रूपीके अरूपी अरूपी छै ते किण्वन्याय निर्जरा जीवका परिणाम छै पांच वर्ण पावे नही इण न्याय ।

८ बंध रूपीके अरूपी; रूपी किण्व्याय बंध ते शुभ अशुभ कर्म है, कर्म ते पुद्गल है, पुद्गल ते रूपी है ।

९ मोक्षरूपी के अरूपी अरूपी है ते किण्व्याय समस्त कर्मसें मुकावे ते मोक्ष अरूपी ते जीव सिद्ध यथा ते सां पांच वर्ण पावे नहीं इण्व्याय ।

॥ लडीं दूजी सावद्य निर्वद्यकी ॥

१ जीव सावद्यके निर्वद्य दोनूँ ही है ते किण्व्याय चोखा परिणामां निर्वद्य खोटा परिणामा सावद्य है ।

२ अजीव सावद्य निर्वद्य दोनूँ नहीं अजीव है ।

३ पुन्य सावद्य निर्वद्य; दोनूँ नहीं अजीव है ।

४ पाप सावद्य निर्वद्य दोनूँ नहीं अजीव है ।

५ आश्रव सावद्यके निर्वद्य; दोनूँ ही है ते किण्व्याय मिथ्यात्व आश्रव अव्रत आश्रव प्रमाद आश्रव, कषाय आश्रव, ये चार तो येकान्ति सावद्य है, शुभ जोगां सें निरजरा हीय जिण आंसरी निर्वद्य है अशुभ जोग सावद्य है ।

६ संवर सावद्यके निर्वद्य निर्वद्य है ते किण्व्याय कर्मा नें रोके ते निर्वद्य है ।

- ७ निरजरा सावद्यके निर्वद्य निर्वद्य है ते किण-
न्याय कर्म तोडवारा परिणाम निर्वद्य है ।
८ बंध सावद्यके निर्वद्य दोनूं नहीं ते किणन्याय
अजीव है द्रुण न्याय ।
९ मोक्ष सावद्यके निर्वद्य; निर्वद्य है, सकल कर्म
मूकाय सिद्ध भगवंत थया ते निर्वद्य है ।

॥ लडी तीर्जा आज्ञा मांहि बाहिरकी ॥

- १ जीव आज्ञा मांहि के वारे, दोनूं है ते किण-
न्याय, जीवका चोखा परिणाम आज्ञा मांहि
है, खोटा परिणाम आज्ञा बाहिर है ।
२ अजीव आज्ञा मांहि बाहिर; दोनूं नहीं, अजीव
है ।
३ पुन्य आज्ञा मांहि के बाहिर दोनूं नहीं अजीव
है द्रुण न्याय ।
४ पाप आज्ञा मांहि वारे दोनूं नहीं, अजीव है ।
५ आश्रव आज्ञा मांहिके वारे, दोनूं मांहि है, ते
किणन्याय, आश्रवा नां पांच भेद है तिणमें
मिथ्यात्व अव्रत प्रमाद कषाय ए चार तो
आज्ञा बाहिर है अने जोग नां दीय भेद शुभ
जोग तो आज्ञा मांहि है अशुभ जोग आज्ञा
बाहिर है ।

- ६ संवर आज्ञा मांहि के बाहिर, आज्ञा मांहि छै ते किणन्याय कर्म रोकवारा परिणाम आज्ञा मांहि छै ।
- ७ निर्जरा आज्ञा मांहिके बाहर, आज्ञा मांहि छै ते किणन्याय कर्म तोडवारा परिणाम आज्ञा मांहि छै ।
- ८ बंध आज्ञा मांहिके बाहर; दोनूं नहीं ते किणन्याय, आज्ञा मांहि बाहर तो जीव हुवे ए बंध तो अजीव छै दूणन्याय ।
- ९ मोक्ष आज्ञा मांहिके बाहर; आज्ञा मांहि छै ते किणन्याय, कर्म भूंकाय सिद्ध थया ते आज्ञा में छै ।

॥ लडी चौथी जीव अजीव की ॥

- १ जीव ते जीव छै के अजीव; जोवते किणन्याय सदाकाल जीवको जीव रहेसे अजीव कदे हुवे नहीं ।
- २ अजीव ते जीव छै के अजीव छै; अजीव छै अजीवको जीव किण ही कालमें हुवे नहीं ।
- ३ पुन्य जीव छै के अजीव छै; अजीव छै ते किणन्याय पुन्यतेसुभकर्म शुभ कर्म पुदगल छै पुदगल ते अजीव छै ।

४ पाप जीव है कि अजीव है; अजीव है कि अन्याय पाप ते अशुभ कर्म पुदगल है पुदगल ते अजीव है ।

५ आश्रव जीव है कि अजीव है जीव; है ते कि अन्याय शुभ अशुभ कर्म ग्रहे ते आश्रव है कर्म ग्रहे ते जीव ही है ।

६ संवर जीवके अजीव, जीव है ते कि अन्याय कर्म रोके ते जीव ही है ।

७ निर्जरा जीवके अजीव, जीव है कि अन्याय कर्म तोडे ते जीव है ।

८ बंध जीवके अजीव है, अजीव है ते कि अन्याय शुभ अशुभ कर्मको बंध अजीव है ।

९ मोक्ष जीवके अजीव, जीव है, कि अन्याय समस्त कर्म मूकावे ते मोक्ष जीव है ।

॥ लडी पांचवी जीव चौरके साहूकार ॥

१ जीव चौरके साहूकार, दोनूँ है कि अन्याय चोरवा परिणामां साहूकार है मांठा परिणामां चौर है ।

२ अजीव चौरके साहूकार, दोनूँ नहीं कि अन्याय चोर साहूकार तो जीव हुवे ये अजीव है ।

३ पुन्य चौरके साहूकार, दोनूँ नहीं अजीव है ।

- ४ पाप चोरके साहूकार, दोनू' नहीं अजीव है ।
- ५ आश्रव चोरके साहूकार, दोनू' है किणन्याय चार आश्रव तो चोर है, अने अशुभ जोग पण चोर है शुभ जोग साहूकार है ।
- ६ संवर चोरके साहूकार; साहूकारहै किणन्याय कर्म रोकवारा परिणाम साहूकार है ।
- ७ निर्जरा चोरके साहूकार, साहूकारहै किणन्याय कर्म तोडवारा परिणाम साहूकार है ।
- ८ वंध चोरके साहूकार, दोनू' नहीं अजीव है ।
- ९ मोक्ष चोरके साहूकार साहूकार किणन्याय कर्ममू'कायकर सिद्ध थया ते साहूकार है ।

लडी छटी जीव छांडवा जोगके

आदरवा योगकी ।

- १ जीव छांडवा जोगके आदरवा जोग छांडवा जोग है किणन्याय पोते जीवनं भांजन करे अनेरा जीव पर मिमत भाव न करे ।
- २ अजीव छांड वा जोगके आदरवा जोग, छांडवा जोग है किणन्याय अजीव है ।
- ३ पुन्य छांडवा जोगके आदरवा जोग, छांडवा

जोग है ते किणन्याय पुन्य ते शुभ कर्म पुद्गल है कर्म ते छांडवा ही जोग है ।

४ पाप छांडवा जोगके आदरवा जोग, छांडवा-जोग है किणन्याय पाप ते अशुभ कर्म है जीवने दुखदाई है ते छांडवा जोग है ।

५ आश्रव छांडवा जोगके आदरवा जोग, छांडवा जोग है किणन्याय आश्रव द्वारे जीवने कर्म लागे है आश्रव कर्म आवानां वारणा है ते छांडवा जोग है ।

६ संवर छांडवा जोग आदरवा जोग ; आदरवा जोग है किणन्याय कर्म रोके ते संवर है ते आदरवा जोग है ।

७ निर्जरा छांडवा जोगके आदरवा जोग; आदरवा जोग है किणन्याय देसथी कर्म तोडे देसथी जीव उज्जल थाय ते निर्जरा है ते आदरवा जोग है ।

८ वन्ध छांडवा जोगके आदरवा जोग ; छांडवा जोग, है, ते किणन्याय शुभ अशुभ कर्म नीं वन्ध छांडवा जोगही है ।

९ मोक्ष छांडवा जोगके आदरवा जोग आदरवा जोग ते किणन्याय सकल कर्म खपावे जीव

निरमल याय सिद्ध हुवे द्रुगन्याय आदरवा
जाग छै ।

॥ छद्रव्यपरलडो सातमो रूपी अरुपी की ॥

- १ धर्मास्ति काय रूपीके अरुपी, अरुपी किणन्याय
पांच वर्ण नहीं पावे द्रुगन्याय ।
- २ अधर्मास्ति काय रूपीके अरुपी, अरुपी, किणन्याय
पांच वर्ण नहीं पावे द्रुगन्याय ।
- ३ आकास्तिकाय रूपीके अरुपी, अरुपी, किणन्याय
पांच वर्ण नहीं पावे द्रुगन्याय ।
- ४ काल रूपीके अरुपी, अरुपी, किणन्याय पांच
वर्ण नहीं पावे द्रुगन्याय ।
- ५ पुद्गल रूपीके अरुपी, रूपी, किणन्याय पांच
वर्ण पावे द्रुगन्याय ।
- ६ जीव रूपीके अरुपी अरुपी किणन्याय पांच वर्ण
नहीं पावे द्रुगन्याय ।

॥ छव द्रुव्यपर लडो आठमो जीव अजीवकी ॥

- १ धर्मास्ति काय जीवके अजीव, अजीव छै ।
- २ अधर्मास्ति काय जीवके अजीव, अजीव छै ।
- ३ आकास्ति काय जीवके अजीव, अजीव छै ।
- ४ काल जीवके अजीव, अजीव छै ।

- ५ पुद्गलास्ति काय जीवके अजीव, अजीव, है ।
 ६ जीवास्ति काय जीवके अजीव, जीव है ।

॥ छत्र द्रव्यपर लडी नवमी सावद्य निर्वद्य की ॥

- १ धर्मास्ति काय सावद्यके निर्वद्य, दोनूँ नहीं
 अजीव है ।
 २ अधर्मास्ति काय सावद्यके निर्वद्य, दोनूँ नहीं
 अजीव है ।
 ३ आकास्ति काय सावद्यके निर्वद्य, दोनूँ नहीं
 अजीव है ।
 ४ काल सावद्यके निर्वद्य, दोनूँ नहीं, अजीव है ।
 ५ पुद्गलास्ति काय सावद्यके निर्वद्य, दोनूँ नहीं
 अजीव है ।
 ६ जीवास्तिकाय सावद्यके निर्वद्य, दोनूँ है खोटा
 परिणामा सावद्य है चोखा परिणामा निर्वद्य है ।

॥ छत्र द्रव्यपर लडी दशमी एक अनेक की ॥

- १ धर्मास्ति काय एक हैके अनेक है, एक है,
 किगन्याय, द्रव्ययकी एकही द्रव्य है ।
 २ अधर्मास्ति काय एक हैके अनेक है: एक है,
 द्रव्ययकी एकही द्रव्य है ।

- ३ आकास्ति काय एकके अनेक, एक है, लोक अलोक प्रमाणे एकही द्रव्य है ।
- ४ काल एक हैके अनेक है, अनेक है द्रव्ययकी अनन्ता द्रव्य है द्रुगन्याय ।
- ५ पुद्गल एक हैके अनेक है, अनेक है, द्रव्ययकी अनन्ता द्रव्य है द्रुगन्याय ।
- ६ जीव एक है के अनेक है, अनेक है अनंता द्रव्य है द्रुगन्याय ।

छवद्रव्यपर लडी इग्यारमी आज्ञामांहिवाहेरकी

- १ धर्मास्ति काय आज्ञा मांहिके वाहर दोनू नहीं ते किगन्याय आज्ञा मांहि वाहर तो जीव है अने ए अजीव है ।
- २ अधर्मास्ति काय आज्ञा मांहिके वाहिर दोनू नहीं किगन्याय अजीव है ।
- ३ आकास्ति काय आज्ञा मांहिके वाहिर दोनू नहीं किगन्याय अजीव है ।
- ४ काल आज्ञा मांहिके वाहिर दोनू नहीं किगन्याय अजीव है ।
- ५ पुद्गल आज्ञा मांहिके वाहिर दोनू नहीं किगन्याय अजीव है ।
- ६ जीव आज्ञा मांहिके वाहिर दोनू है किगन्याय

निर्वद्य करणी आज्ञा मांहि छै सावद्य करणी
आज्ञा बाहर छै द्रुगन्याय ।

छव द्रव्यपर लडो बारमी चोर साहकारकी

- १ धर्मास्ति काय चोरके साहकार दोनूँ नहीं
किगन्याय चोर साहकार तो जीव छै ए धर्मास्ति
काय अजीव छै द्रुगन्याय ।
- २ अधर्मास्ति काय चोरके साहकार दोनूँ नहीं
अजीव छै ।
- ३ आकास्ति काय चोरके साहकार दोनूँ नहीं
अजीव छै ।
- ४ काल चोरके साहकार दोनूँ नहीं अजीव छै ।
- ५ पुद्गल चोरके साहकार दोनूँ नहीं अजीव छै ।
- ६ जीव चोरके साहकार, दोनूँ छै किगन्याय,
मांठा परिणाम आंसरी चोर छै चोखा परिणामां
आंसरी साहकार छै ।

॥ छवमे नवमे की चरचा ॥

- १ कर्माकोकर्ता छव द्रव्यमें कौण नव तत्वमें
कौण उत्तर क्वमें जीव नवमे जीव आश्रव ।
- २ कर्माको उपावता क्वमें कौण नवमें कौण ऊः
क्वमें जीव नवमे जीव आश्रव ।

- ३ कर्माको लगावता छवमें कोण नवमें कोण उः
छवमें जीव नवमें जीव आश्रव ।
- ४ कर्माको रींकता छवमें कोण नवमें कोण उत्तर
छवमें जीव नवमें जीव संवर ।
- ५ कर्माको तोडता छवमें कोण नवमें कोण छवमें
जीव नवमें जीव निर्जरा ।
- ६ कर्माको वास्यता छवमें कोण नवमें कोण छवमें
जीव नवमें जीव आश्रव ।
- ७ कर्माको झूकावता छवमें कोण नवमें कोण छवमें
जीव नवमें जीव मोक्ष ।
- ८ अठारे पाप सेवे ते छवमें कोण नवमें कोण छवमें
जीव नवमें जीव आश्रव ।
- ९ अठारे पाप सेवाका त्याग करे ते छवमें कोण
नवमें कोण छवमें जीव नवमें जीव निर्जरा ।
- १० सामायक छवमें कोण नवमें कोण छवमें जीव
नवमें जीव संवर ।
- ४ व्रत छवमें कोण नवमें कोण छवमें जीव नवमें
जीव संवर ।
- ५ अव्रत छवमें कोण नवमें कोण छवमें जीव नवमें
जीव आश्रव ।
- ६ अठारे पापको वहरमण छवमें कोण नवमें
कोण छवमें जीव नवमें जीव सस्वर ।

- ७ पंच माहा व्रत कृवमे' कोण नवमे' कोण कृवमे' जीव नवमे' जीव सस्वर ।
- ८ पंच चारित्र कृवमे' कोण नवमे' कोण कृवमे' जीव नवमे' जीव सस्वर ।
- ९ पांच सुमति कृवमे' कोण नवमे' कोण कृवमे' जीव नवमे' जीव निर्जरा ।
- १० तीन गुप्ती कृवमे' कोण नवमे' कोण कृवमे' जीव नवमे' जीव सस्वर ।
- ११ वारे व्रत कृवमे' कोण नवमे' कोण कृवमे' जीव नवमे' जीव सस्वर ।
- १ धर्म कृवमे' कोण नवमे' कोण कृवमे' जीव नवमे' जीव सस्वर निर्जरा ।
- २ अधर्म कृवमे' कोण नवमे' कोण कृवमे' जीव नवमे' जीव आश्रव ।
- ३ दया कृवमे' कोण नवमे' कोण कृवमे' जीव नवमे' जीव सस्वर निर्जरा ।
- ४ हिंस्या कृवमे' कोण नवमे' कोण कृवमे' जीव नवमे' जीव आश्रव ।
- ५ जीव कृवमे' कोण नवमे' कोण कृवमे' जीव नवमे' जीव आश्रव सस्वर निर्जरा मोक्ष ।
- ६ अजीव कृवमे' कोण नवमे' कोण कृवमे' पांच नवमे' अजीव पुन्य पाप बन्ध ।

- ७ पुन्य कृवमे' कोण नवमे' कोण कृवमे' पुद्गल नवमे' अजीव पुन्य वन्ध ।
- ८ पाप कृवमे' कोण नवमे' कोण कृवमे' पुद्गल नवमे' अजीव पाप वन्ध ।
- ९ आश्रव कृवमे' कोण नवमे' कोण कृवमे' जीव नवमे' जीव आश्रव ।
- १० सम्बर कृवमे' कोण नवमे' कोण कृवमे' जीव नवमे' जीव सम्बर ।
- ११ निर्जरा कृवमे' कोण नवमे' कोण कृवमे' जीव नवमे' जीव निर्जरा ।
- १२ वंध कृवमे' कोण नवमे' कोण कृवमे' पुद्गल नवमे' अजीव पुन्य पाप वंध ।
- १३ मोक्ष कृवमे' कोण नवमे' कोण कृवमे' जीव नवमे' जीव मोक्ष ।
- १ धर्मास्ति कृवमे' कोण नवमे' कोण, कृवमे' धर्मास्ति नवमे' अजीव ।
- २ अधर्मास्ति कृवमे' कोण नवमे' कोण, कृवमे' अधर्मास्ति नवमे' अजीव ।
- ३ आकास्ती कृवमे' कोण नवमे' कोण, कृवमे' आकास्ती नवमे' अजीव ।

- ४ काल छवमें कोण नवमें कोन, छवमें काल नवमें अजीव ।
- ५ पुद्गल छवमें कोण नवमें कोण, छवमें पुद्गल नवमें अजीव पुन्य पाप बंध ।
- ६ जीव छवमें कोण नवमें कोण, छवमें जीव नवमें जीव आश्रव संवर निर्जरा मोक्ष ।
- ७ कागद को पानीं छवमें कोण नवमें कोण; छवमें पुद्गल नवमें अजीव ।
- ८ लकडी की पाटो छवमें कोण नवमें कोण; छवमें पुद्गल नवमें अजीव ।
- ९ पात्रो छवमें कोण नवमें कोण; छवमें पुद्गल नवमें अजीव ।
- १० रजोहरण छवमें कोण नवमें कोण; छवमें पुद्गल नवमें अजीव ।
- ११ श्रीसिद्ध भगवान छवमें कोण नवमें कोण; छवमें जीव नवमें जीव मोक्ष ।
- १ पुन्य और धर्म एक को दियो; दियो, किणन्याय पुन्य तो अजीव कै धर्म जीव कै ।
- २ पुन्य और धर्मास्ति एक के दियो; दियो, किणन्याय पुन्य तो रूपी कै धर्मास्ति अरूपी ।

- ३ धर्म और धर्मास्ति एक के दोय; दोय, किण-
न्याय धर्म तो जीव है, धर्मास्ति अजीव है ।
- ४ अधर्म और अधर्मास्ति एक के दोय दोय किण-
न्याय अधर्म तो जीव है अधर्मास्ति अजीव
है ।
- ५ पुन्य अने पुन्यवान एक के दोय; दोय, किण-
न्याय पुन्य तो अजीव है पुन्यवान जीव है ।
- ६ पाप अने पापी एक के दोय; दोय, किणन्याय
पाप तो अजीव है पापी जीव है ।
- ७ कर्म अने कर्माको करता एक के दोय; दोय,
किणन्याय कर्म तो अजीव है कर्मारो करता
जीव है ।
- ८ आठ कर्मा में पुन्य कितना पाप कितना;
ज्ञानावरणी दर्शणा वरणी, मोहनौ, अंतराय;
ये चार कर्म तो एकान्ति पाप है, वेदनी,
नाम, गोत्र, आयुष, ए चार कर्म पुन्य पाप
दोनू ही है ।
- ९ कर्म जीवके अजीव; अजीव ।
- १० कर्म रूपीके अरूपी, रूपी है ।
- ११ कर्म सावद्य के निर्वद्य, दोनू नहीं अजीव है ।
- १२ कर्म आज्ञा मांहिके वारे दोनू नहीं अजीव है ।

- ४ कर्म कांडवा जोग के आदरवा जोग; कांडवा जोग है ।
- ५ पुन्य धर्म के अधर्म, दोनूँ नहीं किणन्याय धर्म अधर्म जीव है, पुन्य अजीव है ।
- ६ पाप धर्म के अधर्म; दोनूँ नहीं किणन्याय, धर्म अधर्म, तो जीव है पाप अजीव है ।
- ७ बंध धर्म के अधर्म, दोनूँ नहीं किणन्याय धर्म अधर्म तो जीव है बंध अजीव है ।
- ८ धर्म जीव के अजीव, जीव है ।
- ९ धर्म सावद्य के निर्वद्य, निर्वद्य है ।
- १० धर्म रूपी के अरूपी, अरूपी है ।
- ११ धर्म पुन्य के पाप, दोनूँ नहीं, किणन्याय धर्म तो जीव है पुन्य पाप अजीव है ।
- १२ धर्म घोर के साहकार साहकार है ।
- १३ धर्म आज्ञा मांहि के बाहिर, श्री बीतराग देव की आज्ञा मांहि है ।
- १४ धर्म कांडवा जोग के आदरवा जोग, आदरवा जोग है ।
- १५ अधर्म जीव के अजीव, जीव है ।
- १६ अधर्म रूपी के अरूपी, अरूपी है ।
- १७ अधर्म आज्ञा मांहिके बाहर, बाहर है ।

- १८ अधर्म चोर के साहूकार, चोर है ।
- १९ अधर्म छांडवा जोग के आदरवा जोग, छांडवा जोग ।
- २० कर्म अने धर्म एक के दोय; दोय है किण-
न्याय कर्म तो अजीव है धर्म जीव है ।
- २१ पाप अने धर्म एक के दोय; दोय है किण-
न्याय पाप तो अजीव है धर्म जीव है ।
- १ सामायक जीव के अजीव, जीव है ।
- २ सामायक सावद्य के निर्वद्य, निर्वद्य है ।
- ३ सामायक रूपी के अरूपी, अरूपी है ।
- ४ सामायक आज्ञा मांहि के बाहर, आज्ञा मांहि
है ।
- ५ सामायक चोर के साहूकार, साहूकार है ।
- ६ सामायक छांडवा जोग के आदरवा जोग
आदरवा जोग है ।
- ७ सावद्य जीव के अजीव; जीव है ।
- ८ सावद्य सावद्य हैके निर्वद्य; सावद्य है ।
- ९ सावद्य आज्ञा मांहि के बाहर; बाहर है ।
- १० सावद्य चोर के साहूकार; चोर है ।
- ११ सावद्य रूपी के अरूपी; अरूपी है ।
- १२ सावद्य छांडवा जोग के आदरवा जोग; छांडवा
जोग है ।

- १३ निर्वद्य जीव के अजीव; जीव है ।
- १४ निर्वद्य सावद्य के निर्वद्य; निर्वद्य है ।
- १५ निर्वद्य चोर के साहूकार साहूकार है ।
- १६ निर्वद्य रूपीके अरूपी; अरूपी है ।
- १७ निर्वद्य आज्ञा मांदि के वाहिर; मांदि है ।
- १८ निर्वद्य पुन्य के पाप; पुन्य पाप दोनू नहीं
किणन्याय पुन्य पाप तो अजीव है निर्वद्य
जीव है ।
- १९ सावध पुन्य के पाप; पुन्य पाप दोनू नहीं,
किणन्याय पुन्य पाप तो अजीव है सावद्य
जीव है ।
- २० निर्वद्य धर्मके अधर्म; धर्म है ।
- २१ निर्वद्य क्हांडवा जोगके आदरवा जोग; आदरवा
जोग है ।
- २२ अधर्म अने अधर्मास्ति येक के दोय; दोय किण-
न्याय, अधर्म तो जीव है अधर्मास्ति अजीव
है ।
- २३ धर्मास्ति अने अधर्मास्ति येक के दोय; दोय,
किणन्याय, धर्मास्ति की तो चालवा नो सहाय
है, अने अधर्मास्तिनो थिर रहवानों सहाय है ।
- २४ धर्म अने धर्मां येक के दोय; येक है, किण-

न्याय धर्म जीवका चोखा परिणाम छ ।

२५ अधर्म अने अधर्मी एक के दोय; येकके किण-
न्याय अधर्म जीवका खोटा परिणाम कै ।

॥ नवपदार्थ की चरचा ॥

- १ नव पदार्थमें जीव कितना पदार्थ अने अजीव कितना पदार्थ; जीव, आश्रव, संवर निर्जरा, मोक्ष, ये पांच तो जीव कै अने अजीव पुन्य पाप बंध येचार पदार्थ अजीव कै ।
- २ नव पदार्थ में सावद्य कितना निर्वद्य कितना; जीव अने आश्रव ये दोय तो सावद्य निर्वद्य दोनूँ कै, अजीव, पुन्य, पाप, बंध, ये सावद्य निर्वद्य दोनूँ नहीं, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये तीन पदार्थ निर्वद्य कै ।
- ३ नव पदार्थ में आज्ञा मांहि कितना आज्ञा बाहर कितना; जीव, आश्रव, ये दोय तो आज्ञा मांहि पण कै, अने आज्ञा बाहर पण कै, अजीव, पुन्य, पाप, बंध, ये चार आज्ञा मांह बाहर दोनूँ नहीं संवर, निर्जरा, मोक्ष, ए आज्ञा मांह कै ।
- ४ नव पदार्थ में रूपी कितना अरूपी कितना; जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ए पांच तो

अरूपी है; अजीव रूपी अरूपी दीनूं है पुण्य पाप बंध रूपी है ।

- ५ नव पदार्थ में चोर कितना साह्रकार कितना; जीव, आश्रव, तो चोर साह्रकार दोनूही है अजीव पुण्य, पाप, बंध ए चोर साह्रकार दीनूं नहीं; संवर, निर्जरा, मोक्ष, ए तीन साह्रकार है ।
- ६ नव पदार्थमें छांडवा जोग कितना आदरवा जोग कितना; जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, ए छव तो छांडवा जोग है संवर निर्जरा, मोक्ष, ए तीन आदरवा जोग है ।
- ७ छव द्रव्यमें जीव कितना अजीव किमता; एक जीव पांच अजीव ।
- ८ छव द्रव्यमें रूपी कितना अरूपी कितना; जीव, धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकास्ति, काल, ये पांच तो अरूपी है पुद्गल रूपी है ।
- ९ छव द्रव्य में आज्ञा मांह कितना आज्ञा वाहर कितना; जीवतो आज्ञा मांह वाहर दोनू है वाकी पांच आज्ञा मांह वाहर दीनू नहीं ।
- १० छव द्रव्य में चोर कितना साह्रकार कितना; जीवतो चोर साह्रकार दोनू है; वाकी पांच द्रव्य चोर साह्रकार दीनू नहीं अजीव है ।

११ क्व द्रव्य में एक कितना अनेक कितना;
धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकास्ती, ये तीनों तो
येकही द्रव्यके काल, जीव, पुद्गलास्ति ए तीन
अनेक है द्रुणांका अनन्ताद्रव्य है ।

१२ क्व द्रव्यमें सावद्य कितना निर्वद्य कितना;
येक जीव द्रव्य तो सावद्य निर्वद्य दोनू है:
वाकी पांच द्रव्य सावद्य निर्वद्य दोनू नहीं ।

१३ क्व द्रव्यमें सपरदेशी कितना अपरदेशी कितना;
येक काल तो अपरदेशी है वाकी पांच सपर-
देशी है ।

॥ प्रश्नोत्तर ॥

१ धारी गति कांडः — मनुष्य गति ।

२ धारी जाति कांडः — पचेन्द्री ।

३ धारी काय कांडः— तस काय ।

४ इन्द्रियां कितनीपावैः— ५ पांच

५ पर्याय कितनापावैः— ६ क्व

६ प्राण कितना पावैः— १० दसपावै

७ शरीर कितने पावैः— ३ तीन औदारिक,
तेजस, कार्मण ।

८ जोग कितना पावै! ६ नव पावै चार मनका

चार वचनका एक काया को श्रोदारिक ।

९ तूमें उपयोग कितना पावै:—४ चार पावै
मतिज्ञान १ श्रुतिज्ञान २ चक्षुदर्शन ३ अक्षु
दर्शन ४

१० धारि कर्म कितना:—८ आठ

११ गुणस्थान किसो पावै:—व्यवहारथी पांच सं
साधू नें पूछै तो छटो

१२ विषय कितनी पावै:—२३ तेवीस

१३ मिथ्यात्वनां दस बोल पावै कै नहीं, व्यवहा-
रथी नहीं पावै

१४ जीवका चौदां भेदांमें से किसो भेदपावै १
एक चोदसं पर्याप्तो मन्नी पंचेन्द्री को

१५ आतमां कितनी पावै: श्रावकमें तो ७ सात
पावै अने साधूमें आठ पावै

१६ दंडक किसोपावै: एक डकवीसमु

१७ लेस्या कितनी पावै:—६ छव

१८ दृष्टी कितनी पावै:—व्यवहारथी एक सम्यक्
दृष्टी पावै

१९ ध्यान कितना पावै:—३ तीन मुक्त ध्यान
टाल

२० ऋवद्रव्यमे किसा द्रव्य पावै:— १ एक जीवद्रव्य

- २१ रास कीसी पावैः—१ एक जीव रास
- २२ श्रावक का बारा व्रत श्रावक में पावै कै साधु
मेंः—श्रावक में
- २३ साधू का पंच माहा व्रत पावै कै नहींः—साधू
में पावै श्रावक में पावै नहीं
- २४ पाच चारित्र श्रावक में पावै कै नहींः—येक
देश चारित्र पावै
- १ येकेन्द्री की गति काईः तिर्यचगति
- २ येकेन्द्री की जाति काईः—येकेन्द्री
- ३ येकेन्द्रीमें काया कीसी पावैः—५ पांच धावरकी
- ४ येकेन्द्रीमें इन्द्रियां कितनी पावैः—येक स्पर्श
इन्द्री
- ५ येकेन्द्रीमें पर्याय कितनी पावैः—४ चारमन
भाषा एदोयटली
- ६ येकेन्द्रीमें प्राण कितना पावैः—४ चार, पावै
स्पर्श इन्द्रीय बलप्राण १ कायबलप्राण २ श्वासी
श्वासबलप्राण ३ आयुषाबलप्राण ४
- ७ मूरड माटी मुलतानी पथर मोनुं चांदी रत-
नादिक की ,

प्रश्न	उत्तर
गति कांङ्	तिर्यंचगति
जाति कांङ्	येकेन्द्री
काय कीसी	पृथ्वीकाय
इन्द्रियां कितनी पावै	येकस्पर्श इन्द्री
पर्याय कितनी पावै	४ च्यार, मनभाषाटली
प्राण कितना	४ च्यार पावै स्पर्श इन्द्री- १ काय २ साश्वोस ३ आयुषो४

८ पांणी ओसादि अपकायनीं

प्रश्न	उत्तर
गति कांङ्	तिर्यंच गति
जाति कांङ्	येकेन्द्री
काय कीसी	अप्पकाय
इन्द्रियां कितनी	येक स्पर्श इन्द्री
पर्याय कितनी	४ च्यार मन भाषाटली
प्राण कितना	४ च्यार उपर प्रमाणे

९ अग्नी तेउकायनी

प्रश्न	उत्तर
गति कांई	तिर्य'च गति
जाति कांई	एके'द्री
काय कीसी	तेउकाय
इंद्रियां कितनी	एक स्पर्श' इंद्रि
पर्याय कितनी	४ च्यार, मन भाषाटली
प्राण कितना	४ च्यार, उपर प्रमाणे

12

१० वायु कायकी

प्रश्न	उत्तर
गति कांई	तिर्य'च गति
जाति कांई	एके'द्री
काय कांई	वायु काय
इंद्रियां कितनी	एक स्पर्श' इंद्रि
पर्याय कितनी	४ च्यार उपर प्रमाणे
प्राण कितना	४ च्यार उपर प्रमाणे

११ वृक्ष, लता, पान, फूल, फल, लीलण फूलण आदि, वनस्पतिकाय नीं,

प्रश्न

उत्तर

गति कांड़

तिर्यंच गति

जाति कांड़

एकंद्री

काय कांड़

वनस्पतिकाय

इंद्रियां कितनी

एक स्पर्श इंद्रियां

पर्याय कितनी

चार उपर प्रमाणे

प्राण कितना

चार उपर प्रमाणे

१२ लट गिंडोला आदि वेइन्द्री की

प्रश्न

उत्तर

गति कांड़

तिर्यंच गति

जाति कांड़

वेइन्द्री

काय कांड़

वस काय

इंद्रियां कितनी

२ दोय स्पर्श रस इंद्रियां

पर्याय कितनी

५ पांच मन पर्याय टली

प्राण कितना

६ क्व रस इंद्रियां वलप्राण १

स्पर्श इंद्रियां वल प्राण २

काय वल प्राण ३

प्रवासीप्रवासवल प्राण	४
आउषो बल प्राण	५
भाषा बल प्राण	६

१३ कीडी मक्कोडा आदि तेइन्द्रीकी

प्रश्न	उत्तर
गति कांई	तिर्यंच गति
जाति कांई	तेइंद्री
काय कांई	वस काय
इंद्रियां कितनी	३तीन, स्पर्श १ रसरघ्राण३
पर्याय कितनी	५ पांच, मन टली
प्राण कितना	७ सात, छवतोउपरप्रमाणे प्राण इंद्री बल प्राणवध्ये

१४ मांखी मच्छर टीडी पतंगीया

विच्छु आदि चौ इन्द्री की

प्रश्न	उत्तर
गति कांई	तिर्यंच गति
जाति कांई	चौ इन्द्री
काय कांई	वस काय
इंद्रियां कितनी	४ चार, श्रुत इंद्री टली

पर्याय कितनी	५ पांच, मन टल्यो
प्राण कितना	८ आठ, सात तो उपर प्रमाणे एक चक्षू इंद्रो वल प्राण और वध्यो

१५ पंचेन्द्रिका

प्रश्न	उत्तर
गति कितनी पावै	४ चारूँ ही पावै
जाति कांई	पंचेन्द्रो
काय कांई	वस काय
इंद्रियां कितनी	पांचोहीं
पर्याय कितनी	६ छवों ही पावै सन्नीमें, और असन्नी में ५ पांच, मनटल्यो,
प्राण कितना पाव	सन्नीमें तो १० दसूँही पावै, असन्नी में ८ पावै मनटल्यो

१६ नारकी की पूछा

प्रश्न	उत्तर
गति कांई	नर्क गति
जाति कांई	पंचेन्द्रो
काय कांई	वस काय

इन्द्रियां कितनी	५ पांचोही
पर्याय कितनी	५ पांच, मन भाषामेली लेखवी
प्राण कितना	१० दसों ही

१७ देवताकी पूछा

प्रश्न	उत्तर
गति कांई	देव गति
जाति कांई	पंचेन्द्रो
काय कांई	वस काय
इन्द्रियां कितनी	५ पांचोंही
पर्याय कितनी	५ मन भाषा भेली लेखवी
प्राण कितना	१० दसोंही

१८ मनुष्यकी पूछा असन्नी की

प्रश्न	उत्तर
गति कांई	मनुष्य गति
जाति कांई	पंचेन्द्रो
काय कांई	वस काय
इन्द्रियां कितनी	५ पांच
पर्याय कितनी	३॥
प्राण कितना	७॥ प्रवासलेवेतोउप्रवासनहीं

१९ सनी मनुष्य की पूछा

प्रश्न	उत्तर
गति कांई	मनुष्य गति
जाति कांई	पंचेन्द्री
काय कांई	वस काय
इन्द्रियां कितनी	५ पांच
पर्याय कितनी	६ छव
प्राण कितना	१० दस
१ तुमे सनीके असनीः—सनी, किणन्याय मनके	
२ तुमे सुजमके वादरः—वादर, किण० दीखू छूं	
३ तुमे वसके स्यावरः—वस, किण० हालू चालू छूं	
४ येकेन्द्री सनीके असनीः—असनी, किणन्याय	मन नहीं
५ येकेन्द्री सुजमके वादरः—दीनूं हीं छै, किण०	
येकेन्द्री दोय प्रकार की छै दीखे छै ते वादर	
छै, नहीं दीखे ते सुजम छै	
६ येकेन्द्री वस के स्यावरः—स्यावर छैं, हालै	
चालै नहीं	
७ येकेन्द्री सनीके असनीः—असनी किण० मन नहीं	

८ पृथ्वीकाय अप्पकाय वायुकाय

तेउकाय वनस्पतिकाय

प्रश्न

उत्तर

सन्नीके असन्नी

असन्नी है मन नहीं

मुक्ष के वादर

दोनू ही प्रकार की है

वस के स्थावर

स्थावर है

९ बेइन्द्री तेइन्द्री चौ इन्द्री की पूछा

प्रश्न

उत्तर

सन्नी के असन्नी

असन्नी है मन नहीं

मुक्ष के वादर

वादर है

वस के स्थावर

वस है

१० तिर्यच पंचेन्द्री की पूछा

प्रश्न

उत्तर

सन्नी के असन्नी

दोनू हीं है

मुक्ष के वादर

वादर है

वस के स्थावर

वस है

११ असन्नी मनुष्य चउदैं स्थानकमें निपजे

प्रश्न	उत्तर
सत्री के असत्री	असत्री कैं
सुद्ध के वादर	वादर कैं
वस के स्यावर	वस कैं

१२ सन्नी मनुष्य ते गर्भमें उपजै जिणारी पूछा

प्रश्न	उत्तर
सत्री के असत्री	सत्री कैं
वसके स्यावर	वस कैं
सुद्ध के वादर	वादर कैं

१३ नारकी का नेरीयाकी पूछा

प्रश्न	उत्तर
सत्री के असत्री	सत्री कैं
सुद्ध के वादर	वादर कैं
वस के स्यावर	वस कैं

१४ देवता की पूछा

प्रश्न	उत्तर
सन्नी के असन्नी	सन्नी छै
सुद्ध के बादर	बादर छै
वस के स्यावर	वस छै

१५ गाय भैंस हाथी घोड़ा बलद पंखी आदि पसू ज्यानवरकी पूछा

प्रश्न	उत्तर
सन्नी के असन्नी	दोनूही प्रकारका छै कमो कमके मन नही, गर्भेजके मन छै
सुद्ध के बादर	बादर छै, नेत्रसें देखवा मे आवै छै
वस के स्यावर	वस छै हालै चालैछै

१ येकेन्द्रोमें वेद कितना पावै:—एक नपुसग
वेद पावै

२ पृथ्वी पाणी वनस्पति वायरो अगनी यां पांचां
में वेद कितनां पावै:—१ एक नपुसगही छै

३ वेदन्द्रो तेदन्द्रो चौदन्द्रीमें वेद कितना पावै:—
एक नपुसग वेदही पावै छै

- ४ पंचेन्द्रीमें वेद कितना पावै:—सन्नीमें तो तीनों ही वेद पावै छै, असन्नी में एक नपूंसग वेदही छै
- ५ मनुष्यमें वेद कितना पावै:—असन्नी मनुष्य चौदे थानक में उपजै जीणां में तो वेद एक नपूंसग ही पावै छै, सन्नी मनुष्य गर्भमें उपजै जिणांमें वेद तीनों ही पावै छै
- ६ नारकी में वेद कितना पावै:—एक नपूंसग वेदही पावै छै
- ७ जलचर थलचर उरपर भुजपर खेचर यां पांच प्रकारका तिर्यंचामें वेद कितना पावै:—कमोक्षम उपजै ते असन्नीछै जिणांमें तो वेद नपूंसग ही पावै छै, अने गर्भमें उपजै ते सन्नीछै जीणांमें वेद तीनोंही पावै छै
- ८ देवतामें वेद कितना पावै :—उत्तर, भवन पती वाणव्यन्तर जोतपी पहिला दूजा देव लोक तांई तो वेद दोय, स्त्री १ पुरुष २ पावै छै, और तीजा देवलोकमें स्वार्थ सिद्ध तांई वेद एक पुरुष ही छै
- ९ चौबीस दंडक का जीवांके कर्म कितना:—उगणीस दंडकका जीवांमें तो कर्म आठही पावै छै, अने मनुष्यमें सात आठ तथा चार

- १ धर्म व्रतमें के अव्रतमें :-व्रतमें
- २ धर्म आज्ञा मांहि के बाहर:--श्री वीतरागदेव की आज्ञा मांहि छै
- ३ धर्म हिन्सामें के दया में :-दया में
- ४ धर्म मोलमिले के नहीं मिले:--नहीं मिले धर्म तो अमूल्य छै
- ५ देव मोल मिले के नहीं मिले:--नहीं मिले अमूल्य छै
- ६ गुरु मोललोयां मिले के नहीं मिले:--नहीं मिले अमूल्य छै
- ७ साधूजी तपस्या करैते व्रतमें के अव्रत में:--व्रतमें ते निर्जरा अधिक धर्म छै
- ८ साधूजी पारणो करै ते व्रतमें के अव्रत में:--व्रत में किणन्याय साधू के कोई प्रकार अव्रतही नहीं सर्व सावद्य जोगका त्याग छै
- ९ श्रावक उपवास आदि तपकरै ते व्रतमें के अव्रतमें :-व्रत में
- १० श्रावक पारणू करै ते व्रतमें के अव्रत में:--अव्रत में किणन्याय श्रावक को खाणों पीणों पहरणों ए सर्व अव्रतमें श्रीउवाइ तथा सुयगडांग सूत्रमें विसतार छै

११ साधूजी ने सूज तो निर्दोष आहार पाणी दीयां कांईहोवे व्रतमे के अव्रत में:-अशुभ कर्म खयघाय तथा पुन्यबंध छै और १२ वारमूं व्रत निपजै

१२ साधूजीने असूज तो दोषसहित आहार पाणी दीयां कांई होवै तथा व्रतमें के अव्रत में:-श्री-भगवती सूत्र में कहयो छै तथा श्री ठाणांग सूत्र के तीजै ठाणें कहयो छै अल्प आयुपबंधे अ-करयाणकारी कर्म बंधे तथा असूज तो दीधी ते व्रत में नहीं

१३ अरिहंतदेव देवता के मनुष्य :-मनुष्य छै

१४ साधू देवता के मनुष्य:-मनुष्य छै

१५ देवता साधूनीं वंछा करै के नहीं करै:-करै साधू तो सबका पूजनीक छै

१६ साधू देवताकी वंछा करै के नहीं करै:- नहीं करै

१७ सिद्ध भगवान देवता के मनुष्य:-दीनूं नहीं

१८ सिद्ध भगवान मुज्ज्मके वादर:-दीनूं नहीं

१९ सिद्ध भगवान तसके स्यावर:-दीनूं नहीं

२० सिद्ध भगवन सग्नीके असग्नी:-दीनूं नहीं

२१ सिद्ध भगवान पर्याप्ता के अपर्याप्ता:-दीनूं नहीं

१ असंयति अब्रतीने दीयां कांडे होवै:-श्रीभगवती सूत्र के आठमें सतक छटै उदेसे कह्यो असंयति अब्रती नें सूजतो असूजतो सचित अचित चार प्रकार को आहारदीयां येकान्ति पाप होय निर्जरा नहीं होय

२ असंजति अब्रती जीवको जीवणो बंछणो के मरणो बंछणो:-असंजतिको जीवणो बंछणो नहीं मरणो बंछणो नहीं, संसार समुद्र सें तिरणो बंछणो ते श्रीबीतरागदेव को धर्म छै

३ कसाई जीवोंने मारै तिणवेल्ह्यां साधू कसाई नें उपदेश देवे के नहीं देवे:-अवसर देखे तो उपदेश देवे के नहीं देवे :-अवसर देखे तो उपदेश देवे हिन्साका खोटाफल कहै ।

प्रश्न:-जीवोंको जीवणो बांछ कर उपदेश देवे के कसाईने तारवा निमित्त उपदेश देवे:-

उत्तर-कसाई नें तारवा निमित्त उपदेश देवे ते बीतराग को धर्म छै

४ कोई वाडामें पसू ज्यानवर दुखिया छै अने साधू जिणारसते जाय रह्या छै तो जीवां की अनू-कंपा आगी छोडे के नहीं छोड़े:-नहीं छोड़े, किणन्याय उ० श्रोनिसीत सूत्रके १२ वारमें

उदेसे कह्यो है अनुकम्पा करिवस जीव बांधे
 बंधावै अनुमोदे तो चौमासी प्रायश्चित् आवै,
 तथा बंध्या जीवां नें अनुकम्पा आगी छोड़े
 छुड़ावै अनुमोदे तो चौमासी प्रायश्चित् आवै
 तथा साधू संसारी जीवांकी सार संभार करे
 नहीं साधू तो संसारिक कर्तव्य त्यागदिया ।

॥ अथ तेरा द्वार ॥

✽ प्रथम मूल द्वार ✽

१ मूल १ दृष्टान्ति २ कुण ३ आतमा ४ जीव ५
 अरूपो ६ निर्वद्य ७ भावऽ द्रव्य गुण प्रजाय ८
 द्रव्या दिक् १० आत्ता ११ जिनय १२ तलाव १३
 ए तेराद्वार जांगवाः प्रथम मूलद्वार कहै है
 जीव ते चेतना लक्षण, अजीव ते अचेतना
 लक्षण, पुन्य ते शुभ कर्म, पाप ते अशुभ कर्म,
 कर्म ग्रहते आश्रव, कर्म, रोकते संवर, देशय
 की कर्म, तोडी देशयी जीव उज्जल धाय ते
 निर्जरा जीव संघाते शुभाशुभ कर्म बंध्या ते
 बंध समस्त कर्मां सें मूकावै ते मोक्ष, ।

॥ दूसरो दृष्टान्ति द्वार ॥

२ जीव चेतन का २ दोय भेदः---

एक सिद्ध, दूजो संसारी सिद्ध करमां रहित छै; संसारी करमां सहित छै, तिणरा अनेक भेद छै मुक्ष्म अने वादर तसने स्थावर सन्नी अने असन्नी तीन वेद चार गति पांच जाति छव काय चोदे भेद जीवनां चौबीस दंडक इत्यादिक अनेक भेद जाणवा ते चेतन गुण ओलखवाने सोनारो दृष्टान्ति कहै छै, जिम सोनानों गहणों भांजी भांजीने और और आकारे घडावे तो आकार नों विनासथाय पण सोनानों विनास नथी, जिमकर्मों नां उदय थी जीव की पर्याय पलटे पण मूल चेतन गुण नों विनास नहीं ।

अजीव अचेतन तिणरा पांच भेदः ।

धर्मास्ति अधर्मास्ति आकास्ति काल पुद्गलास्ति, तिणमें चारांकी पर्याय पलटे नहीं एक पुद्गलास्ति की पर्याय पलटे ते ओलखवाने सोनानों दृष्टान्ति कहै छै जिम कोई सोनानों गहणो भांजी भांजी और और आकारे घडावे

तो आकारनीं विनास पण सोनानीं विनास नहीं, व्यं पुद्गल की पर्याय पलटे पण पुद्गल गुण की विनास नहीं ।

पुन्य वैशुभ कर्म पापते अशुभ कर्म, ते पुन्य पाप ओलखवाने पध्य अपध्य आहार नी दृष्टान्ति कहै कै, कदेक जीवके पध्य आहार घटे और अपध्य आहार वधै तो जीवके निरोगपणो घटे अने सरीगपणों वधै, कदे जीवरै पध्य आहार वधै अपध्य घटे तव जीवरै सरीगपणो घटे अने निरोगपणों वधै पध्य अपध्य दोनू घटजाय तो प्राणी सर्ग पामे, ज्यों जीवके पुन्य घटे अरुपाप वधै तो सुख घटे अने दुख वधै, कदे जीव के पाप घटे और पुन्य वधै तो सुख वधै अने दुख घटे, पुन्य पाप दोनू खय होय तो जीव मोक्ष पामे, कर्म ग्रहते आश्रव ते ओलखवाने तीन दृष्टान्ति पांच कहण कहै कै

१ प्रथम कहण ।

- १ तलाव रे नाली ज्यं जीवरै आश्रव
- २ हवेली के वारणों ज्यों जीवरै आश्रव
- ३ नावांके छेद्र ज्यों जीवरै आश्रव इमकक्षाश्रकां

कीड़जीवने आश्रव दीय सरधे तिणने एक
सरधावा ने

२ ठूजो कहण कहै छै ।

१ तलाव अने नालो एक ज्यूं जीव आश्रव एक

२ हवेली बारणीं एक ज्यों जीव आश्रव एक

३ नावां अने छेद्र एक, ज्यूं जीव आश्रव एक

३ कर्म आवे ते आश्रव ते ओलखवानै

३ तांजो कहण कहै छै

१ पांणी आवे ते नालो ज्यों कर्म आवै ते आश्रव ।

२ मनुष्य आवै ते बारणीं ज्यों कर्म आवै ते
आश्रव ।

३ पांणी आवै ते छेद्र ज्यों कर्म आवै ते आश्रव ।

४ इम कह्या थकां कोई कर्म अने आश्रव

येक सरधै तेहनै दीय सरधावानै

चौथों कहण कहै छै ।

१ पांणी अने नालो दीय ज्यों कर्म अने आश्रव दीय ।

२ मनुष्य अने बारणीं दीय ज्यों कर्म अने आश्रव
दीय ।

३ पांणी छेद्र दीय ज्यों कर्म अने आश्रव दीय ।

५ विशेष ओलखवानै पांचमूं कहण कहैछै

- १ पांगी आवै ते नालो पण पांगी नालो नही ज्यों कर्म आवै ते आश्रव पण कर्म आश्रव नहीं ।
- २ मनुष्य आवै ते वारणों पण मनुष्य वारणों नहीं, ज्यों कर्म आवै ते आश्रव पण कर्म आश्रव नहीं ।
- ३ पांगी आवै ते छेद्र पण पांगी छेद्र नही ज्यों कर्म आवै ते आश्रव पण कर्म आश्रव नहीं ।

कर्म रोके तें संवर तें ओलखवानें तीन
दृष्टान्ति कहै छै ।

- १ तलाव रो नालो रूंधै ज्यों जीवै रे आश्रव रूंधै ते संवर ।
- २ हवेलीरो वारणों रूंधै ज्यों जीवै रे आश्रव रूंधै ते संवर ।
- ३ नावारि छेद्र रूंधै ज्यों जीवै रे आश्रव रूंधै ते संवर ।

देसथकी कर्म तोड़ी जीव देसथी उज्जल
थायते निर्जरा ओलखवानै तीन
दृष्टान्ति कहै छै ।

- १ तलवारो पांगी मीरीयादिक करी ने काड़ै ज्यों

जीव भला भाव प्रवर्तावी नें जीव रूपीयो तलावरो
कर्म रूपीयो पांगी काडै ते निर्जरा ।

२ हवेलीरो कचरो पूंजी पूंजी नें काडै ज्यों भला
भाव प्रावर्तावी नें जीव रूपणी हवेलीरो जीव
कर्म रूपीयो कचरो काडै ते निरजरा ।

३ नावां को पांगी उलेची २ नें काडै उयूं जीव
भला भाव प्रवर्तावी नें जीव रूपणी नावांका
कर्म रूपीयो पांगी काडै ते निर्जरा ।

जीव संघाते कर्म बंधिया हुआते बंध
ते ओलखवानै छव बोल कहै छै ।

१ पहिले बोले कहो स्वामीजी जीव अने कर्मनीं
आदि छै ये वात मिलै अथवा न मिले । गुरू
बोल्या न मिलै (प्रश्न) क्यूं नें मिले गुरू बोल्या
ए उपनों नही ।

२ दूजै बोले कहो स्वामीजी पहिली जीव और पाछै
कर्म ये वात मिलै । गुरू बोल्या नहीं मिलै:
प्रश्न—क्यो न मिले: उ०—कर्म विनाजीव
रह्यो किहां मोक्ष गयो पाछो आवै नहीं यों
न मिलै ।

३ तीजै बोलै कहो स्वामीजी पहली कर्म अनें पकै जीव ये मिलै गुरू कहै नहीं मिले ।

प्र०—क्यों न मिलै । गुरू कहै कर्म कीयां विना हुवै नहीं तो जीव विना कर्म कुण किया

४ चौथे बोलै कहो स्वामीजी जीव कर्म येक साथ उपना ये मिले गुरू कहै न मिले ।

प्र०—किणन्याय । उ०—जीव कर्म यां दीयां नें उपजावण वाली कुण ।

५ पांच में बोलै जीव कर्म रहीत छै ये बात मिलै गुरू कहै न मिले । प्र०—किणन्याय । उ०—ये जीव कर्म रहीत होवै तो करणी करवारी खुप (चूप) कुणकरै मुक्ति गयो पाछे आवे नही ।

६ छठे बोलै कहो स्वामीजी जीव अने कर्म नों मिलाप किण विधि याय छै गुरू कहै अपच्छा न पूर्वे पणे अनादि कालसें जीव कर्म मिलाप चल्थो जाय छे ।

तिण बंधरा ४ च्यार भेद छै ।

प्रकृति बंध कर्म सभावरे न्याय १ स्थिति बंध काल व्यवहाररे न्याय २ अनुभाग बंध रस विपाकरै न्याय ३ प्रदेश बंध जीव कर्म लीली भूतर न्याय ४

ते ओलखवानै तीन दृष्टांत कहै छै ।

१ तेल अने तिल लोली भूत ज्यों जीव कर्म लोली भूत ।

२ घृत दूध लोली भूत ज्यों जीव कर्म लोली भूत ।

३ धातू माटी लोली भूत ज्यों जीव कर्म लोली भूत ।

समस्त कर्मासैं मूकावे ते मोक्ष तें ओलख
वानै तीन दृष्टांत कहै छै ।

१ घांण्णीयांदिकनूँ उपायकरी तेल खल रहित होवे
ज्यों तप संजमादि करी जीव कर्मां रहित होवे
ते मोक्ष ।

२ भेरणादिक को उपायकरी घृत छाछ रहित होवे
ज्यूँ तप संजमकरी जीव कर्मां रहित होवे ते
मोक्ष ।

३ अग्नियांदिकनूँ उपायकरी धातू माटी अलग
होवे ज्यों तप संजमकरी जीव कर्मां रहित होवे
ते मोक्ष ।

॥ तीजो कोण द्वार कहै छै ॥

जीव चेतन छवद्रवामे कोण नव पदार्थीसैं कोणः

छवद्रवांमें तो एक जीव नव पदार्थों में पांच ।
जीव १ आश्रव २ संवर ३ निर्जरा ४ मोक्ष ५

अजीव अचितन छवमें कींण नवमें कींणः-
छवमें ५ पांच, नवमें ४ चार, छवद्रवां में तो
धर्मास्ति १ अधर्मास्ति २ आकास्ति ३ काल ४
पुद्गलास्ति ५, नव पदार्थों में अजीव १ पुन्य २
पाप ३ बंध ४

पुन्यते शुभ कर्म छवमें कींण नवमें कींणः
छवमें एक पुद्गल, नवमें तीन, अजीव १ पुन्य २
बंध ३

पाप ते अशुभ कर्म छवमें कींण नवमें कींणः
छवमें एक पुद्गल, नवमें तीन अजीव १ पाप २ बंध ३
कर्म ग्रह ते आश्रव छवमें कींण नवमें कींणः—
छवमें जीव, नवमें जीव १ आश्रव २

कर्म रोकते संवर छवमें कींण नवमें कींणः—
छवमें जीव नवमें जीव संवर

देशयी कर्म तोडी देशयी जीव उज्जल याय ते
निर्जरा छवमें कींण नवमें कींणः—छवमें जीव, नव
में जीव १ निर्जरा २

बंध छवमें कींण नवमें कींणः—छवमें पुद्गल
नवमें अजीव १ पुन्य २ पाप ३ बंध ४

मोक्ष छवमें कोंण नवमें कोंणः—छवमें जीव
नवमें जीव मोक्ष

चालै ते कोंण चालवानों साभ् क्किणरोः—
चालै ते जीव पुद्गल, अनें साभ् धर्मास्तिकायनीं

थिर रहै ते कोंण थिर रहवानों साभ् क्किणरोः—
थिर रहै जीव पुद्गल, साभ् अधर्मास्तिकाय नी

वस्तु ते कोंण भाजन क्किणरोः—वस्तु तो जीव
पुद्गल, भाजन आकास्तिकायनीं

वरतै ते कोंण वर्ते क्किण ऊपरः—वरते तो काल
अने वरतै जीव अजीव उपर

भोगवै ते कोंण अने भोगमें आवै ते कोंणः—
भोगवै ते जीव, भोगमें आवै ते पुद्गल दीय प्रकारे
एक तो शब्दादिक पणैं दूजो कर्म पणै

कर्मारो करता कोंण कीधाहोवे ते कोंणः—करता
तो जीव कीधाहुवा कर्म

कर्मारो उपाय ते कोंण उपनां ते कोंणः—उपाय
तो जीव उपना ते कर्म

कर्मानि लगावै ते कोंण लाग्या हुवा ते कोंणः—
लगावै ते जीव, लागै ते कर्म

कर्म रोक्कै ते कोंण रुक्या ते कोंणः—रोक्कै तो
जीव, रुक्या ते कर्म

कर्मां नैं तोडै ते कोण तूय्या ते कोणः - तोडै ते जीव अने तूय्या ते कर्म

कर्मां नैं बांधै ते कोण वंध्या ते कोण बांधै ते जीव वंध्या ते कर्म

कर्मां नैं खपावै ते कोण अने जययया ते कोण खपावै ते जीव जययया ते कर्म

॥ इति तृतीयं हारम् ॥

॥ अथ चोथो आत्मा द्वार कहै छै ॥

जीवचेतन ते आत्मा छै अनेरो नहीं ।

अजीव अचेतन आत्मा नही अनेरो छै ।

आत्मारि काम आवै छै पण आत्मा नहीं कोण कोण काम आवै ते कहै छै ।

धर्मास्तिकाय अवलम्ब नैं चालै छै ।

अधर्मास्तिकाय अवलम्ब नैं स्थिर रहै छै

आकास्तिकाय अवलम्ब नैं बसै छै ।

काल अवलम्ब नैं कार्य करै छै ।

पुद्गल खाय छै, पीवै छै, पहरै छै, ओडे छै इत्यादि अनेक प्रकारि आत्मारि काम आवै छै पण आत्मा नहीं । पुन्यते शुभ कर्म आत्मारि शुभ पणं उदय आवै छै पण आत्मां नहीं

पापते अशुभ कर्म आतमारि अशुभ पणो उदय आवे के पण आतमां नहीं ।

शुभाशुभ कर्म ग्रह ते आश्रव आतमां के अनेरो नहीं ।

कर्म रोके ते सम्बर आतमा के अनेरो नहीं देसथकी कर्म तोडी देसथकी जीव उज्जलयाय ते निर्जरा आतमां के अनेरो नहीं

जीव संघाते कर्म बंधाणा ते बंध आतमां नहीं अनेरो के आतमां नै बांध राखीके पण आतमां नहीं ।

समस्त कर्मां सें मूक्कावै ते मोक्ष आतमां के अनेरो नहीं ।

इति चतुर्थं द्वारम् ।

॥ अथः पांचमूं जीव द्वार कहे छे ॥

जीव ते चेतन तिण जीवनें जीव कहिजे जीवने आश्रव कहिजे जीवनें संवर कहिजे जीव नें निर्जरा कहिजे जीव नें मोक्ष कहिजे ।

अजीव अचेतन नें अजीव कहिजे पुन्य कहिजे पाप कहिजे बंध कहिजे ।

पुन्यते शुभ कर्म तेहनै पुन्य कहिजे तेहनें अजीव कहिजे तेहनें बंध कहिजे ।

पाप ते अशुभ कर्म ते हनें पाप कहिजे अजीव कहिजे वंध कहिजे ।

कर्म ग्रह ते आश्रव कहिजे ते हनें जीव कहिजे कर्म रोके ते संवर कहिजे जीव कहिजे ।

देसथकी कर्म तोडौ देसथकी जीव उज्जलथाय ते हनें निर्जंगा कहिजे जीव कहिजे ।

जीव संघाते कर्म वंधाणा ते वंध कहिजे अजीव कहिजे । पुन्य कहिजे । पाप कहिजे ।

समस्त कर्म मुकावै ते मोच कहिजे जीव कहिजे हिवे येहनीं ओलखणा न्याय सहित कहै छै ।

जीवनें जीव किगन्याय कहिजे, गये काल जीव छो वर्तमान काल जीव छै आगमे काल जीव को जीव रहसी इगन्याय ।

अजीव नें अजीव किगन्याय कहिजे, गये काल अजीव छो वर्तमानकाल अजीव छै आगमे काल अजीव को अजीव रह छै ।

पुन्य नें अजीव किगन्याय कहिजे, पुन्य ते शुभ कर्म छै कर्म ते पुद्गल के पुद्गल ते अजीव छै ।

पाप नें अजीव किगन्याय कहिजे, पाप ते अशुभ कर्म छै कर्म ते पुद्गल के पुद्गल ते अजीव छै ।

आश्रव नें जीव किगन्याय कहिजे:—आश्रव तो

कर्म ग्रह के कर्मों को करता के कर्मों को उपाय के उपाय तो जीव ही के ।

१ मिथ्यात आश्रव ने जीव किण्व्याय कहिजे विपरीत सरधान ते मिथ्यात आश्रव विपरीत सरधान जीवरा परिणाम के ।

२ अवर्त आश्रव ने जीव किण्व्याय कहिजे अत्याग भाव ते जीवगी आसा बांछां अवर्त आश्रव के ते जीवरा परिणाम के ।

३ परमाद आश्रव ने जीव किण्व्याय कहिजे अण उत्साह पणों ते परमाद आश्रव के ते जीवरा परिणाम के ।

४ कषाय आश्रव ने जीव किण्व्याय कहिजे कषाय आतमा कहो के कषाय ते जीवरा परिणाम के ते जीव के ।

जोग आश्रवाने जीव किण्व्याय कहिजे जोग आतमा कहो के जोग ते जीवरा परिणाम के जोग नाम व्यापार तीनुं ही जोगों को व्यापार जीवों के ।

संवर ने जीव किण्व्याय कहिजे समार्डे पच्च खाण संयम संवर विवेक बिदमग ये छुट आतमां कहो के वलि चारित आतमां कहो के चारित जीवरा परिणाम के दुग्न्याय ।

हीं जोगारो उठाण कर्म बल वीर्य पुर्षाकार पराक्रम
अरुपी छै ।

संवर ने अरुपी किणन्याय कहिजे अठारे पाप
ठाणारो विरमण अरुपी कह्यो छै ।

निर्जरा ने अरुपी किणन्याय कहिजे कर्म तोड़-
वारी उठाण कर्म बल वीर्य पुर्षाकार प्राक्रम
अरुपी छै ।

बंधने' रुपी किणन्याय कहिजे बंधते शुभाशुभ
कर्म छै कर्म ते पुद्गल छै पुद्गल ते रुपी छै ।

मोक्ष ने अरुपी किणन्याय कहीजे समस्त कर्मा'
ने मूक्तावे'ते जीव छै तेहने मोक्ष कहीजे सिद्ध भग-
वांन कहीजे सिद्धभगवांन ते अरुपी छै ।

॥ इति कठो द्वारम् ॥

॥ अथः सातमूं सावद्यनिवद्य द्वार ॥

जीव तो सावद्य निर्वद्य दोनूं छै । अजीव सावद्य
निर्वद्य दोनूं नहीं । पुन्य पाप सावद्य निर्वद्य दोनूं
नहीं, अजीव छै । आश्रव का पांच भेद, मिथ्यात
आश्रव, अवर्त आश्रव, प्रमाद आश्रव, कषाय आश्रव,
ए चार तो सावद्य छै अशुभ जोग सावद्य छै शुभ
जोग निर्वद्य छै । इणन्याय आश्रव सावद्य निर्वद्य
दोनूं छै । संवर निर्वद्य छै । निर्जरा निर्वद्य छै

बंध सावद्य निर्वद्य दोनू नहीं अजीव छै । मोक्ष
निर्वद्य छै ।

॥ इति सप्तमं द्वारम् ॥

॥ अथः आठमूं भावद्वार कहै छै ॥

भाव ५ पांचः—उदय भाव १ उपशम भाव २
क्षायक भाव ३ क्षयोपशम भाव ४ परिणामिक
भाव ५

उदय तो आठ कर्मनों अने उदय निपन्नरा दोय
भेदः—जीव उदय निपन्न १ दूजो जीवरे अजीव
उदय निपन्न २ तिणमें जीव उदय निपन्नरा ३३ तेतीस
भेद ते कहै छै ४ च्यार गति ६ छव काय ६ छव
लेस्या ४ च्यार कषाय ३ तीन वेद एवं २३ सित्थ्या-
ती २४ अवती २५ असन्नी २६ अनाणी २७ आहारता
२८ संसारता २९ असिद्ध ३० अकेवली ३१ छदमस्त
३२ संजोगी ३३

हिवे जीवरे अजीव उदय निपन्नरा ३० तीस
भेद ते कहै छै ५ पांच सरौर ५ पांच सरौररे प्रयोग
परणिम्यां द्रव ५ पांच वर्ण २ दोय गंध ५ पांच रस ८
आठ स्पर्स एवं तीस ।

उपशमरादोय भेद एकतो उपशम १ दूजो उप-
शम निपन्न भाव उपशम तो एक मोहणी कर्मनों

होय उपशम निष्पन्नरा दोय भेद, उपशम समकित
१ उपशम चारित्र २

ज्ञायकरा दोय भेद एक तो ज्ञायक दूजो
ज्ञायक निष्पन्न, ज्ञायक तो आठ कर्मां को होय
अने ज्ञायक निष्पन्नरा १३ तेरा भेद ते कहै छै ।

केवल ज्ञान १ केवल दर्शन २ आत्मिक सुख ३
ज्ञायक समकित ४ ज्ञायक चारित्र ५ अटल अव-
गाहना ६ अमूर्तिक पणों ७ अगुरु लघूपणों ८ दान
लब्धि ९ लाभ लब्धि १० भोगलब्धि ११ उपभोग
लब्धि १२ वीर्य लब्धि १३

त्रयोपशमरा दोय भेद, येक तो त्रयोपशम १
दूजो त्रयोपशम निष्पन्न भाव २ त्रयोपशम ती चार
कर्म को ज्ञाना वर्णों दरशनावरणी मोहनी अंत
राय, अने त्रयोपशम निष्पन्न भावरा ३२ बत्तीस
बोल ते कहै छै ।

ज्ञानावरणी कर्मरो त्रयोपशम होयतो ८ आठ
बोलपामें, केवल वरजी ४ चार ज्ञान ३ तीन
अज्ञान १ एक भगवो गुणवो ।

दरशनावरणी कर्मरो त्रयोपशम होयतो आठ
बोलपामें ५ पांच इन्द्री ३ तीन दरशन केवल
वरजी ।

माहनी कर्मरो क्षयोपशम होयतो आठ बोलपामें
४ चार चारित्र १ एक देसवरत ३ दृष्टी

अंतराय कर्मरो क्षयोपशम होवे तो आठ बोल
पामें ५ पांच लब्धि ३ तीन वीर्य ।

परिणामिकरा दोय भेद सादिया परिणामि १
अनादिया परिणामी २ अनादिया परिणामिकरा
१० दस भेद, तिणमें ६ छव द्रव्य धर्मास्ति आदि
७ सातमूं लोक ८ आठमूं अलोक ९ नवमूं भवी
१० दसमूं अभवी । अने सादिया परिणामीरा
अनेक भेद जाणवा । गांस नगर गडा पहाड पर्वत
पताल समुद्र द्वीप भुवन विमान इत्यादि अनेक भेद
आदि सहित परिणामिकरा जाणवा ।

जीव आंश्री जीव परिणामीरा १० दस भेद ते
कहे कैं ।

गति परिणामी १ इन्द्रिय परिणामी २ कषाय
परिणामी ३ लेस्या परिणामी ४ जोग परिणामी ५
उपयोग परिणामि ६ ज्ञान परिणामी ७ दरशन
परिणामी ८ चारित्र परिणामी ९ वेदपरिणामी १०

हीवे जीव आंश्री अजीव परिणामीरा १० दस
भेद कहे कैं ।

वम्हन परिणामी १ गर्द परिणामी २ संट्टाण

परिणामी ३ भेद परिणामी ४ वर्ण परिणामी ५ गन्ध परिणामी ६ रस परिणामी ७ स्पर्श परिणामी ८ अगुरु लघू परिणामी ९ शब्द परिणामी १० ॥ जीव में भाव पावै ५ पांचूं ही, अजीव पुन्य पाप बन्धमें भाव एक परिणामिक ।

आश्रव भाव दीयः—उदय, परिणामिक ।

संवर भाव ४ च्यार उदय बरजो नै ।

निर्जरा भाव ३ तीन जायक, त्रयोपशम, परिणामिक ।

मोक्ष भाव २ दीय जायक, परिणामिक ।

इति अष्टम द्वारम् ।

॥ अथः नवमूँ द्रव्य गुण पर्याय द्वार ॥

द्रव्य तो जीव असंख्यात प्रदेशी गुणद्वाराठ ज्ञान, दरशन, चारित्र, तप, वीर्य, उपयोग, सुख, दुख, ए एक-एक गुणारी अनन्ती अनन्तो पर्याय ।

ज्ञाने करी अनन्ता पदार्थ जागैँ तिणसूं अनन्ती पर्याय ।

दरशने करी अनन्ता पदार्थ सरधै तिणसूं अनन्ती पर्याय ।

चारित्र थी अनन्त कर्म प्रदेश रोके तिणसूं अनन्ती पर्याय ।

तपकरी अनन्त कर्म प्रदेश तोड़े तिणसँ अनन्ती पर्याय ।

वीर्यनीं अनन्ती शक्ति तिणसँ अनन्ती पर्याय ।

उपयोग थी अनन्त पदार्थ जाणें देखे तिणसँ अनन्ती पर्याय ।

सुख अनन्त पुन्य प्रदेशसँ अनन्त पुद्गलिक सुख वेदे तिणसँ अनन्ती पर्याय बलि अनन्त कर्म प्रदेश अलग हुयां थी अनन्त आत्मीक सुख प्रगटे तिणसँ अनन्ती पर्याय ।

दुख अनन्त पाप प्रदेश सँ अनन्त दुख वेदे तिणसँ अनन्ती पर्याय ।

अजीव नां पांच भेदः—धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकास्ति, काल, पुद्गलास्ति यांको द्रव्य गुण पर्याय कहै छै ।

द्रव्य तो एक धर्मास्ति, गुण चालवानों साभ पर्याय अनन्त पदार्थ नें चालवानों साभ तिणसँ अनन्त पर्याय ।

द्रव्य तो एक अधर्मास्ति गुण धिर रहैवानोसाज पर्याय अनन्ता पदार्थ नें धिर रहैवानोसाभ तिणसँ अनन्ती पर्याय ।

द्रव्य तो एक आकास्ति गुण भाजन पर्याय अनन्त पदार्थां नों भाजन तिणसँ अनन्ती पर्याय ।

द्रव तो काल, गुण वर्तमान, पर्याय अनन्ता पदार्थां पर वरते तिणसँ अनन्ती पर्याय ।

द्रव तो पुद्गल, गुण अनन्त गलै अनन्त मिले, तिणसँ अनन्ती पर्याय ।

द्रव तो पुन्य, गुण जीवकै शुभ पणै उदय आवै पर्याय अनन्त प्रदेश सुभ पणै उदय आवै सुख करे तिणसँ अनन्ती पर्याय ।

द्रव तो पाप, गुण जीवरे अनन्त प्रदेश अशुभ पणै उदय आवै, अनन्त दुख करे तिणसँ अनन्ती पर्याय ।

द्रव तो आश्रव गुण कर्म ग्रहवानों पर्याय अनन्ता कर्म प्रदेश ग्रह तिणसँ अनन्ती पर्याय ।

द्रव तो संवर गुण कर्म रोकवारी, पर्याय अनन्ता कर्म प्रदेश रोकै तिणसँ अनन्ती पर्याय ।

द्रव तो निर्जरा, गुण देशयकी कर्म प्रदेश तोडी देश थी जीव उजलो थाय, पर्याय अनन्त कर्म प्रदेश तोडे तिणसँ अनन्ती पर्याय ।

द्रव तो वंध, गुण जीवनें वांधराखवारी, पर्याय अनन्ता कर्म प्रदेश करी वांधै तिणसँ अनन्ती पर्याय ।

द्रव्य तो मोक्ष, गुण आत्मिक सुख, पर्याय
अनन्त कर्म प्रदेश खयहुयां अनन्त सुख प्रगटे तिगासूं
अनन्तो पर्याय ।

इति नवमूँ द्वारम् ।

॥ अथः दसमूँद्रव्यादिकरी ओलखनाद्वार ॥

जीवने पांचां बोलांकरी ओलखीजे

द्रव्य थकी अनन्ता द्रव्य, खेत्रयी लोक प्रमाणे,
कालथकी आदि अंत रहित, भावथी अरूपी,
गुणथी चेतन गुण

अजीव ने पांचा बोलांकरी ओलखीजे

द्रव्य थकी अनन्ताद्रव्य खेत्रयी लोकालोक परमाणे,
कालथकी आदि अंत रहित, भावथी रूपी अरूपी
दोनूं, गुणथकी अचेतन गुण

पुन्य नै पांचां बोलांकरी ओलखीजे

द्रव्यथकी अनन्ता द्रव्य, खेत्रथकी जीवांकनें, काल-
थकी आदि अंत रहित, भावथकी रूपी गुण-
थकी जीव कै शुभ परां उदय आवै

पाप नै पांचां बोलांकरी ओलखीजे

द्रव्य थकी अनन्ता द्रव्य खेत्रथी जीवांकनें काल-

यकी आदि अंत रहित, भावयकी रूपी, गुण-
यकी जीवरै अशुभ पणै उदय आवै
आश्रव नै पांचां बोलांकरी ओलखीजे

द्रव्ययकी अनंता द्रव्य, खेतकी जीवांकनै, काल-
यकीरा ३ तीन भेदः—एकेक आश्रवरी आदि
नही अंत नहीं ते अभोइ आसरी एकेक आश्रवरी
आदि नहीं पण अंत छे ते भोइ आंसरी, एकेक
आश्रवरी आदि छे अंत छे ते पडवाइँ समदृष्टी
आंसरी तेहनीस्थिति जघन्य अंतर मळूत उतकृष्टी
देस उणी अर्ध पुदगल प्रावर्तन, भावयकी अरूपी,
गुणयकी कर्म ग्रहवानो गुण

संवर नै पांचां बोलांकरी ओलखीजे

द्रव्ययकी तो असंख्याता द्रव्य, खेचयी जीवांकनै,
कालयकी आदि अंत सहित, भावयी अरूपी,
गुणयकी कर्म रोकवारो गुण

निर्जरा नै पांचां बोलांकरी ओलखीजे

द्रव्ययकी अकाम निर्जराका तो अनंता द्रव्य
सकाम निर्जराका असंख्याता द्रव्य, खेचयी
जीवांकनै, कालयकी आदि अंत सहित, भाव-
यकी अरूपी, गुणयकी कर्म तोडवारो गुण

बंधनै पांचां बोलां ओलखीजे

द्रव्यथी अनंता द्रव्य । खेतथकी जीवांकने
कालथकी आदि अंत सहित भावथकी रूपी ।
गुणथकी कर्म बंध रखवारो

मोचने पांचां बोलांकरी ओलखीजे । द्रव्यथकी
अनंता द्रव्य । खेतथी जीवांकने । कालथकी
येकेक सिद्धारी आदि अंत नहीं तेघणां काल-
सिद्धारि न्याय येकेक सिद्धांगी आदि छै पण अंत
नहीं । ते थोडाकाल सिद्धारि न्याय भावथकी
अरूपी । गुणथकी आत्मिकसुख ॥

धर्मास्तिकायने पांचां बोलांकरी ओलखीजे । द्रव्य-
थकी येक द्रव्य । खेत थो लोक प्रमाणे । काल-
थकी आदि अंत रहित । भावथकी अरूपी ।
गुणथकी जीव पुद्गल ने चालवारो साभ ॥

अधर्मास्तिकाय ने पांचां बोलांकरी ओलखीजे ।
द्रव्यथकी येक द्रव्य । खेतथी लोक प्रमाणे । काल-
थकी आदि अंतरहित । भावथकी अरूपी । गुण
थकी जीवपुद्गलने थिर रहवानीं साभ ॥

आकास्ति कायने पांचां बोलांकरी ओलखीजे ।

द्रव्यथकी येक द्रव्य । खेतथकी लोक अलोक
प्रमाणे ।

कालयकी आदि अंत रहित । भावयकी अरूपी ।
गुणयकी भाजनगुण
काल नें पांचां बोलांकरी ओलखीजे ।

द्रव्ययकी अनन्ता द्रव्य । खेतथी अढाई द्वीप
प्रमाणे । कालयकी आदि अन्त रहित । भावय-
की अरूपी । गुणयकी वर्तमान गुण ।

पुद्गलास्तिकायनें पांचां बोलांकरी ओलखीजे ।
द्रव्ययकी अनन्ता द्रव्य । खेतथी लोक प्रमाणे ।
कालयकी आदि अन्त सहित । भावयकी रूपी ।
गुणयकी गलै मलै ।

इति दसं द्वारम् ।

॥ अथः येकादसं आज्ञा द्वार कहै छै

जीव आज्ञा मांही वाहर दोनूकै, ते किगन्याय
सावद्य कर्तव्य आसरी आज्ञा वाहर छै । अने निर्वद्य
कर्तव्य आसरी आज्ञा मांहकै ॥ अजीव आज्ञा मांह
के वाहर, अजीव आज्ञा मांह वाहर दोनू नहीं, ते
किगन्याय अजीवकै अचेतन छै जडकै ।

पुन्य पाप बंध येतीनू आज्ञा मांही वाहर नहीं
अजीवकै ।

आश्रव आज्ञा मांह वाहर दोनूकै, किगन्याय
आश्रवना पांच भेद मिरथ्याति १ अत्रती २ प्रमादी ३

कषाय ४ ए च्यार ते आज्ञा बाहरकै, जोग आश्रव
का दोय भेद सुभ जोग वर्ततां निर्जराहुवे तिण
अपेचाय आज्ञा मांहकै । असुभ जोग आज्ञा बाहर

संवर आज्ञा मांहकै, ते किणन्याय संवरथी कर्म
रुके ते श्री वीतरागकी आज्ञा मांहकै

निर्जरा आज्ञा मांहकै ते किणन्याय कर्म तोड-
वारा उपाय श्रीवीतराग की आज्ञा में छै

सोच आज्ञा मांह छै ते किणन्याय सकल कर्म
खपावारी करणी श्रीवीतरागकी आज्ञा मांहकै

इति एकादसम् द्वारं ।

॥ अथः बारसूचिनय द्वार कहै छै ॥

जीवनें जीव जाणवो ॥ अजीवनें अजीव जाणवो ।
पुन्यनें पुन्य जाणवो । पापनें पाप जाणवो । आश्रव
नें आश्रव जाणवो संवर नें संवर जाणवो । निर्जरा
नें निर्जरा जाणवो । बंधनें बंध जाणवो । सोच नें
सोच जाणवो । एह नव पदार्थ जाणवां योग कह्या
कै । इगां में आदरवाजोग ३ तीन, संवर १ निर्जरा
२ सोच ३ वाकी ६ छव छांडवा जोगकै ।

जीवनें छांडवा जोग किणन्याय कहौजेः—
आपरा जीवको भाजन करी किणी जीव ऊपर समत्व
भाव न करवो ।

अजीव छांडवा जोग किणन्याय कहीजे, किणौ
अजीव पर समत्व भाव न करवो

पुन्य पाप छांडवा जोग किणन्याय कहीजे
सुभ असुभ कर्म छांडवा जोगछै

आश्रव नै छांडवा जोग किणन्याय कहीजे
आश्रव कर्म ग्रहछै । कर्मारी उपायछै । सुभासुभ
कर्म आवाना बारणांछै ते छांडवा जोगछै

कर्मरोके ते संवर आदरवा जोगछै

देसथकी कर्म तोडी देसथकी जीव उज्जल थायते
निर्जरा आदरावा जोगछै

बंधनें छांडवा जोग किणन्याय कहीजे । शुभा
शुभ कर्म जीव के बंध रह्याछै ते बंध तो छोडवा-
जोगछै

मोक्ष नै आदरवा जोग किणन्याय कहीजे समस्त
कर्म मूकावे ते मोक्ष आनरवा जोगछै ।

इति द्वादस्य द्वार ।

॥ अथः तेरमूं तलाव द्वार कहे छे ॥

तलावरूपी जीव जाणवो । अतलाव ते तलाव
रूपी अजीव जाणवो । निकलता पांणी रूप पुन्य पाप
जाणवो । नालारूप आश्रव जाणवो । नाला बंध

रूप संवर जाणवो । मांहिला प्राणी रूप बंध जाणवो ।
खाली तलाव रूप मोक्ष जाणवो ।

यह तेरा द्वारतंत किया श्रीभीखनजीसंत

॥ इति तेराद्वार सम्पूर्ण ॥

अथ लघुदंडक लिख्यते ।

पहिलो शरीर द्वार ।

शरीर ५—श्रौदारिक १ वैक्रिय २ आहारिक ३ तै
जस ४ कार्मण ५” ।

सातो ही नारकी और सर्व देवतामें शरीर पावै
तीनः— वै क्रिय १ तैजस २ कार्मण ३

चार थावर, तीन विकलेंद्रीमें, तथा असन्नी
तिर्यंच, असन्नी मनुष्य, सर्वयुगलियामें शरीर पावै
३-श्रौदारिक १ तैजस २ कार्मण ३ ।

वाउकाय, सन्नीतिर्यंचपंचेंद्रोमें, शरीर पावै ४
श्रौदारिक १ वैक्रिय २ तैजस ३ कार्मण ४ ।

गर्भज मनुष्यामें शरीर पावै पांचूही ॥”

सिद्धांमें शरीर पावै नहीं ॥”

इति प्रथम शरीर द्वारम् ।

२ दूसरो अवगाहना द्वार ।

जघन्य अवगाहना आंगुलको असंगत्यात जं भाग
उत्कृष्टी हजार जोजन जाजेरौ ।

उत्तर वैक्रिय करैतो जघन्य तो आंगुलको संख्यात उं भाग, उत्कृष्टी लाखजोजनजाजेरी ।

पहली नारकी की अवगाहनां उत्कृष्टी ७॥
धनुष्य ६ आंगुलकी ।

दूजी नारकी की अवगाहनां साढी पंदरा १५॥
धनुष और १२ आंगुलकी ।

तीजी नारकी की अवगाहनां ३१ धनुषकी ।

चौथी नारकी की अवगाहनां ६२॥ धनुषकी ।

पांचवीं नारकी की अवगाहनां १२५ धनुषकी ।

छट्टी नारकी की अवगाहनां २५० धनुषकी ।

सातवीं नारकी की अवगाहनां ५०० धनुषकी ।

जघन्य सातूही नारकीकी आंगुलको असंख्यात उं भाग, उत्तर वैक्रिय करैतो जघन्य तो आंगुल को संख्यात उं भाग, उत्कृष्टी आप आपसूं दूणी ।

देवतांशी अवगाहनां ।

१५ परमाधामी १० भुवनपती, वानव्यंतरा, त्रिभूमखा, ज्योतषी, पहला, तथा दृजा देवलोककी अवगाहनां ७ सात हाथकी ।

तीसरा तथा चौथा देवलोक की ६ छव हाथकी
पांचवां तथा छठा देवलोक की अवगाहनां ५
पांच हाथकी ।

सातवां तथा आठवां देवलोक का देवतां की अवगाहनां ४ चार हाथकी । नवमां, दशमां, ग्यारवां, तथा बारवां की ३ तीन हाथकी अवगाहनां होय । ६ नवग्रहैवैग का देवांकी २ दोय हाथकी ।

चार अनुत्तर विमानका देवांकी अवगा० १ एक हाथकी ।

स्वार्थ सिद्धकी अवगाह० एक हाथ मठेरी होय । देवता उत्तर वैक्रियकरै तो जघन्य तो आंगुल की संख्यात ऊं भाग, उत्कृष्टी लाख जोजन जाभेरी अवगाहनां जाणो ।

वारवां देवलोक के ऊपरका देव वैक्रियकरै नहीं ।

चार थावर तथा असन्नीमनुष्यकी जघन्य, उत्कृष्टी आंगलकी असंख्यात वीं भाग ।

वनस्पतिकायकी अव० जघन्य तो आंगुल का असंख्यात मीं भाग, उत्कृष्टी हजार जोजन जाजेरी तेकमल फूलकी अपेक्षा ।

वेङ्गुकी की अव० १२ जोजनकी, उत्कृष्टी ।

तेङ्गुकी की अवगाहनां ३ कोसकी उत्कृष्टी ।

चौउरिन्द्रो की अवगा० ४ कोसकी, उत्कृष्टी ।

अने जघन्य सगले आंगल के असंख्यात वें भाग कहणी । तिर्यंच पंचेन्द्रो की अवगाहनां जगनती आंगुलनां असंख्यातमें भाग उतकृष्टी ।

- १ जलचर सन्नी असन्नी की १००० जोजन की ।
- २ थलचर सन्नी की ६ कोसकी, असन्नीकी प्रत्येक कोसकी ।
- ३ उरपर सन्नी की १००० जोजनकी, असन्नी प्रत्येक जोजन की ।
- ४ भुजपुर सन्नी की प्रत्येक कोसकी, असन्नीकी प्रत्येक धनुषकी ।
- ५ खेचर सन्नी असनी की प्रत्येक धनुषकी तिर्यंच पंचेन्द्रो उत्तर वैक्रिय करै तो जघन्य आंगुलके संख्यात में भाग उत्कृष्टी ६०० जोजनकी करे, मोटी अवगाहनांवालो उत्तर वैक्रिय करै नहीं। असन्नी मनुष्यनी अवगाहना जगन उत्कृष्टी आंगुलके असंख्यातमे भाग ।

॥ सन्नी मनुष्यकी अवगाहनां ॥

५ भर्ष ५ ऐरभर्षका मनुष्यांकी, अवसर्पणीके पहिले आरै लागतां ३ कोसकी उतरतां २ कोसकी, दूजे आरै लागतां २ कोसकी उतरतां १ कोसकी ३ तीजे आरै लागतां १ कोसकी उतरतां ५०० धनुषकी, चौथे आरै लागतां ५०० धनुषकी उतरतां ७ हाथकी पाचवें आरै लागतां ७ हाथकी उतरतां १ हाथकी,

छट्टे आरै लागतां ७ हाथकी उतरतां १ हाथ मठे
जाणवी ।

इसीतरें उत्सर्पणी में चढ़ती कहणी । वेक्रे लाग
जोजन की करें । ५ हेमवय ५ अरुणवयका युगलिय
की १ कोसकी, ५ हरिवास ५ रम्यक वास कांकी
कोसकी, ५ देवकुरु ५ उत्तर कुरुकांकी ३ कोसकी
महा विदेह खेत्रका मनुष्यांकी ५०० धनुषकी,

सिद्धांकी जघन्य १ हाथ ८ आंगुलकी उत्क
३३३ धनुष १ हाथ ८ आंगुल की ।

इति अवगाहनां द्वारं ।

३ तीसरो संघयण द्वार ।

संघयण ६ तेहनां नांव वच्च रिषभनाराच १ रिषभ
नाराच २ नाराच ३ अर्ध नाराच ४ केलको ५ छेवट
६ एवं ।

नारकी सर्व देवता में संघयण पावै नहीं,
५ धावर, ३ विकलेट्टी, असत्री मनुष्य, असत्री तिर्यं
में संघयण १ छेवटो गर्भेज मनुष्य, तिर्यं च में संघ
यण पावै, ६ छउ' हीं ।

युगलिया तिर्यं च मनुष्य में संघयण १ वच्चरूप
नाराच सिद्धांमें संघयण पावै नहीं ।

इति संघयण द्वारम् ।

४ चोथों संठाण द्वार ।

संस्थान ६ तेहनां नाम समचौरंस १, निगव परि-
मंडल २ सादिज ३ वावन्य ४ कुञ्ज ५ हुंडक ६

७ सात नारकी—

५ थावर, ३ विकिलेंद्री, असनी मनुष्य असनी
तिर्यंचमें संठाण हुंडक । तिगमें पांच थावरकी
विगत । पृथ्वी काय को चंद्र मसूरकीदाल अप्प
कायको बुद्ध,

तेज कायको सूईको करनालो ।

वाज कायको ध्वजा पताका ।

वनस्पतिका नाना प्रकारका ।

सर्व देवता सर्व युगलिया तथा चैसठ शलाका
पुर्यामें समचौरंस संस्थान,

गर्भेज मनुष्य तिर्यंचमें ६ छुडंही, सिद्धामें पावै
नही,

इति संठाण द्वारम् ।

५ पांचमूं कषाय द्वार ।

कषाय ४ क्रोध, मान, माया, लोभ । २४ दंडकमें
कषाय ४ पावै, मनुष्य अकषार्द्धपण्णहोय सिद्धामें
कषाय नहीं ।

इति कषाय द्वारम् ।

६ छट्टी संज्ञा द्वार ।

संज्ञा ४ आहार संज्ञा १ भय संज्ञा २ मैथन संज्ञा ३ परिग्रह संज्ञा ४।२४ दंडकामें संज्ञा ४ पावै मनुष्य असंज्ञी बहुता पणहोय, सिद्धामें संज्ञा नही ।

इति संज्ञा द्वारम् ।

७ सातमूं लेस्या द्वार ।

सात नारकी में पावै ३ मांठी (द्रव्य लेस्या लेखवी) तेहनी विगत ।

पहली दूसरी में पावै १ कापोत ।

तीजीमें कापोत वाला घणा नील वाला थोड़ा । चौथी में पावै १ नील ।

पांचमी में नील वाला घणां कृष्ण वाला थोड़ा, छठी में पावै १ कृष्ण ।

सातमी में पावै १ महाकृष्ण, भवनपति, वानव्यंतर, देवतां में लेस्या पावै ४ पद्म शुक्ल टली (द्रव्य लेखवी)

पृथ्वी अप्प वनस्पतिकायमें तथा सर्व युगलियां मे लेस्या पावै ४ प्रथम ।

तेज वाजकाय, ३ विकलेंद्री, असत्री मनुष्य, तिर्यच, मे लेस्या पावै ३ मांठी ।

जोतषी, पहला दूजा देवलोक तथा पहिला किल्बिषी में लेस्या पावै १ तेजू ।

तीजा चोथा, पांचवां देवलोक तथा दूजा किल्बिषी में पावै १ पद्म ।

तीजा किल्बिषी तथा छट्टा देवलोक सें स्वार्थ सिद्धताई पावै १ शुक्त । केतलाद्रक मनुष्य अलेसी पणहोय सिद्धां में लेस्या नहीं ।

सत्री मनुष्य तिर्यंच में लेस्या पावै ६ छउ'ही ।

इति लेस्या द्वारम् ।

८ आठमं इन्द्रिय द्वार ।

इन्द्री ५ श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रस, फरस एवं ५ ७ नारकी—सर्व देवता, गर्भेज मनुष्य गर्भेज तिर्यंच असत्री मनुष्य में इन्द्री ५ पावै । ५ थावरमें इन्द्री १ फरस पावै, वेदन्द्रिमें २ इन्द्री होय, फरस—रस, तेइन्द्रीमें ३ इन्द्री होय— फरस, रस, घ्राण, चउरिन्द्रीमें ४ होय श्रोत्रेद्री विना, । मनुष्य नो इन्द्रिया पणहोय सिद्धाकै इन्द्री होय ही नहीं ।

इति इन्द्रिय द्वारम् ।

नवमं समुद्घात द्वार ।

समुद्घात ७ वेदनी १ कषाय २ मारगान्त ३ वै-

क्रिय ४ तेजस ५ आहारिक ६ केवल ७ ।

७ सात नारकी वाजकाय में ४ पहली समुद्घात पावै, भुवनपति वानव्यंतर जोतषी वारवां देवलोकतांडिका देवता गर्भेज तिर्यंच में समुद्घात ५ आहारिक केवल ठली, ४ धावर ३ विकलेन्द्री असन्नी मनुष्य असन्नी तिर्यंच सर्व युगलिया वारवां से ऊपरका देवतामें समुद्घात ३ पावै पहली । गर्भेज मनुष्यां में समुद्घात ७ सातीं ही पावै । केवल्यां में १ केवल समुद्घात पावै, तीर्थकर समुद्घात करै नहीं सिद्धांकै समुद्घात नहीं ।

इति समुद्घात द्वारम् ।

१० दसमूं सन्नी असन्नी द्वार ।

सन्नी कै मन असन्नीकै मन होय नहीं ।

७ नारकी सर्व देवतागर्भेज मनुष्य, गर्भेज तिर्यंच युगलिया सन्नी होय । ५ धावर ३ विकलेन्द्री समूर्क्षिम मनुष्य समूर्क्षिम तिर्यंच ये असन्नी होय । मनुष्य नोसन्नी, नोअसन्नी पणहोय, सिद्धसन्नी असन्नी नहीं होय ।

इति सन्नी असन्नी द्वारम् ।

११ इग्यारमूं वेद द्वार ।

३—वेद स्त्री १ पुर्ष २ नपुंसक ३ ।

७ नारकी—५ थावर ३ विकलेन्द्री असन्नी मनुष्य असन्नी तिर्यंच में वेद १ नपुंसक होय । भव्रनपती वानव्यंतर जीतषी पहलो दूजो देवलोक पहला-क्विल्विषी, सर्वयुगलिया में वेद २ स्त्री तथा पुरुष होय । तीजा देवलोक सूँ स्वार्थ सिद्धताई वेद १ पुरुष होय । गर्भेज मनुष्य, गर्भेज तिर्यंच, में वेद ३ तीनू होय, मनुष्य अवेदो पणहोय सिद्धांके वेद नहीं ।

इति वेद द्वारम् ।

१२ वारमूं पर्याय द्वार ।

पर्याय ६ । आहार १ शरीर २ इन्द्रिय ३ श्वासी-श्वास ४ भाषा ५ मन ६ पर्याय एवं ६ ।

७ नारकी देवता में पावै ५ पर्याय ।

मनभाषा भेली लेखवी । ५ थावर में पर्याय ४ होय पहली, असन्नी मनुष्य में पर्याय ३॥, तीन तो पहली आधी में श्वासलेवै तो उश्वास नहीं, उश्वास लेवै तो श्वास नहीं, ३ विकलेन्द्री—समूर्किस तिर्यंच

पचेन्द्री में पर्याय ५ पावै मन टल्हो, सिद्धामें पर्याय पावै नही । सन्नी मनुष्य तिर्य'च से पावै ६ ।

इति पर्याय द्वारम् ।

तेरमूं दृष्टीद्वार ।

दृष्टी३ सम्यक्दृष्टी १ मित्थ्यादृष्टी २ समासिध्यादृष्टो३ एवं ३ होय ।

७ नारकी १२ वारमां देवलोक तांई देवता गर्भेज मनुष्य गर्भेज तिर्य'च में दृष्टी ३ तीनुं ही होय, ५ थावरमें असन्नी मनुष्य, में ५६ अंतरद्वीप का युगलियामें दृष्टी १ मित्थ्या दृष्टी पावै, ६ ग्रैवेकका देवतामें ३ विकलेंद्रीमें, असन्नी तिर्य'च पंचेंद्री से ३० अकर्म भूमिका युगलियामें दृष्टी २ सम्यक् १ मित्थ्या २ पावै, । ५ अनुत्तर विमानका देवता, सिद्धामें दृष्टो १ सम्यक् पावै ।

इति दृष्टि द्वारम् ।

१४ चौदमूं दर्शन द्वार ।

दर्शन ४ चक्षु १ अचक्षु २ अवधि ३ और केवल एवं दर्शन ४ जाणो ।

७ नारकी सर्व देवता गर्भेज तिर्य'चसे दर्शन ३ पावै चक्षु १ अचक्षु अवधि ३ । गर्भेज मनुष्यमें

दर्शन ४ होय ; ५ थावर वेङ्गुन्त्री, तेङ्गुन्त्री, समू-
र्क्षिम मनुष्य, सर्व युगलियांमें दर्शन २ चक्षु १
अचक्षु, २। सिद्धामें १ केवल दर्शन ही पावै ।

इति दर्शन द्वार ।

१५ पंदरमूं ज्ञान द्वार ।

ज्ञान ५ मति १ श्रुत २ अवधि ३ मन पर्यव ४
केवल ज्ञान एव ५ ।

७ नारकी सर्व देवता गर्भेज तिर्यंच में ज्ञान ३
पावै पहला । गर्भेज मनुष्यां मे ज्ञान ५ पावै । ५
थावर अमन्त्री मनुष्य ५६ अंतरद्वीप का युगलियामें
ज्ञान नहीं पावै । ३ विकलेन्द्री असन्त्री पंचेंद्रौ
तिर्यंचमें, ३० अकर्म भूमिका युगलिया मे ज्ञान
२ पावै । मति । श्रुति सिद्धामें १ केवल ज्ञान ही
पावै ।

इति ज्ञान द्वारम् ।

१६ सोलमूं अज्ञान द्वार ।

अज्ञान ३ मति अज्ञान १ श्रुत अज्ञान ३ विभंग
अज्ञान एव ३ ।

७ नारकी ८ ग्रैवेकतांडे का देवता गर्भेज तिर्यंच
गर्भेजमनुष्य में अज्ञान ३ ही पावै । ५ थावर ३

विकलेन्द्री, असनी मनुष्य, असनी तिर्य'च, पंचेन्द्री, सर्व युगलियामें अज्ञान २ पावे मति अ० १ श्रुत अ० २॥ ५ अनुत्तर का देवता में सिद्धामें अज्ञान पावे नहीं ।

इति अज्ञान द्वारम् ।

१७ योग द्वार ।

योग १५ मनका ४ सत्य मन १ असत्य मन २ मिश्र-मन ३ व्यवहार मन एव' ४। वचनका जोग ४ सत्य वचन १ असत्य वचन २ मिश्र वचन ३ व्यवहार वचन एव' ४। कायाका जोग ७ ओदारिक १ औदा-रिक को मिश्र २ वैक्रिय ३ वैक्रियको मिश्र ४ आहा-रिक ५ आहारिकको मिश्र ६ कार्मण ७ एव' १५ ७ नारकी सर्व देवता में योग पावे ११ मनका ४ वचनका ४ वैक्रिय ६ वैक्रियको मिश्र १० कार्मण सर्व युगलिया मे योग पावे ११ मनका ४ वचनका ४ ओदारिक ६ ओदारिकको मिश्र १० कार्मण । वाजकाय वरजीनें, ४ स्थावर असनी मनुष्यमें योग पावे ३ ओदारिक ओदारिकको मिश्र कार्मण वाउकायमें जोग पावे ५ ओदारिक १ ओदारिक को मिश्र २ वैक्रिय ३ वैक्रिय को मिश्र ४ कार्मण तीन

विकेंद्री असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री में पावै ४ ओदारिक
१ ओदारिक मिश्र २ व्यवहार भाषा ३ कामर्ण ४।
गर्भेज तिर्यंच में पावै १३ आहारिक आहारिकको
मिश्र टल्यो, गर्भेज मनुष्यां में पावै १५ ही, चौदमें
गुणठाणें अजोगी होय । सिद्धांमें जोग पावै नहीं ।

इति योग द्वारम् ।

१८ अठारमं उपयोग द्वार ।

७ नोरकी ६ नवग्रैवेगतांई का देवता गर्भेज
तिर्यंचमें उपयोग पावै ६ ज्ञान तो ३ मति श्रुति
अवधि, अज्ञान ३ मति अज्ञान श्रुति अज्ञान विभंग
अज्ञान, दर्शन ३ चक्षु अचक्षु अवधि ।

५ धावर में पावै ३ मति श्रुति अज्ञान तथा
अचक्षु दर्शन ।

असन्नी मनुष्य तथा ५६ अंतरद्वीप का युगलिया
में उपयोग पावै ४ मति श्रुति अज्ञान तथा चक्षु
अचक्षु दर्शन ।

वेङ्कट्टी तेंद्वन्ट्टीमें उपयोग पावै ५ मति श्रुति
ज्ञान मति श्रुति अज्ञान तथा अचक्षु दर्शन ।

चोरिन्द्री—असन्नी तिर्यं च पंचेन्द्री ३० अकर्म
भूमि का युगलियामें उपयोग पावे ६ मति श्रुति
ज्ञान मति श्रुति अज्ञान चक्षु अचक्षु दर्शन एव
६ । पांच अणूत्तर विमाण मे पावै ६ तीन ज्ञान
तीन दर्शन ।

गर्भेज मनुष्यां में उपयोग पावै १२ सिद्धां में
उपयोग पावै २ केवल ज्ञान १ केवल दर्शन २ ।

इति उपयोग द्वारम् ।

१९ उगणीसमूं आहार द्वार ।

उन्नीस दंडक का जीव तो छउंही दिशाको
आहार लेवे ।

पांच घावर तीन चार पांच छव दिशिको आ-
हार लेवे ।

केतला मनुष्य अणुआहारीक पण हीय सिद्ध
भगवंत आहार लेवे नही ।

इति आहार द्वारम् ।

२० वासिमूं उत्पत्ति द्वार ।

७ नारकी, आठवां देवलोक ताई का देवता
तेउ, वाऊ काय ३ विकलेन्द्री असन्नी मनुष्य तिर्यं च

सर्वयुगलियां में उत्पत्ति पावे गति २ की मनुष्य तिर्यंच ।

नवमां देवलोक से स्वार्थ सिद्धतांई का देवतामें उत्पत्ति पावे १ मनुष्य गतिकी ।

पृथ्वी अप्प बनस्पति काय में उत्पत्ति पावे ३ गतिकी (नारकी टली)

गर्भे जमनुष्य तिर्यंच में उत्पत्ति ४ चारूँ ही गतिकी ।

सिद्धांमें १ मनुष्य गतिकी ।

इति उत्पत्ति द्वारम् ।

२१ इकवीसमूं स्थिति द्वार ।

नारकी स्थिति

१ पहली नारकी की स्थिति जघन्य १० हजार वर्षकी उत्कृष्टी १ सागरकी ।

२ दूसरी नारकी को जघन्य १ सागरकी उत्कृष्टि ३ सागरकी ।

३ तीसरी नारकी की जघन्य ३ सागर उत्कृष्टि ७ सात सागरकी ।

४ चौथी नारकी की जघन्य ७ सागरकी उत्कृष्टि १० सागर की ।

५ पांचमी की जघन्य १० उत्कृष्टि १७ सागरकी
६ छठी नारकी की जघन्य १७ उत्कृष्टि २२
सागरकी ।

७ सातमी नारकी जघन्य २२ उत्कृष्टि ३३ सागर
भवन पति देवतांकी स्थिति—

दक्षिण दिशिका असुर कुमार की जघन्य १०
हजार वर्षकी उत्कृष्टि १ सागरकी, यांकी देव्यां
की जघन्य दस हजार वर्षकी उत्कृष्टि ३॥ पल्यो
पमकी ।

दक्षिण दिशिका ६ नौ निकायका देवतां की
जघन्य १० हजार वर्षकी उत्कृष्टि १॥ पल्योपम
की, यांकी देव्याकी जघन्य १० हजार वर्ष
उत्कृष्टी ॥ पौण पल्योपमकी ।

उत्तर दिशिका असुर कुमारकी जघन्य १० हजार
वर्षकी उत्कृष्टि १ सागर जाभेगी यांकी देव्यां
की जघन्य दस हजार वर्षकी उत्कृष्टि ४॥
साडा चार पल्योपमकी ।

उत्तर दिशिका ६ नौ निकायका देवतांकी ज-
घन्य १० हजार वर्षकी उत्कृष्टि दस उगीं दोय
पल्योपमकी देव्यांकी ज० १० हजार वर्षकी ।
उत्कृष्टि देश उगां १ पल्य० ।

वानव्यंतर देवतांकी स्थिति ।

जघन्य १० हजार वर्ष की उत्कृष्टि १ पल्योपमकी, यांकी देव्यांकी जघन्य दस हजार वर्ष की उत्कृष्टि ॥ आधा पल्योपमकी त्रिभूमका देवांकी भी दूतनी हीं ।

जोतषी देवांकी स्थिति ।

चन्द्रमांकी जघन्य पाव पल्योपमकी उत्कृष्टी १ पल्योपम १ एक लाख वर्ष अधिक, यांकी देव्यांकी जघन्य पाव पल्योपमकी उत्कृष्टि आधा पल्य ५० हजार वर्ष की, सूर्यकी जघन्य । पाव पल्योपमकी उत्कृष्टि १ पल्योपम १ हजार वर्ष अधिक, यांकी देव्यांकी जघन्य । पाव पल्यकी उत्कृष्टि ॥ आधी पल्य पांचसह वर्ष अधिक । ग्रहांकी ज० पाव पल्यकी उ० १ पल्यकी यांकी देव्याकी ज० पाव पल्य उत्कृष्टि ॥ आधी पल्योपमकी ।

नक्षत्राकी ज० पाव पल्य उ० ॥ आधी पल्यकी यांकी देव्यांकी ज० पाव पल्य, उत्कृष्टि पाव पल्य जाभेरो ।

तारांकी ज० पल्यकी आठमूँ भाग उ० पाव पल्यकी यांकी देव्यांकी ज० अधपाव पल्य उत्कृष्टि अधपाव जाभेरी ।

बैमानिक देवतां की स्थिति ।

१ पहला देवलोक में ज० १ पत्थोपम उत्कृष्टि २ सागर की, यांकी परिग्रहि देव्यांकी ज० १ पत्थ उ० ७ पत्थ, अपरिग्रहि देव्यांकी ज० १ पत्थ उ० ५० पत्थोपमकी ।

२ दूसरा देवलोक में ज० १ पत्थ जाभेरी उ० २ सागर जाभेरी, यांकी देव्यांकी ज० १ पत्थ जाभेरी उ० परिग्रही को ६ पत्थकी अपरिग्रही की ५५ पत्थोपम की ।

३ तीसरा देवलोकमें ज० २ सागर उ० ७ सागर की,

४ चौथा देवलोक की ज० २ सागर जाभेरी उत्कृष्टि ७ सागर जाभेरी ।

५ पांचवांकी ज० ७ सागर उ० १० सागरकी ।

६ छठ्ठा देवलोक का देवतांकी ज० १० सागर उ० १४ सागर की ।

७ सातवां की ज० १४ उ० १७ सागर की ।

८ आठमां की ज० १७ उ० १८ सागर की ।

९ नवमां की ज० १८ उ० १९ सागरकी ।

१० दसमां की ज० १९ उ० २० सागरकी ।

११ इन्द्रागमां की ज० २० उ० २१ सागरकी ।

- १२ बारवां की ज० २१ उ० २२ सागरकी ।
१३ पहिला ग्रैवेग की ज० २२ उ० २३ ।
१४ दूसरा ग्रैवेग की ज० २३ उ० २४ ।
१५ तीसरा ग्रैवेग की ज० २४ उ० २५ ।
१६ चौथा ग्रैवेग की ज० २५ उ० २६ ।
१७ पांचमां ग्रैवेग की ज० २६ उ० २७ ।
१८ छठ्ठा ग्रैवेग की ज० २७ उ० २८ ।
१९ सातमां ग्रैवेग की ज० २८ उ० २९ ।
२० आठमां ग्रैवेग की ज० २९ उ० ३० ।
२१ नवमां ग्रैवेग की ज० ३० उ० ३१ ।
२२ विजय, १ विजयन्त, २ जयन्त ३ ।
२५ अपराजिता, ४ ए च्यार अनुत्तर वैमानकी
ज० ३१ उ० ३३ सागर ।
२६ स्वार्थ सिद्धिका देवांकी ज० ३३ उ० ३३
सागर ।

नव लोकान्तिक देवतांकी स्थिति ८ सागरकी,
पांच स्थावरकी स्थिति ज० अंतर मुहूर्त्तकी
उत्कृष्टि पृथ्वी कायकी २२ हजार वर्षकी, अप्पकाय
की ७ हजार वर्षकी, तैउकायकी ३ दिन रातकी,
वाउकायकी ३ हजार वर्षकी, वनस्पति कायकी
१० हजार वर्ष की ।

तीन विकलेट्री की ज० अन्तर मुहूर्त की उत्कृष्टी वेङ्गुट्रीकी १२ वर्षकी, तेङ्गुट्रीकी ४६ दिन रातकी, चोङ्गुट्री की ६ महीनाकी । तिर्यंच पंचेङ्गुट्री की ज० अंतर मुहूर्तकी उत्कृष्टी जलचर की १ कोड पूर्व की, थलचर सन्नीकी ३ पल्योपमकी असन्नीकी ८४ लाख वर्षकी, जरपुर सन्नीकी १ कोड पूर्वकी असन्नीकी ५३ हजार वर्षकी, भुजपुर सन्नीकी कोड पूर्वकी असन्नी की ४२ हजार वर्षकी, खिचर सन्नीकी पल्योपमके असंख्यात मूं भाग असन्नीकी ७२ हजार वर्षकी । असन्नी मनुष्यकी ज० उ० अन्तर मुहूर्त की । सन्नी मनुष्य की स्थिति ।

५ भर्ष ५ एरभर्षका मनुष्यां की पहिली आरो लागतां ३ पल्यकी उतरतां २ पल्यकी, दूसरो लागतां २ पल्यकी उतरतां १ पल्यकी, तीसरो लागतां १ पल्यकी उतरतां कोड पूर्वकी, चौथो आरो लागतां कोड पूर्वकी उतरतां १२५ वर्षकी पांचमूं लागतां १२५ वर्षकी उतरतां २० वर्षकी छट्टो लागतां २० वर्षकी उतरतां १६ वर्षकी । उतसर्पणी कालमें इमहिज चडती कहणी पांच महाविदेह खेचांकी जगन अन्तर मुहूर्त उत्कृष्टि १ कोड पूर्वकी स्थिति ।

युगलियां की स्थिति

- ५ हैमवय ५ अरुणवयकां की जगनदेश उंणी एक पल्यकी उतकृष्टी १ पल्यकी ।
- ५ हरीवास ५ रम्यकवासकां की जगन देशउंणी दीय पल्यकी उतकृष्टी २ पल्यकी ।
- ५ देवकुरु ५ उत्तकुरुकां की जगनदेशउंणी तीन पल्यकी उतकृष्टी ३ पल्यकी ।
- ५६ अन्तर द्वीपका युगलियाकी पल्योपम की असंख्यात मू भागकी ।
- एक एक सिद्धांकी आदि नहीं अन्त नहीं एक एक की आदि छै पण अन्त नहीं ।

इति स्थिति द्वारम् ।

२२ मूं समोह्या असमोह्या द्वार ।

समोधातो समुद्घात फोडी ताणावेजो करी मरे, असमोह्या विना समुद्घाते गोलीका भडाकावत् मरे ।

२४ दंडकां का जीव दोनूं प्रकारका मर्ग करे ।

सिद्धामेमर्ग नहीं ।

इति समोह्या असमोह्या द्वारम् ।

२३ मूं चवन द्वार ।

६ नारकी आठमां देवलोक तांई का देवता पृथ्वी अप्य वनस्पति काय ३ विकलेन्द्री असन्नी मनुष्य में चवन दोय गतिकी मनुष्य तिर्यंच की ।

नवमां देवलोक सें स्वार्थ सिद्ध तांई का देवता में चवन १ मनुष्यकी सातमी नारकी में तथा तेज वाजमें चवन १ तिर्यंच गतिकी ।

गर्भेज मनुष्य तिर्यंच, असन्नी तिर्यंचपंचेन्द्रीमें चवन च्यारू हीं गतिकी युगलियामें चवन १ देव गतिकी सिद्धां मे चवन पावै नहीं ।

इति चवन द्वारम् ।

२४ मूं गतागति द्वार ।

पहिली सें छट्टी नारकी तांई गति २ दंडक आगति २ दंडकांकी मनुष्य तिर्यंच पंचेन्द्री, ।

सातमीं नारकी की आगति २ दंडककी मनुष्य तिर्यंच पंचेन्द्री की, गत एक तिर्यंचिकी जांगवी ।

भवनपति वानव्यंतर जोतपी पहिला दृजा देवलोक तथा पहिला किलवेपी देवतांकी आगत २ दंडकां की (मनुष्य तिर्यंच की) गति ५ दंडकांकी (तिर्यंच मनुष्य पृथ्वी अप्य वनस्पतिकी)

तीजा देवलोक से आठमां देवलोक तांई गता
गत २ दंडका की (मनुष्य तिर्य'च) नवमां देव-
लोकसे स्वार्थ सिद्धि तांई गतागत १ मनुष्य की,

पृथ्वी अप्य वनस्पति कायकी आगत २३ दंड-
कांकी (नारकी टली) गति १० दंडकांकी ५
स्थावर ३ विकलेन्द्री मनुष्य ६ तिर्य'च एवं १० की,

तेउ वाउकायमें आगत १० दंडकांकी, उपरवत्
गति ६ दंडकांकी मनुष्य टल्यो; ३ विकलेन्द्रीमें १० की
आगत १० की गति उपर वत् ।

असन्नी तिर्य'च पंचेद्री में आगति १० दंडकां
की उपर वत् गति २२ दंडकांकी जोतषी वैमानिक
टल्यो ।

सन्नी तिर्य'च पंचेद्रीमें आगति २४ की गति २४

असन्नी मनुष्य में आगत ८ दंडकांकी, पृथ्वी
अप्य वनस्पति तीन विकलेन्द्री मनुष्य तिर्य'च एवं
८ अनें गति १० दंडकांकी उपरवत् ।

गर्भेज मनुष्य में आगति २२ दंडकांकी तेउ
वाउ टल्यो, गति २४ दंडकांकी, ३० अकर्म भूमिका
युगलियां में आगति २ दंडकांकी मनुष्य तिर्य'च,
गति १३ दंडकांकी १० तो भवनपति का वान-
व्यंतर ११ जोतषी १२ वैमानिक १३ एवं ।

५६ अन्तर द्वीप का युगलिया में आगति २ दंडकां
की उपरवत् गति ११ दंडकांकी १० तो भवनपति
का १ वानव्यंतर को ११ ।

सिद्धामि आगति मनुष्य की गति नहीं ।

इति गतागत द्वारम् ।

२५ मूं प्राण द्वार ।

७ नारकी सर्व देवता गर्भज मनुष्य तिर्यंचमें
प्राण १० दसूंही पावै, ५ स्थावरमें प्राण ४ पावै
सपर्श इन्द्रीबल १ काया २ श्वासोश्वास ३ आउषो
४ एव ।

वेदुन्द्रीमें पावै ६ तेदुन्द्री में पावै ७ चौरिन्द्री
में पावै ८ प्राण ।

असन्नो मनुष्य में पावै ७॥

असन्नो तिर्यंच पंचेन्द्री में ६ मन टल्यो ।

१३ में गुणठाणे पावै ५ पांच इन्द्रियांका टल्यो ।

१४ में गुणठाणे पावै १ आउषोबलप्राण सिद्धामें प्राण
पावै नहीं ।

इति प्राण द्वारम् ।


२६ मूं योग द्वार ।

नारकी देवता मनुष्य सन्नीतिर्यंच युगलिया में
योग पावै ३ मन वचन काय का ।

पांच स्थावर असन्नौ मनुष्य में १ काया पावै ।
तीन विकलिन्द्री असन्नौ पंचेन्द्रीमें जोग पावै
२ वचन काया ।

केतला मनुष्य अयोगी होय सिद्धांमें जोग पावै
नहीं ।

इति लघु दंडकम् ।



अथः प्रतिक्रमण ।

अर्थ सहित ।

गमो अरिहंताणं गमो सिद्धाणं गमो
नमस्कार थावो श्री अरि- नमस्कार थावो श्री नमस्कार
हन्त भगवन्त नें सिद्ध भगवानं नें थावो
आयरियाणं गमो उवउभायाणं गमो लोए
श्री आचारज नमस्कार थावो श्री नमस्कार थावो
महाराज नें उपाध्याय महाराज नें लोक के बिखे
सब्ब साहुणां ।
सर्व साधु मुनिराजों नें ।

॥ अथ तिख्खुत्ता की पाटी ॥

* अर्थ सहित *

तिख्खुत्ता आयाहिणं पयाहिणं वंदामि नमं
तीन वार दाहिणापा प्रद्विचणा वंदना सत् नम
साधी देई कार करुं स्कार

सामी सत्कारेमी समाणेमी कल्याणं संगलं

करुं सत्कार देज सनमान करुं कल्याणकारी
मंगल कारी

देवयं चेईयं पञ्जुवासामी मत्यएण वंदामि

धर्म देव वित्त प्रसन्न सेवना करुं मस्तके करी वंदना
कारी ज्ञान नमस्कार
वंत करुं

इच्छामि पडिक्कमिउ इरिया वहीया ये

इच्छुं, बांच्छुं प्रतिक्रमवोते मार्गं नें विखे ज्यो
निवर्त्तवो

विराहणा ए गमणागमणे पाणकमणे

विराधना हुई जातां आतां प्राणी वेन्द्रीया टिनो
होय आक्रमण करणूँ ते
बद्यणूँ

वीयकमणे हरियकमणे उसा उत्तिंग पणग

बीजको दावणूँ हरि लीलीको ओसको कीडीका नीलण
दावणूँ विन्न फूलण

दग्ग मट्टी मक्कडा संताणा संकमणे जे

पाणी को माट्टीका मकडी का जाना मईवी तो जी
टावनी जीव इयाहोय

मे जीवा विराहीया एगेंदिया वेईंदिया

में जीव विराधो होय एकेन्द्री जीव वेइन्द्री जीव

तेईंदिया चउरिंदिया पंचेंदिया अभि

तेइन्द्री जीव चौइन्द्री जीव पंचइन्द्री जीव सनमुस

हया वक्तिया लेसिया संघाड्या संघ
 प्रातांहरणां धूलसे रगड्या घातन कल्या संघट्ट
 बरती करी टक्यां

ट्रिया परियाविया किलामिया उट्टविया
 कीथा परिताप्या कौलामना उपजाई उपद्रव किया

ठाणा उट्टाणां संकामिया जीवियाउ वव
 एक स्थानसे दूसरे स्थान पटक्या जीवत सें

रोविया तस्ससिच्छामि टूकडं ॥ १ ॥
 नांसकिया तेहनो मिच्छामि टूकडं ।

॥ अथ तस्सुत्तरी ॥

तस्सउत्तरी करणेणां पायच्छित्त करणेणां
 तेहनो उत्तर करवो प्रायश्चित् करवो
 प्रधान

विसोही करणेणां विसल्ली करणेणां
 विशुद्धि करवो मज्ज रहित करवो

पावाणां कम्भाणां निग्घाय गाट्टाए
 पाप कर्मका नास करवा निमित्त

ठामि करेमि काउस्सग्गं अन्नत्य
 स्थिर कहुँ कहुँ षाय उत्तर्ग इण सुजव
 दुई येतलो विसेस

उससिएणां नीमसिएणां खासिएणां छीएणां
 उँघाम्भाम नीनाम्भाम खंभी छीक

जंभाङ्गणं	उड्डुःयेणं	वाय निसग्गेणं	भमलीए
उवासी	डकार	अधोवायु	भंवल
पित्तमुच्छ्राए	सुहुमेहिं	अङ्गसंचालेहिं	
पित्तकर सूक्ष्मं	सुचमपणे	शरीरको हालवो	
सुहुमेहिं	खेलसंचालेहिं	सुहुमेहिं	दिट्टिसंचालेहिं
सुचमपणे	श्लेषको संचाल	सुक्ष्म	दृष्टी चलावो
एवमाङ्गणं	आगारेहिं	अभग्गो	अविवाही
इत्यादिक यह	आघार से	ध्यान भांगे नहीं	वीराधना
ऊ हुज्ज	से काउसगं	जाव	अरिहं
नहीं होव्यो	मने काउसगते	ध्यान जिहां तक	अरि
ताणं	भगवंताणं	नमोक्कारेणं	नपारेमि
हन्त	भगवन्तने	नमस्कार करीने	नहीं पारूँ
ताव	कायं	ठाणेणं	भाणेणं
तथाताइं	सरीरसे	स्थानसे	मोनकरी
अप्पाणं	वोसगामि	॥ इति	
आतमां ने	पापयकी वोसराऊं		

॥ अथ लोगस्स ॥

लोगस्स	उज्जीयगरे	धम्म	तित्थयरेजिणे
लोक के सिद्धे	उध्योतकारी	धर्म	तिर्थ करता जिन
अग्निहन्ते	कित्तइसं	अउवीसंपि	केवली
परिहन्ताकी	कीर्ति करूँ	चोत्रीम वे	केवली

उसभ मजियं च वंदे संभव मभिनंदणं च
 ऋषभ अजित पुनः वंदू संभवनाथ अभिनन्दनजी पुनः
 सुमद्रं च पउसप्पहं सुपासं जिणं च चंदप्पहं
 सुमति पुनः पदम प्रभुः सुपाख्वं जिन पुनः चंदा प्रभू
 नाथजी

वंदे सुविहिं च पुस्फदंतं सीयल सिज्जंस
 वंदू सुविध पुनः दूसरो नाम सीतल श्रेयांस
 पुप्फदंत

वासुपुज्जं च विमल मणं तंच जिणं धम्मं
 वासुपुज्य पुनः विमलनाथ अनन्तनाथजिन धर्मनाथ
 शंतिं च वंदामि ३ कुंधु अरिहं च मल्लिं
 शान्ति पुनः वंदू कुन्धु अरि पुनः मलिनाथ
 नाथ नाथ

वंदे मुंगिसुव्वयं नमि जिणं च वंदामि
 वंदू सुनिसुव्वत नमि जिन पुनः वंदू
 रिट्ठनेमि पासं तह वड्डमाणं च ४ एव
 परिठनेम पाख्वनाथ तथारूप वर्द्धमान पुनः वंदू यह
 सये अभिथुया विह्वय रयमला पहीण जर
 न सुति करी दूर किया कर्म रूप खीणभया जनम
 रंजमेल

सरणा चळ वींसंपि जिणवरा तित्य, यरा मे
 मणं जीनाका एड्ढवा वीवीम जिन राज तिर्थ कर न्हाणे पर

पसीयं तु ५ कित्तिय वंदिए महिया जे ये
प्रसनथावो कीर्तिकरी बंदू मोटा प्रति तेह ये
पुज्या ध्याया

लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वोहिलाभ'
लोकके विखे उत्तम सिद्ध छै रोग रहित समकित्
बोध लाभ

समाहि वर मुत्तमं दिंतुं ६ चंदेसु निम्नल
समाधि प्रधान उत्तम देवो चन्द्रमांथी निर्मल

यरा आद्रच्चेसु अहियं पयासयरा सागर वर
घणां सूर्यथी अधिक प्रकास कारी समुद्र समान

गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ७
गंभीर एहवा सिद्ध सिद्धी मनै देवो

॥ अथः नमोत्थुणं ॥

नमोत्थुणं अरिहंताणं भगवंताणं आद्रगराणं
नमस्कार थावो अरिहन्त भगवंत नै धर्म की आदि
करता

तित्थयराणं सयंसंवुद्धाणं पुरिसोत्तमाणं
तिर्थ करता विना गुरू पोते प्रति पुरुषामे उत्तम
बोध पास्यं

पुरिष सिंहाणं पुरिसवरपुंडरीयाणं पुरि
पुरुषामे निह समान पुरुषां मे पुंडरिक पुरुषां
करन समान नै

सवर गंध हृत्यीणं लोगुत्तमाणं लोगनाहाणं

गंध हाथी समान लोक में उत्तम लोकका नाथ

लोगहियाणं लोगपर्द्धवाणं लोगपञ्जीय गराणं

लोकमें हित लोकमें प्रदीप लोकमें उद्योत कारी
कारी समान

अभयदयाणं चक्रुदयाणं मग्गदयाणं सरणदयाणं

अभय दान ज्ञान चक्षु सुमार्ग दायक शरण दायक
दाता दायक

जीवदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेश

संजम जीत्व बोध दायक धर्म दायक धर्म देशनां
दायक

याणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवर

दायक धर्म का नायक धर्मका सारथी उत्तम धर्मकर

चाउरंत चक्रवट्टीणं दीवोताणं सरणगर्द्ध पड्ढा

चार गतिका अंतकारी चक्र हीपा समान शरणागत नै
वर्त समान

अप्पडिहय वरणाणं दंसणं धराणं विअट्टकउ

अप्रति हत प्रधानज्ञान दर्शन धारक निवर्त्ती

माणं जिगाणं जावयाणं तिन्नाणं तारयाणं

छदमस्य जीत्या अने जीतावे पोते तीम्हा दूसराने
पणो दृजाने तारे

बुद्धाणं बोहियाणं मुत्ताणं मोयगाणं सव्वनूणं

पोते प्रति दृजाने प्रति कर्मथी दुजाने सर्वज्ञान
बोध पाय्या बोधे मुक्काव्या मुक्कावे

सर्वदरित्रीणं शिवमयल मरुच्च मगत
 सर्व दर्शण कल्याणकारी अरुज अनन्त
 अचल

मक्त्रय मव्वावाह मप्युगारावती सिद्धिगर्द
 अक्षय अव्याव्याधि फेरु आवे नहीं इसी सिद्धगति
 नामधेयं ठाणं संपत्ताणं नमो जिगाणं । इति ॥

नामवाला स्थान प्राप्त हुवा ज्यां जिनेस्वराने
 नयस्कार थावो

अथ आवस्सही इच्छामिणं भंते ।

आवस्सही इच्छामिणं भंते तुव्भहिं अब्भणुं

अवश्य इच्छूं छूं में हे भगवान तुम्हारी आज्ञासे

नायेसमाणे देवसी पडिक्कमणुं ठाएमि देवसी

दिवस प्रति क्रमण करूं में दिवस
 संवन्धी संवन्धी

ज्ञान दर्शन चारित्र तप अतिचार त्रिंतवनार्थं

ज्ञान दर्शन चारित तप अतिचार चिन्तवना के
 शरथे

करेमि काउस्सगं ॥

करूं छूं में काउसगते ध्यान

अथ इच्छामि ठामि काउसगं ।

इच्छामि ठामि काउसगं जीं में देवसिउ अद्द

इच्छूं छूं, ठाऊं काउसग ज्यो में दिवसमें अति

यार कउ कार्दुउ वार्दुउ माणसिउ उरमुत्ती
 चार कीनीं शरीरसें वचन से मनसे भूँडा सूत्र
 उमगो अकप्यो अकरणिज्जो दुम्माउ दुव्वी
 उन मागं अकल्पनीक नहीं करवा जोग दुर ध्यान खोटी
 चिंतिउ अणायारो अणिच्छिअव्वो
 चिन्तवना अणाचार नहीं इच्छवा जोग
 असावगपावगो नाणे तहदंसणे चरिताचरिते
 आवक के नहीं कर ज्ञान दर्शन देश वर्त
 वा जोग पाप ते

व्रत भंगादि

सुये सामाइये तिएहं गुत्तीणं चउएहं कसायाणं
 श्रुत सामायक तीन गुत्ती चार कपाय
 पंचएहं मणुव्वयाणं तिएहं गुण वयाणं चउएहं
 पांच अणुव्वत तीन गुण व्रत चार
 सिख्खावयाणं वारस्स विहस्स सावग धम्मस्स
 सिखा व्रत वारै विधि आवक धर्म को
 जं खंडियं जं विराहियं तस्समिच्छामि
 ज्यो खंडिनाकरी ज्यो विराधना करी तेहनों मिच्छामि
 दुक्कडं ॥
 एकडं

॥ अथ खमासमणो ॥

इच्छामि खमासमणो वंदिउ जावणिज्जाए
 इच्छं कं, जमावंत माधू वंटवा सचितादिक्कांडी निपाप
 शरीरपणं दुई निर्जरा पणं

निस्सीहियाए अणु जाणह मेमि उगह' निस्सही

शरीर करी आज्ञा देवो मुजें मर्यादा, पशुभ जोग
मांही निवर्त तो

अहो कायं कायसंफासं खमणिज्जो भे किलामो

चर्ण' फर्सवाकी न्हांरी कायासें खपज्योहे भगवानं कौलामनां

आज्ञा देवो तुमारा चर्ण'
फरसतां

अप्पकिलंताण' बहुशुभेण भे दिवसोवईकंतो

थोही किलामना बहुत समाधि भावकर, दिवस वीत्यो

हुई हुवेते तुमारो

जत्ता भे जवणिउजंचभे खामिमि खमासमणो

संयम रूप इन्द्रीनोइन्द्रीना आपकुँ खमाज्जं हे चमावंत

यात्राथी तुमारा, उपशम थकी छँ साधु

निरोग शरीर '

देवसियं वड्कर्म आवसिआए पडिकमामि

दिवस सम्वंटी व्यतिक्रम अवश्य करणी नां पडिकमूँ छँ

अतिचार थकी

खमासमणाणं देवसियाए आसायणाए

हे चमावंत अमण दिवस संवन्धी आसातना

तेतीसन्नयणाए जं किंचिमिच्छाए मणदुक्कडाए

तेतीस मांजिनो ज्यो कोइ किंचित् मिथ्या मनमे' दुक्त

क्रियाकरी क्रिया

वयदुक्कडाए कायदुक्कडाए कोहाय माणाए
 वचन सें दुक्त काया से दुक्त क्रोधधी मानधी
 मायाए लोभाए सबकालियाए सब्बमिच्छोवराए
 माया कपट लोभकरी सर्व कान्धर्म सर्व मिथ्याउप
 चारक्रिया

सव्वधम्मादुक्कमणाए आसायणाए जो से देवमिउ
 सर्व धर्म क्रियाका एहधी आसातनाज्यो में दिवस ने
 उलंघन किया विखे

अइ शर कउ तरस खमासमणो पडिक्कमामि
 प्रति चार किया तेहनों हे क्षमावंत यमण निवर्तूँ कूँ
 निंदांमि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥ इति ॥
 निन्दूँ कूँ गरहूँ कूँ आतमांथो वोसराउ कूँ

अथः आगमे तिविहे पन्नत्ते ।

आगमे तिविहे पन्नत्ते तंजहा सुत्तागमे
 आगम तीन प्रकारे प्ररूप्यो ते कहै कूँ सूत्र आगम
 अत्यागमे तदुभयागमे ॥ एहवा श्रीज्ञान ने
 अर्थ आगम सूत्र अर्थ दोनूं आगम

विखे अतिचार दोष लाग्या होय ते आलोउ—

लंवाइधं वच्चांमेलियं हिनक्खरं अच्चक्खरं पयहीणं

जे कोई वचन मिलाया हीणपत्तर अधिक पद हीण
 डोग अक्षर

विणयहीणं जोगहिणं घोसहिणं सुट्ठुदिणं
 विनय हिण ते मन बचन उच्चारण चोखो सूत
 अविनय काया हीण दीनू भवनीतने

दुट्ठुपडिच्छियं अकालेकउ सिञ्जाउ काले
 खोटा सूतकी इच्छा विनाकाले सभाय करी सीभा
 करी यनां

न कउसिञ्जाउ असिञ्जाए सिञ्जाए सिञ्जाए
 कालमें सिभाय न असभाय में सिञ्जाय सिञ्जायमें
 करी करी

न सिञ्जाए भणतां गुणतां चितारतां चोखतां ज्ञानकी
 सिञ्जाय न करी

ज्ञानवंत की आशातनां करी होवे तस्समिच्छामिदुक्कडं ।
 तेहनो मिच्छामि दुक्कडं

अथः दंसणश्रीसमकित ।

दंसणश्रीसमकित अरिहंतो महदेवो जावजीवं
 सुधासरधना ते समकित, तेह अरिहत्त मांहिरे, जाव जीव-
 दर्शन देव नग

सुसाहुणो गुरुणो जिणपन्नतं तत्तं इयसम्मत्तं
 एह माधु गुरू जिन परूष्यो ते तत्व यइ समिकत
 धम्म

मए गहियं ।

मै यइणत्तियो

एहवासमकितने विषे जे कीर्दे अतिचार लाग्या होय ते आलोड', जिन वचन सांचा न सरध्या होय, न प्रतित्याहोय, न रुच्या होय, पर दर्शणरी आकांषा बंकाकिधी होय, फल प्रतेसंसह संदेह आण्यो होय, पर पाखंडी की प्रस'शा करी हुवे सास्वतो परिचय कीधी होय । एहवाश्री समकित रूपी रत्न उपरे मित्थ्यात्व रूप रंज मैल खेह लागी होय तस्समिच्छामि दुक्कडं ।

अथः बारै व्रत ॥

पहले अणुव्रत थूलाउ पाणाइवायाउ
 प्रथम देशधी व्रत मोटको प्राणाति पात को

विरमणं, व्रत पांच बोली करी उलखीजे, द्रव्यघकी
 निवर्तवी व्रत

तस जीव वेई'ट्री तेई'ट्री चउरिन्ट्री पंचेन्ट्री विन
 अपराधे आकुटी हणवानी विधी करीनें स उपयोग
 हणू नहीं हणाउ नहीं मनसा वायसा कायसा ॥
 द्रव्यघकी एहिज द्रव्य, खेत्रघकी सर्व खेवां मांहि
 कालयकी जावजीषलग, भावघकी राग द्वेष रहित
 उपयोग सहित गुणघकी संवर निर्जरा, एहवा म्हारे

पहला ब्रतनें विखे' जे कोइ अतिचार दोष लागो होय ते आलोउ' ।

चस जीवनें गाढे बंधन बांध्या होय १ गाढा घाव घाल्या होय २ चामडी छेदन किया होय ३ अति भार घाल्या होय ४ भात पाणीनां विच्छोहाकीनां होय ५ तस्स मिच्छामि दुक्कडं ।

दुजो अणुब्रत थूलाउ मूसावायाऊ विरमण'
बीजो अणु ब्रत स्थूलथी भूँट बोलवा निवर्त वो
पांचे' बोले करि ओलखीजे द्रव्यथकी कनालिक १

कन्याके ताँई भूँट

गोवालिक २ भौमालिक ३ थापण मोसो ४

गाय भैसादि भुंमि निमित्त लेकर नटथो

कारण भूँट भूँट

कूडीसाख ५

भूँटी साखी

इत्यादिक मोटको भूँट मर्याद उपरांत बोलूं नहीं बोलार्ड नहीं मणसा वायसा कायसा, द्रव्यथकी एही ज द्रव्य, खिद्यथकी सर्व खिद्यमें कालथकी जाव जीव लगे, भावथकी राग द्वेष रहित, उपयोग सहित, गुणथकी संवर निर्जरा, एहवा म्हारै दूजा ब्रतने विखे जे कोइ अतिचार दोष लागो होय ते आलाऊँ ।

किणी प्रते कूडो आलदियो होय १

रहस्य क्वानी वात प्रगट करी होय २

स्त्री पुरुषनां मर्म प्रकास्या होय ३

मृषा उपदेश दिधो होय ४

कूडो लेख लिख्यो होय ५. तस्म मिच्छामि दुक्कडं ॥

तीजे अणुव्रत थूलाउ अदिन्न दाणाउ विरमणं

तोजो अणु, व्रत थूलथकी अणुदीयो लेवो ते चोरीको
निवर्तवो

पांचे बोलि करी ओलखीजे द्रव्यथकी खावखणी
गांठखोली ताली पडकूंचीकरी वाटपाडी पडीवस्तु
मोटकी सधणियां सहित जांणी इत्यादिक मोटकीचोरी
मर्याद उपरांत करूं नहीं कराउं नहीं मनसा
वायसा कायसा द्रव्यथकी एहिज द्रव्य, खितयकी
सर्व खेत्रां में, कालथकी जाव जीवल्लगे, भोवथकी
राग द्वेष रहित, उपयोग सहित, गुणथकी सम्बर
निर्जरा एहवा म्हारै तीजाव्रतमें उघो कोई अति-
चार लागी होय ते आलीउ

चोरकी चुगई वस्तु लीधि होय १ चोरने सहाय
दीधो होय २ राज विरुद्ध व्योपार किधी होय ३
कूडा तोला कूडामापा कियाहोय ४ वस्तु मे भे
लसभेल किधी होय ५ सखरी दिग्वाय नखरी आपी
होय तस्म मिच्छामि दुक्कडं

चौथे अणुव्रत थूलाउ मेहुणाउ विरमण'
 चौथो अणु व्रत थूलथकी मैथुनथकी निवर्तवो
 पांचा बोलांकरी उलखिजे द्रव्यथकी तो देवता देवां-
 गनां सम्बन्धिया मैथुन सेवू नहीं सेवावू नहीं तिर्यंच
 तिर्यंचणी सम्बन्धी मैथुन सेवू नहीं सेवावू नहीं
 मनुष्य सम्बन्धी मैथुन सेवू नहीं सेवावू नहीं, मनु-
 ष्यणी सम्बन्धी मैथुन सेवाकी मर्याद कीधि छै तिण
 उपरांत सेवू नहीं सेवावू नहीं मनसा बायसा
 कायसा, द्रव्यथकी एहिज द्रव्य खेत्तथकी सर्व खेत्रमें
 कालथकी जावजीव लगे, भावथकी राग द्वेष
 रहित उपयोग सहित, गुणथकी संवर निर्जरा एहवा
 न्हारै चौथा व्रतमें वर्यो अतिचार दोष लागो होय ते
 आलोउ

थोड़ा कालकी राखी परिग्रही सुंगमन कीधो होय १
 अपरिग्रही सूगमन कीधो होय २ अनेक क्रिडा कीधो
 होय ३ परायानाता विवाह जोड्या होय ४ काम
 भोग तिव्र अभिलाषासे सेव्या होय ५

तस्म मिच्छामि दुक्कडं ॥

पंचमें अणुव्रत थूलाउ परिग्रहाउ विरमणं
 पांचमू अणुव्रत स्थूलथकी परिग्रहते धनको निवर्त वो
 पांचां वोलां करी ऊलखिजे द्रव्यथकी खेतु

ठघाड़ी जमीन

वत्थु यथा प्रमाण हिरण सुवर्ण यथा प्रमाण
 टकी जमीन जेह प्रमाण कीधो चांदी सोनांको जे प्रमाण कीधो
 धन धान यथा प्रमाण द्विपद चउप्पद यथा प्रमाण
 द्रव्य नाजनों जेह प्रमाण कीधो दासदासी हाथी घोड़ा, जे प्रमाण
 टिक चोपट कीधो

कुंभी धातु यथा प्रमाण ।

तां वो पीतल लोहादि नो जेह प्रमाण

द्रव्यथकी एहिज द्रव्य, खेतथकी सर्व खेत्रांमे
 कालथकी जावजीव लगे, भावथकी राग द्वेष
 रहित उपयोग सहित, गुणथको संवर निर्जरा एहवा
 म्हांरा पांचवां अणु व्रतमें ज्यों अतिचार लागा होय
 ते आलोउ', खेतु वत्थुरो प्रमाण अति क्रम्यु होय १
 हिरन्य सुवर्णरो प्रमाण अति क्रम्यु होय २ धन धानरो
 प्रमाण अतिक्रम्यु होय ३ द्विपद चउपदरो प्रमाण
 अतिक्रम्यु होय ४ कुम्भी धातुरो प्रमाण अतिक्रम्यु
 होय तस्समिच्छामि दृक्कडं ।

इति ।

कट्टो दिशि व्रत पांचां बोलां ओलखिजं द्रव्य
 थकी तो उंची दिशारो यथा प्रमाण, नीची दिशारो
 यथा प्रमाण, तिरछी दिशारो यथा प्रमाण, यां
 दिशारो प्रमाण कीधोतेह उपरान्ति जायकर पंच
 आश्रव द्वार सेऊँ सहीं सेवाउँ नही मनसा बायसा
 कायसा द्रव्यथकी तो येहिज द्रव्य खेतथी सर्व खिचां
 मैं कालथकी जाव जीवलग भावथकी राग द्वेष रहित
 उपयोग सहित, गुणथको संबर निर्जरा एहवा मांहरे
 कट्टा व्रतके विषे जे कोई अतिचार दोषलागो हुवे
 ते आलोउं ।

उंची दिशारो प्रमाण अति क्रम्यो होय १
 नीचीं दिशारो प्रमाण अति क्रम्यो होय २
 तिरछी दिशारो प्रमाण अति क्रम्यो होय ३
 एक दिशा घटाई होय एक दिशा बधाई होय ४
 पंथमें आघो सँदेह सहित चाल्यो चलायो होय ५
 तस्स मिच्छामि टूकडं ।

इति ।

सातमूं उपभोग परिभोग व्रत पांचा बोलांकरी ओल-
 खिजे, द्रव्यथकी क्वीस बोलांकी मरयाद् ते कहै छै
 उलणीयां विहं १ दंतगविहं २ फल विहं ३
 अंग पूकणादि विधि दांतग विधि फल विधि

अभिं गण विहं ४ उवट्टण विहं ५ मंजण विहं ६

तेलाभिं गादि उवट्टणादि की स्नानकी विधि
तेल मालिस विधि

वट्ठ विहं ७ विलेवण विहं ८ पुण्ण विहं ९

वस्त्र विधि विलेपन विधि पुण्य विधि

आभरण विहं १० धूप विहं ११ पेज विहं १२

गहणां पहरवा विधि धूपकी विधि दूध आदि
पीवाकी विधि

भख्खण विहं १३ उट्टन विहं १४ सूप विहं १५

सूखडी आदि चावन की विधि दालकी विधि
भक्षण की विधि

विगय विहं १६ साग विहं १७ महुर विहं १८

विगयकी विधि सागकी विधि मधुर तथा वैलादि फल

जीमण विहं १९ पाणी विहं २० मुखवास विहं २१

जीमणकी विधि पाणीकी विधि मुखवास तांबूलादि
की विधि

वाहण विहं २२ सयण विहं २३ पत्नी विहं २४

गाडी प्रमुखकी सोप्राकी विधि पगरखी की
विधि पाटा कुरसी आदिपर विधि

सच्चित्त विहं २५ द्रव विहं १६

सच्चित्त की विधि द्रव्यकी विधि

ए क्वावीस बोलांकी मथादि करी, जिण उपरान्ति
भोगजं नहीं मनसा वायसा कायसा, द्रव्यकी
यहिज द्रव्य, खेत्यकी सर्व खेत्यां, कालयकी जाव

जीवलग, भावथकी राग द्वेष रहित, उपयोग सहित
 गुणथकी सम्बर निर्जरा, ए हवा मांहरा सातमां व्रत
 के विधि जे कोई अतिचार दोष लागो हुवे ते आलोऊं
 पञ्चखाणां उपरान्त सचित्तरो आहार किनो होय १
 पञ्चखाणां उपरान्त द्रव्यरो आहार किनो होय २
 पञ्चखाणां उपरान्त गहिणां अधिकापहस्या होय ॥
 ॥ ३ ॥ पञ्चखाणां उपरान्त कपड़ा अधिका पहस्या
 होय ॥ ४ ॥

पञ्चखाणां उपरान्त उपभोग परिभोग अधिका भोग्या
 होय । तस्स मिच्छामि दूकडं ।

पंदरेकरमां दान जाणवा जोग छै पण
 आदरवा जोग नहीं ते कहै छै ।

दूंगालकम्मे १	वणकम्मे २	साडीकम्मे ३
अग्नि करी लूहा- रादि कर्म	वन कर्म ते बनमें घास, सकट कर्म ते दरखतादि काटवो	गाडीप्रमुखनो कर्म
भाडी कम्मे ४	फोडी कम्मे ५	दन्तवाणिज्जे ६
भाड़ा कर्म	लूपादि कर्म	दांतको बिणज ते नारेल सुपारी ते व्योपार
लखवाणिज्जे ७	रसवाणिज्जे ८	केसवाणिज्जे ९
नारेलको वाणिज्य	रस व्यापार ते घी, तैल सैतादि	वाल चमरादि व्योपार

विषवाणिज्जे १० जन्तु पिलण्यां कम्मे ११

जहरको व्यापार कल घाणी प्रमुख व्यापार

निलच्छणियां कम्मे १२ दवगीदावणियां कम्मे १३

कषी वधियादि कर्म ते दावानलदेवो कर्म

ज्यानवरानि बाधी कर्म

सर द्रह तलाव सोषणियां कम्मे १४ असंजद्व

सरोवर द्रह तलाव सोसाया ते कर्म असंजतीने

पोषणीयां कम्मे १५ ॥ इति ॥

पोखावा नो कर्म

ए पन्दरे कर्मादान मर्याद उपरान्ति सेया सेवाया

होय तस्म मिच्छामि दूक्कडं ॥ ॥ इति ॥

आठसूं अनर्थ दंड विरमण व्रत पांचा वोलांकरी
उलखिजे, द्रव्यथकी अवज्जाणचरियं १

भुंडा घ्यान नो आचरयो

पम्माय चरियं २ हंसपयाणं ३ पावकम्मोवएसं ४

प्रमाद करवो प्राण हिन्सा पाप कर्मको उपदेश

ए चार प्रकारे अनरथ दंड आठ प्रकारका आगार
उपरान्त सेउं नहीं ते कहें छे ।

आएहिउवा १ नाएहिउवा २ आघारिहिउवा ३

पापणे हित न्यातिके हित घरके हित

परिवारहिउवा ४ मित्तहिउवा ५ नागहिउवा ६

परिवार के हित मित्रके हित नाग देवता निमित्त

भूतहिउवा ७ जख्वहिउवा ८

भूत देवता जख देवता
निमित्त निमित्त

द्रव्यथकी येहिज द्रव्य खेचथकी सर्व खेतामें
कालथकी जाव जीव लग, भावथकी राग द्वेष
रहित उपयोग सहित, गुणथकी सम्बर निर्जरा,
यहवा म्हारा आठमां व्रत की बिखे जे कोई अतिचार
दोष लागोहुवे ते आलोउं ।

कांद्पर्णी कथा कीधी होय १ भंडकुचेष्टा कीधीहोय २
काम क्रिडाकी कथा को करवो भांडनीपरै कुचेष्टाकरि होय
मुखसें अरि बचन बोल्या होय ३ अधिकारण

मुखसे खोटा बचन बोल्या होय नाताजोडकर

जोड मुकाया होय ४ उपभोग परिभोग

तुडाया तथा स्त्री भरतार एकवार भोग, बारंवार भोग
नो विरह कीयो में आवै ते में आवै ते

अधिका भोगव्या होय ५ तसस मिच्छामि दूकडं
मर्याद उपरांत अधिक तो मिच्छामि दुकडं
भोग्या होय ते

इति ।

नवमो सामायक व्रत प्रांचां ब्रीलांकरो ओलखिजे
करेमि भन्ते सामार्द्धयं सावज्जं जोगं पञ्चखामी

करूं कूं में हे भगवंत सामायक सावध जोग पञ्च खाण

जाव नियम (महुरत एक) पञ्जवासामी दुविहिणं

यावत नियम एक महुरत ते सेऊं कूं दोय कर्ण

दोय घडी

तिविहेणं नकरेमी नकारवेमि मनसा बायसा
 तीन जोग नहीं करूँ नहीं कराजं मनसे वचन से
 कायसा तसभंत्ते पडिकमामि निन्दामी गरिहामी
 मरीरसे तिणसूँ हे पडिक मूँ कूँ निन्दूँ कूँ ग्रहणा ते
 भगवान निपेटूँ कूँ

अप्पाणं वोसरामि ॥

पाप से आतमानेवोसराजं कूँ

द्रव्यथकी कनैराख्या ते द्रव्य खेत्रथकी सर्व
 खेतामें कालथकी एक महुरत ताई भावथकी राग
 द्वेष रहित उपयोग सहित गुणथकी संवर निर्जरा
 एहवा नवमां व्रतके विखे जे कोई अतिचार दोष
 लागो हुवे ते आलोउ' ।

मन वचन कायाका साठा जोग प्रवर्तिया होय १
 पाडवा ध्यान प्रवर्तिया होय २ सामायक में समता
 नहीं करिहोय ३ अण पूगी पारी होय ४ पारवी
 विसाग्यो होय ५ तरस मिच्छामि टूकड' ।

इति ।

दसमीं देशाविगासी व्रत पांचां वोलांकारी ओलखिजे
 द्रव्यथकी दिन प्रते प्रभातधी प्रारंभीनें पुर्वादि छव
 दिसिरी मर्याद करी तिण उपरान्ति जाई पांच
 आश्रव द्वार सेजं नहीं सेवाउ' नहीं तथा जेतली
 भोमिका आघार राख्या तिणमें द्रव्यादिकरी मर्याद

करी जिण उपरान्ति सेउ' नहीं सेवाउ' नहीं मनसा
 बायसा कायसा द्रव्यथकी यहिज द्रव्य खेतथकी
 सर्व खेतामें कालथकी जेतलो काल राख्यो भाव
 यकी राग द्वेष रहित उपयोग सहित गुणथकी संबर
 निर्जरा एहवा म्हारै दसमा व्रतके विषे जे कीई
 अतिचार दोष लागोते आलोउ'

नवीं भूमिका बारली वस्तु अणार्द्ध होवे १ मुक
 लार्द्ध होवे २ शब्दकरी आपो जणायो होय ३ रूप-
 देखाइ आपो जणायो होय ४ पुद्गल नाखी
 आपो जणायो होय तस्स मिच्छामि दोकडं ।

इति ।

द्वजारमूं पोषद व्रत पांचां बोलांकरि ओलखिजे
 द्रव्यथकी ।

असाण पाण खादिम स्वादिमनां पच्चखाण
 आहार पाणी मेवादिक पान सुपारीदिक को पचखाण
 अवम्भनां पच्चखाण उमकमणी सुवन्ननां पच्चखाण
 मैथुन सेवाका त्याग बोसरायो हुयो रत्न सोनाका
 माला वणग बिलिवन नां पच्चखान
 पुष्पमाना गुलाल रंगादि चंदनादिक नो बिलेपनका त्याग
 सस्थ मुसलादि सावज्ज जोगरा पच्चखाण
 सस्त सूमलादिक सावध जोगका पच्चखान
 इत्यादि पच्चखाण, कने द्रव्यराख्या जिणा उपरान्ति

पंच आश्रव द्वार सेउ' नहीं सेवाऊ' नहीं मनसा
वायसा कायसा द्रव्यथी यहिज द्रव्य खेचथी सर्व
खेतामें कालथकी (दिवस) अहो रात्रि प्रमाण भाव
थकी राग द्वेष रहित उपयोग सहित गुणथकी संवर
निर्जरा एहवा महारे इन्नारमां व्रतकी विखे जे
कोई अतिचार दोष लागो होवे ते आलोउ' ।

सेज्जा संधारो अपडिलेहाहोय दुपडिलेहा
सोवाकी जगां विसतरो पडि लेहा नहीं होय आछीतरे' नहीं
होय १ अप्रमाज्या होय दुप्रमाज्या होय २
पडलेह नहीं प्रमान्या आछीतरे नहीं प्रमान्या
नाकरी

उच्चारपास वणरी भूमिका अपडि लेही होय दुपडि
छोटी वड़ी नितकी जमीन नहीं पडिलेही होय अथवा
लेही होय ३ अप्रमार्जी होय दुप्रमार्जी होय ४
पोसहमें निन्दा विकथा कषाय प्रमादकरी होय ५
तरस मिच्छामि दुक्कडं ।

इति ।

वारमूं अतिथि संविभाग व्रत पांचां वोलांकरी ओ-
लखिजे द्रव्यथकी ।

समणे निगंथे फासू एषणीज्जेणं असाणं १
असणं निययं नें फासुकं निटोषं आहारं
अचित्तं

पाणं २ खादिमं ३ स्वादिमं ४ वत्थ ५ पडिग्गह ६
 पांणी मेको लोंग सूपारी आदि वस्त पात्रो
 कांबलं ७ पाय पुच्छणं ८ पाडियारा ९ पौढ
 कांबलो पम पूच्छणं जाचीनें पाक्का पाट
 भोलाव ते

फलग १० सेज्यो ११ संघारो १२ ओषट् १३
 बाजोटादि जमीन जगां तणादिक १ दवाई
 भेषट् १४ पडिलाभमोणे विहरामि ॥

चूर्णादि प्रतिलाभ तो थकी विचरू
 घणीं मिली

द्रव्यादिक चौदे प्रकारनूं दान शुद्ध साधूनें देउं
 देवाऊं देवतां प्रतेभलो जाणूं मनसा वायसा कायसा
 द्रव्यथकी यहिज कलपतो द्रव्य, खेतथकी कलपै तर्के
 खेतमें, कालथकी कलपै जिन कालमें, भावथकी
 राग द्वेष रहित उपयोग सहित, गुण थकी संवर
 निर्जरा, एहवा म्हारा वारमां व्रत के विखै जे कोई
 अतिचार दोष लागो होवे ते आलोउं सृजती वस्तु
 सचित पर मेली होय १ सचित्तथी ठांकी होय २
 काल अतिक्रम्यो होय ३ आपणी वस्तु पारकी पारकी
 वस्तु आपणी किधी होय ४ भागौं बैठ साधू सा-
 ध्वीयांकी भावनां नहीं भावो होय तो मिच्छामि टुकडं।

अथः संलेखणा की पाटी ।

इह लोका संसह पउगो १ परलोकासंसह
यह लाककी जसकी तथा पर लोकमें सुखकी
द्रव्यादिक की इच्छा
पउगो २ जीविया संसह पउगो ३ मर्णाउ संसह
बंका जीवत की इच्छा मरण की
पउगो ४ काम भोगा संसहपउगो ५ मामु
इच्छा काम भोगकी इच्छा ए मुजने
ज्हुज्ज् मरणन्ते ।

मर्णान्त तक मत होज्यो । ॥ इति ॥

अथ अठारे पाप ।

प्राणातिपाप १ मृषावाद २ अदत्ता दान ३
मैथुन ४ परिग्रह ५ क्रोध ६ मान ७ माया ८ लोभ ९
राग १० द्वेष ११ कलह १२ अवाख्यान १३
पिसुन १४ पर परिवाद १५ रति अरति १६ माया
मुसो १७ मिथ्या दर्शन सत्य । इति

तस्स सव्वस देवसी यसस आयारस्स दुचिन्तियं दुभाषियं
ते सर्व दिवसमें अतिवार खोटी चिन्तवनां खोटी भाषा
दुचिन्तियं आलो यंते पडिक्कमामि निंदामि
खोटी चेष्टा कायाकी आलोउ तेह पडिक्कमेंउ निन्दू

गरिहामि अप्पाणं वोसरामि ॥

गृहणा करू पाप कर्मथी आतमा नें वोसराउं

अथः तस्सधम्मस ।

तस्स धम्मस केवली पन्नंतस्स अभुट्ट एमि
तेह धर्म केवली परूष्यो तेने विषे उठ्यो छूं
आराहणाए विरज्जमि बिराहणाए सव्वेतिविहेणं
आराधन निमित्त निवतूं छूं बीराधनाधी अतिचार सर्व
त्रिविध करी

पडिकंतो, बंदामि जिन चौबीसं ॥

पडिक मूं बांटूं छूं जिन चौबीस ।
छूं राज

इति ।

अथः मंगलिक ।

चत्तारि मंगलं अरिहन्ता मंगलं सिद्धा मंगलं
चार मंगलिक अरिहन्त मंगलं छै सिद्ध मंगलकारिक्कें
साहू मंगलं केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलं ॥
साधू मंगल केवली पन्नतो धर्म ते मंगल
चत्तारिलीग उत्तमा अरिहन्ता लीग उत्तमा
ए चार लोकमें उत्तम अरिहन्त लोकमें उत्तम
जाणवा

सिद्धा लीग उत्तमा साहूलोग उत्तमा केवली
दू सिद्ध लोकमें उत्तम साधू लोकमें उत्तम केवली
पन्नतो धम्मो लीग उत्तमा चत्तारि शरणं
परूष्यो धर्म ते लोक में उत्तम चार शरणं

पवञ्जामि अरिहन्ता शरणं पवञ्जामि सिद्धा
ग्रहणकरुं अरिहन्तो का शरणां ग्रहण करता हं सिद्धाका
शरणं पवञ्जामि साह्य शरणं पवञ्जामि केवली
शरणं लेता हं साधूका शरणहै केवली
पन्नत्तो धम्मो शरणं पवञ्जामि । च्यारीं शरणा
प्ररूपित धर्मका शरण ग्रहण करता हं
एसगा अवर न सगो कोय जे भव प्राणी आदरे
अक्षय अमर पद होय ।

इति ।

अथ देवसी प्रायश्चित ।

देवसी प्रायश्चित विसोद्धनार्थं करेमि काउस्सगं
दिवसनों प्रायश्चित सुद्ध करवाने अर्थे करुंछुं काउस्सग
॥ इति प्रतिक्रमथं ॥

अथः पडिक्रमणां करने की विधि ।

प्रथम चौबीस्यो करणो जिणामें

१ इच्छामि पडिक्रमेउ की पाटी । २ तस्सुत्तरीकी
पाटी । ध्यानमें इच्छामि पडिक्रमेउ की पाटी मनमें
चितारकर एक नवकार गुणनों । ३ लोगस्सुउज्जोगरे
की पाटी । ४ नमोयुणं की पाटी ।

१ प्रथम आवसग्ग सामाईक में ।

१ आवस्सई इच्छामिणं भंते ।

२ नवकार एक ।

३ करेमि भंते सामार्द्ध्यं ।

४ इच्छामि ठामी काउसग्गं ।

५ तस्सुत्तरी की पाटी ।

ध्यानमें ६६ नन्नाणमें अतिचार ।

आगमें तिविहे पन्नंते की पाटी तिणमें ज्ञानका
चवदे अतिचार ।

दंसण श्रीसमत्ते की पाटी तिणमें समकितका ५
अतिचार

बारे व्रतांका अतिचार ६० साठ तथा १५ पंदरे
कर्मदान ।

यह लोग सह सपउग्गकी पाटी अतिचार ५
सलेखणांका ।

अठारे पाप स्थानक कहणा ।

इच्छामि ठामि आलेउ जो मैं देवसी आया-
रकउ ए पाटी कहणी ।

एक नवकार कह पारलेणो ।

॥ इति प्रथम आवसग्ग समाप्त ॥

दूसरा आवस्सगकी आज्ञा ।

लोगस्सकी पाटी ।

॥ इति द्विजो आवस्सग समाप्त ॥

तीजा आवस्सगकी आज्ञा ।

दोय खमा समणां कहणा ।

॥ तीजो आवस्सग समाप्त ॥

चौथा आवस्सगकी आज्ञा ।

उभायकां ध्यानमें कच्चा सो प्रगट कहणा ।

८ आठ पाटी बैठायकां कहणी जिणांकी विगत ।

१ तस्स सब्बस्सकी पाटी ।

२ एक नवकार ।

३ करेमि भंते सामाद्दय्य की पाटी ।

४ चत्तारि मंगलकी पाटी ।

५ इच्छामि ठामी पडिक्कमेउ जो मैं देवसी ।

६ इच्छामि पडिक्कमेउ की पाटी ।

७ आगमें तिबिहे की पाटी ।

८ दंसण श्री समकीत्ते की पाटी ।

ये आठ पाटी कही, वारे व्रत अतिचार सहित
कहणा ।

पांच संलिखणा का अतिचार कहणा ।

अठारे पाप स्थानक कहणा ।

इच्छामि ठामी पडिक्कमेउ जो मैं देवसीकी पाटी
कहणी तस्स धम्मस केवली पन्नतस्सकी
पाटी, दोय खमासमणां कहणां ।

पांच पदांकी वंदना कहणी ।

सातलाख पृथ्वीकाय सातलाख अम्पकाय
इत्यादि खमत खामणांकी पाटी ।

॥ चौथो आवसग समाप्त ॥

पंचमा आवसगकी आज्ञालेई कहै ।

१ देवसी प्रायश्चित् विसोद्वनार्थ करेमिका-
उसगं ।

२ एक नवकार ।

३ करेमिभंते सामाईयं की पाटी ।

४ इच्छामि ठामि काउसगंकी पाटी ।

५ तस्मुतरीकौ पाटी ।

ध्यानमें लोगसु कहणांकी परमपराय रीतिसे ।

प्रभाते तथा सांभ वक्त ४ चार लोगसुकी ध्यान
पखीनें १२ वारे लोगसुकी ध्यान ।

चौमासी पखीनें २० बींस लोगसुकी ध्यान समत्स-
रीने ४० चालीस लोगसुकी ध्यान ।

ध्यान पारी लोगसुकी एक पाटी प्रगट कहणी ।

२ दीय खमासमणां कहणा ।

॥ इति पंचमू आवसग समाप्त ॥

छट्टा आवसगकी आज्ञालेई कहणा


तेहनी विगत ।

गयेकालनं पडिकमणों वर्तमान कालमें समता

आगमें कालका पचखाण यथा सक्ति करणां ।

सामार्द्र १ चौबोस्थो २ बंदना ३ पडिकमणो ४
काउसग ५ पचखाण ६ यां कृज्जं आवसग्गां में
जंची निची हिणी अधिक पाटी कही होय तस्स
मिच्छामि दुक्कडं ।

दोय नमोत्थुणां कहणां जिणमें पहिला में तो
सिद्धगई नाम धेयं ठाणं संपताणं नमो जिणाणं
दूजा नमोत्थुणां में सिद्धगई नाम धेयं ठाणं
संपवेकामी नमो जिणाणं ।



सक्तमन्त्रजो स्वांमीकृत

छन्द त्रोटक

मघवाहुंजसि रिभवारमुंनि, दुतिदिपरही कहैदेवटुनि ।
सुररिभत होतधनाद्यसही, गुरुदेवकृपासभएक नहीं ॥

अथःजिन आज्ञा ओलखावणको चौढालियो

दुहा ॥ षोड पाषंडि जैनरा । साधुनांम धराय ॥
 तेपापकहै जिनआज्ञामभे । कुडाकुहितलगाय ॥ १ ॥
 आहारपांणी साधु भोगवे । तेश्रीजिन आज्ञासहित ॥
 तिणमे प्रमादने अब्रतकहै । त्यांरी सरधाघणी बिपरीत
 ॥ २ ॥ बले वसत्र पात्र कांमलो । इत्यादिक उपध
 अनेक ॥ तेजिन आज्ञास्युंभोगवे । तिणमें पापकहै ते
 विना बिबेक ॥ ३ ॥ त्यांश्री जिनधर्म नहीं ओलख्यो ।
 जिन आज्ञापिण ओलखी नांह ॥ तिणस्युं अनेक
 बोलांतणो पापकहै । जिन आज्ञारिमांह ॥ ४ ॥ कहै
 नदी उतरे तिण साधुने । आज्ञादेजिन आप ॥ आ
 प्रतक्ष हिंसादेखल्यो । आज्ञाकै तोपिणपाप ॥ ५ ॥
 इत्यादिक अनेक बोलांमभे । आज्ञादेजिनराय ॥ जठे
 हिंसाहोवेकैजीवरी । तठे पापलागेकैआय ॥ ६ ॥ इम-
 कहीनेजिनआज्ञामभे । यापेपापएकंत ॥ हिवेओल-
 खाजं जिनआगन्यां । तेसुणज्योमतिवंत ॥ ७ ॥

* ढाल पहली *

(भवियण सेवोरे साधसयाणाएदेशी ।)

जे जे कारज जिन आञ्जासहितकै । तेउपयोग
 सहितकरेकीय ॥ तेकारजकरतां घातहोवेजिवारी ।
 तिणरोसाधुने पाप नहोयरे ॥ भवियणजिनआग-
 न्यांसुखकारी ॥ १ ॥ जीवांतणीघात हुइ साधुथी ।
 त्यांरोसाधुने पाप न लागे ॥ जिनआगन्यां पिणलीपी
 न कहिजे । बले साधुरोव्रतने भागेरे ॥ २ ॥ आ-
 इचर्यवाली बात उघाडी । काचारेहिये केमसमावे ॥
 जांजिनआग्या उलखी नहीं पूरी । ते जिन आग्या-
 मेपापबतावेरे ॥ ३ ॥ नदी उतरे जब सुधसाधुने ।
 आग्यादेशीजिन आप ॥ जोउनदी उतरतां पापहोवेतो ।
 आग्या दे त्यांने पिणपापरे ॥ ४ ॥ छदमस्थ साधु
 नदीउतरे जब । त्याने केवली आञ्जा दे सोय ॥ पोतेपिण
 केवली नदीउतरेकै । पाप हुसोतोदोयां नेहोयरे ॥ ५ ॥ जे
 नदी उतरेकै केवलज्ञानी । त्यांने पापने लागे लिगार ॥
 तो छदमस्थने पाप किण बिधलागे । आं दोयांरो एक
 आचाररे ॥ ६ ॥ छदमस्तने केवली नदीउतरेजब ।
 दोयांस्यु होवे जीवारी घात ॥ जो जीवमुवा त्यांरो
 पापलागेतो । दोयांने लागे प्राणातिपातरे ॥ ७ ॥ केवल

ज्ञानो नदीउतरेत्यानें पाप न लागेकोय । तो छद्-
 मस्थ साधु नदीउतरे जब । त्यांनि पिण पाप न
 होयरे ॥ ८ ॥ कोडू कहै केवलीने तो पाप न लागे ।
 नदी उतरतां जोगरहै सुध ॥ पिण छद्मस्थने पाप
 लागे नदीरो । आप्रतक्षवात विरुधरे ॥ ९ ॥ जिण
 विध केवली नदी उतरें जिम । छद्मस्थ जो उतरे
 नांहिं ॥ तो खामो छै तिणरे इर्या सुमतिमें ।
 पिणखामो नहीं कर्तव्य मांहिरे ॥ १० ॥ तेखामि पडेते
 अजाण पणोछै । इरिया बहि पडिक्रमणी थाप । बले
 इधकी खांमि जाणे इर्या सुमतिमें । तो प्राश्चित ले
 उतारे घापर ॥ ११ ॥ साधु छद्मस्थ नदि
 उतरेते कर्तव्य । - सावज म जाणोकोय ॥ जो
 सावजहोवितो संजम भांगे । विराधक रीपांत होयरे
 ॥ १२ ॥ आगे नदी उतरतां अनन्त साधाने
 उपनोछै केवलज्ञान ॥ त्यांनदी मांहि आउषो पूरो-
 करीने । पोंहता पंचमौगति प्रधानरे ॥ १३ ॥ कीडू
 कहै साधुनदी उतरे त्यांरे । इतरी हिंसारोछै आगार ॥
 तिणरो पाप लागे पिणव्रत न भांगे । इमकहैते
 मुढ़ गिवाररे ॥ १४ ॥ जो साधुरे हिंसारो आगार
 होवितो । नदी उतरतां मोक्षन जावे ॥ हिंसारो
 आगारने पाप लागे जब । चौवदमी गुणठाणीं न

आविरे ॥ १५ ॥ कोद्र कहै नदी उतरे जब साधुने ।
 लागे असंग्य हिन्सा परिहार ॥ तिणरो प्राश्चित लियां
 बिनसुध नहीं छै । द्रम कहै तिणरेहिय छै अंधाररे
 ॥ १६ ॥ जो नदि उतखारो प्राश्चित बिनलीधां । ते
 साधु सुध नहीं थावे ॥ तो नदी मांहि साधु मरे ते
 असुध छै । ते मोक्षमांहि क्युंकर जावरे ॥ १७ ॥
 साधु नदी उतखां मांहि दोष हुवे तो । जिन आगन्यां
 देनाहीं ॥ जिन आगन्यां दे तिहां पाप नहीं छै ।
 थे सोच देखो मनमांहिरे ॥ १८ ॥ नदी उतरेत्यारो
 ध्यान किसो छै किसी लेस्या किसा परिणाम ॥
 जोग किसा अथवसाय किसा छै । भलाभुंडा पिछाणों
 तांमरे ॥ १९ ॥ एपांचुं भलाछै तो जिन आज्ञाछै ॥ माठामें
 जिन आज्ञा नकोथ ॥ पांचुंमाठास्युं तो पाप लागेछै ।
 पांचु भलास्युं पाप न होयरे ॥ २० ॥ छदमस्थने
 केवली नदी उतरेजब । लारेछदमस्थ केवली आगे ॥
 छदमस्थ उतरेछै केवलीरी आज्ञास्युं । त्यांने पाप
 किसै लेखि लागेरे ॥ २१ ॥ जिन सांसणचार तिर्थ
 मांहिं । जिन आगन्यां छै मोटी ॥ कोद्र जिन
 आगन्यां मांहिं पाप बतावे । तिणरी सरधा छै
 खोटीरे ॥ २२ ॥ दवरो दाधो जाय पड़े जल
 मांहि । पिण जलमांहि लागी लाय ॥ तो किसी

ठोड वी करे ठंडाइ । किसी ठोड साताहोवे
 तायरे ॥ २३ ॥ ज्यु जिण आज्ञा मांहि पाप होवेतो ।
 किणरी आज्ञामांहे धर्मी ॥ किणरी आज्ञापाल्या
 सुधगति जावे । किणरो आज्ञास्युंकटे कर्मारे ॥
 २४ ॥ छांटां आवेछै तिणमांहे साधु । मातरो
 परठे दिसां जावे ॥ तिणरे छै पिणजिनजीरी
 आज्ञा । तिणमें कुंण पाप बतावरे ॥ २५ ॥ साधु
 राते लघु बड़ी नीत दोनूं हीं । परठण जावे
 अछांहि ॥ बले सिज्याय करे रातेयांनक वारे ।
 जावे आवे अछायां मांहारे ॥ २६ ॥ इत्यादिक
 साधु राते काम पड़े जब । अछायां आवेने जावे ॥
 तिणने पिणछै जिनजीरी आज्ञा । तिणमें कुंण पाप
 बतावरे ॥ २७ ॥ राते अछायां अपकाय पड़ेछै ।
 तिणरी घात साधु धीथाय ॥ ओपिण न्याय नदी
 जिम जाणो । तिणने पाप किसी विधथायरे ॥ २८ ॥
 नदी माहिं बहती साधवी ने । साधु राखे हात
 संभावे ॥ तिणमाहिं पिण छै जिनजीरी आज्ञा ।
 तिणमें कुंण पाप बतावरे ॥ २९ ॥ इयां सुमत
 चालतां साधु सुं । कदा जीव तणी होवेघात ॥
 तेजीव मुवारो पाप साधुने । लागे नहीं अंसमातरे ॥
 ३० ॥ जोइयां सुमत विना साधु चाले ।

कदा जीव मरे नवि कोय ॥ तोपिण साधुने हिन्सा
 छुडं कायरी लागे । कर्मतणीं बंध होयरे ॥ ३१ ॥
 जीवमुवा तिहां पाप न लागो । नमुवा तिहां
 लागो पाप ॥ जिण आग्या संभालो जिण आग्या
 जोवो जिण आज्ञामें पाप म थापोरे ॥ ३२ ॥ जब
 कोद्र कहै गृहस्थी हाल्यां चाल्यां बिण साधुने किम
 बहरावे ॥ हालण चालणरी तो नहीं जिन आज्ञा ।
 चाल्यांबिण तो बहरावणीं नावेरे ॥ ३३ ॥ बैठो
 होवे तो उठ बहरावे । उभो होवे तो बैठ बह-
 रावे ॥ बैठन उठनरी तो नहीं जिन आगन्यां ।
 तो बारमों व्रतकेम निपजावेरे ॥ ३४ ॥ जो जिन
 आज्ञा वारे पाप होवेतो । हालण चालणरो पाप
 थावे ॥ सोधाने बहरायांरो धर्मते चौवडे । कोद्रद्रसडी
 चरचा ल्यावेरे ॥ ३५ ॥ कोद्र कहै चालणरी तो
 जिन आज्ञा नाहीं । तोहीचाल बहरायांरो धर्म ॥
 जिण आगन्याबिन चाल्यो तिणने । लागो नहीं पाप
 कर्मरे ॥ ३६ ॥ द्रणविध कुहेत लगावे अज्ञानी । धर्म
 कहै जिन आग्यावारो ॥ हिवेजिन आगन्यांमांहे धर्म
 सरधणरा । थेजावहिया मांहे धारोरे ॥ ३७ ॥ मन
 वचन कायारा जोग तीनूं हिं । सावद्य निर्वद्य
 जांग ॥ निर्वद्य जोगांगे श्रीजिनआज्ञा । तिणरी

करजो पिछाणरे ॥३८॥ जोग नाम व्यापार तणों छै ।
 तेभलाने भुंडा व्यापार ॥ भला जोगांरी जिन
 आज्ञा छै । माठा जोग जिन आगन्यांवाररे
 ॥३९॥ मन वचन काया भला ब्रतावो गृहस्थने
 कहै जिन रायो । ते कायाभणी किण विध प्रवर्ता
 वे । तिणरो विवरो सुणों चित लायोरे ॥४०॥
 निर्वद्य कर्तव्यरी छै श्रीजिन आग्या । तिणकर्तव्यने
 काया जोग जाणे ॥ तिण कर्तव्यरो छै श्रीजिन
 आग्या । तिण कर्तव्यने करो आगीवाणरे ॥४१॥
 साधाने आहारहातांस्युं बहरावे । उठ बैठ बहरावे
 कोय । ते बहरावणरो कर्तव्य निर्वद्य छै । तिण
 में श्री जिन आगन्यां होयरे ॥४२॥ निर्वद्य कर्तव्य
 गृहस्थी करेछै । त्याने आगन्यां दे जिनराय ॥ ते
 कर्तव्य तो काया स्युं करसी । पिण नकहै थे चला
 वो कायरे ॥४३॥ निर्वद्य कर्तव्यरी आगन्यां
 दिधां । पाप न लागे कोय ॥ हालण चालणरी
 आगन्यां दिधां । गृहस्थ स्युं संभोग होयरे ॥४४॥
 बेसी सुवो उभो रहो नै जावो । गृहस्थ ने माधु न
 कहै आम ॥ दममिकालकरे सातमें अर्धैन ।
 सैंतालीसमीगाया मैतांमरे ॥४५॥ उभारो कर्तव्य
 वेठारो कर्तव्य । करणों कहै जिन राय । पिण

बैठन उठन रोनही कहै गृहस्थ ने । ये विचार
 देखो मन मांथरे ॥४६॥ निर्बन्ध कर्तव्य री
 आगन्यां दिधां । निर्बन्ध चाल वो तेमांह आयो
 कर्तव्य छोड़ने चालगरी आग्या देवे तो गृहस्थरो
 संभोगी थायोरे ॥४७॥ गृहस्थरे दुवार पड्यो कप-
 ड़ादिक । जब साधु सुंजाणीनावे मांहि ॥ जब कोई
 गृहस्थ भेलो करे कपड़ादिक । साधुने मारग देवे
 ताहिरे ॥४८॥ साधाने मारग देवे जावण आवणरो ।
 ते कर्तव्य निर्बन्ध चोखो ॥ जो कपड़ादिक रेकांम
 भेलो करे तो सावद्य काम छै दोखोरे ॥४९॥
 तिणस्युं साधु कहै गृहस्थने । म्हाने जायगां दो
 जावामांहि ॥ पिण कपड़ादिक भेलो करो सां
 वटने । इसडौनकाडेवाइरे ॥५०॥ गृहस्थरो उपध
 करे आगो पाछो । बैसायवा सोयवादिकरे काम ॥
 ते पिणकर्तव्य निर्बन्ध जाणो । नहीं उपधउपर परि-
 णामरे ॥ ५१ ॥ केइ श्रीजिन आगन्यां बारे
 अज्ञानी । धर्म कहै छै ताम ॥ ते भोला लोकाने
 भर्ममे पाड़े । लेइ अनेक वोलारो नाम रे ॥ ५२ ॥
 श्रावकरी मांहों मांहि करे वियावच ।
 बलेसाता पुछै नै पुछावे । तिणमें श्री जिन आसां
 मुलन दिसै । तिण माहे धर्म बतावेरे ॥ ५३ ॥

श्रावकरी मांहे माहेव्यावचकीधी । तिणदीयो सरी
 ररो साज । क्वकायारो ससवतिखोकिधो । तिण
 स्युं आग्या न दे जिनराजरे ॥ ५४ ॥ गृहस्थीरी
 व्यावच किधीतिणरे । अठाइसमुं अणाचार ।
 साता पुक्यांरो अणाचार सोलमुं । तिणमें धर्म
 नहीं क्हे लिगार रे ॥ ५५ ॥ सरीरादिक ने श्रावक
 पुंजे । मातरादिक ने परठेपुंजे । इत्यादिक
 कारजरी नहीं जिन आज्ञा । धर्म कहै त्यांने सब
 लो न सूजेरे ॥ ५६ ॥ सरीरपुंजे मातरादिक परठे ।
 तेतो सरीरादिकरो क्हे काज । जो धर्म तणोंए
 कार्य हुवेतो । आगन्यां देता जिनराजरे ॥ ५७ ॥
 जो पुंजणीं परठणोनकरेजावक । तो काया धिरं
 रखणी एक ठाम । पिण हस्तादिकने विण चलायां
 रहणी नावे तामरे ॥ ५८ ॥ लघुवडी नीत तणी
 अवाधा । खमणी ठमणी न आवे ताम । पुंजे
 परठे तोइ सावद्य कर्तव्य क्हे । जिन आज्ञारो न
 विकामरे ॥ ५९ ॥ कदा थोडिबुध त्यांने समज न पडे ।
 तो । राखणी जिण प्रतीत आगन्यां मांहे पाप
 आज्ञा वारे धर्म । इसडी न करणी अनितरे ॥ ६० ॥
 जिण आगन्यां मांहे पाप कहै क्हे । ज्यारिमत
 घणी क्हे माठी । जिण आगन्यां वारे धर्म कहै क्हे

त्यारे आइ अकल आडी पाटीरे ॥ ६१ ॥ जिन
आगन्यां मांहे पाप कहतां । मुख मुल न लाजे ।
बले धर्म कहै जिन आगन्यां वारे । ते पण्डित
पाषंडियां मे वाजेरे ॥ ६२ ॥ जिन आगन्यां मांहे
पाप कहै छै । ते बुडे छै कर कर ताणों । बले
धर्म कहै जिन आगन्यां वारे । तेतो पुरा छै मुठ
अजाणोरे ॥ ६३ ॥ समत अठाराने वर्ष डकताले ।
जेठ सुद तीजने सुक्रवारे । जिन आगन्यां उलखा-
वण काजे । जोड किधी छै पर उपगार रे ॥ ६४ ॥

॥ दुहा ॥ जिण सांसणमें आत्ता बडी । उलष
तेबुधवान । ज्यांजिण आत्ता नविउलषी । तेजीव
छै विकल समान ॥ १ ॥ दोय करणी संसारमें ।
सावद्य निर्वद्य जाण । निर्वद्यमें जिण आगन्यां ।
तिण सुं पामैपद निर्वाण ॥ २ ॥ सावद्य करणी संसार
नी । तिणमें जिन आगन्यां नहीं होय । कर्म बंधे
छै तेहथी । धर्म मजाणों कोय ॥ ३ ॥ किहां २
छै जिण आगन्यां । किहां २ आगन्यां नांह ॥ बुध
वंत करो बिचारणां । निरणीं करो घट मांह ॥ ४ ॥

॥ ढालदुजी ॥

(हुं बलिहारि हो ओ पुन्यजी रेनामरी एदे शी)

कोइ करे पच्चखाण नौकारसी । तिणरी आग-
 न्यांदो जिन आप हो ॥ स्वामीजी ॥ कोइ दान दे
 लाखां संसारमें । पुक्यां आप रहो चुप चाप हो ॥
 स्वामोजी हुं बलिहारी हो । हुं बलिहारी हो श्री
 जिनजीरी आगन्यां ॥ १ ॥ जिण आजा सहित नौ-
 कारसी । क्रीधां कटे सात आठ कर्म हो ॥ स्वा०
 कोइ दान दे लाखां संसार में । तेतो आपरो
 भाष्यो नही धर्म हो ॥ स्वा० ॥ हुं ॥ २ ॥ अन्तर
 महरत त्यागे एक भुंगडो । तिणरी आगन्यां दो
 जिनराज हो ॥ स्वा० । कोइ जीव कुडावे लाखां
 दाम दे । तठे आप रहो मौन साभ हो ॥ स्वा० ॥ हुं
 ॥ ३ ॥ अन्तर महरत त्यागे एक भुंगडो । तेतो
 आपरो सीखायो क्वै धर्म हो ॥ स्वा० । तिणस्युं कर्म
 कटे तिण जीवरा । उतकृष्टोपामे सुख परमहो ॥
 स्वा० ॥ हुं ॥ ४ ॥ कोइ जीव कुडावे लाखां दाम दे ।
 तेतो आपरो सीखायो नही धर्म हो ॥ स्वा० । ओ तो
 उपगार संसार नीं । तिणस्युं कटता न जाख्यां
 आप कर्म हो ॥ स्वा० ॥ हुं ॥ ५ ॥ कोइ माधाने वह

रावे एक तिणषलो । तिणरी आज्ञा दो आप
 साख्यात हो ॥ स्वा० । कोडू श्रावक जिमावे कोडांग
 में । तिणरी आज्ञा नदो असमात हो ॥ स्वा० ॥ हुं
 ॥ ६ ॥ साधांने बहरावे एक तिणषलो । तिणरे
 वारमुं व्रत कछ्यो आप हो ॥ स्वा० । तिणस्युं आज्ञा
 दीधी आपतेहने । बले कटता जाण्यो तिणरा
 पाप हो ॥ स्वा० ॥ हुं ॥ ७ ॥ कोडू श्रावक जीमावे
 कोडानिवतने तेतो सावद्य कामीं जाण्यो आप हो ।
 स्वा० । उण क्वकाय शस्त्र पोषियो । तिणने
 लागो छै एकंत पाप हो ॥ स्वा० ॥ हुं ॥ ८ ॥ कोडू
 करे व्यावच श्रावकां तणी । तठे पिण आपरे छै
 मौन हो ॥ स्वा० । उण तीखो कीधी छै शस्त्र क्व-
 कायनो । ते कर्तव्य जाण्यो आप जबुन हो ॥ स्वा०
 ॥ हुं ॥ ९ ॥ कोडू उघाडे मुख भणे छै सिधन्तने ।
 कोडांगमे गुणे छै नवकार हो ॥ स्वा० । तिणमें
 आपतणी आगन्यां नहीं । तिणमें धर्म न सरधुं
 लिगारहो ॥ स्वा० ॥ हुं ॥ १० ॥ उघाडे मुख गुणे
 छै नवकारने । तिण वाउकायमाखा असंख्य हो
 ॥ स्वा० । तिणमें धर्म श्रधे ते भोला थका । त्यांरे
 लागा कुगुरांराडंक हो ॥ स्वा० ॥ हुं ॥ ११ ॥ जैणां
 स्युं गुणे एक नवकार ने । तिणस्युं कोड भवांग

कटे कर्म ही ॥ स्वा० । तिणमें आप तणी छै आग-
 न्यां । तिणरे निश्चै ही निर्जरा धर्म हो ॥ स्वा० ॥ हुं
 ॥ १२ ॥ कोइ साधु नाम धरायने । प्रसंसे छै सा-
 वद्य दान हो ॥ स्वा० । त्यांभेष भांड्यो भगवानरो
 त्यांरे घट माहे घोर अज्ञान हो ॥ स्वा० ॥ हुं ॥ १३
 मौन कही छै साधुने सावद्य दानमें । तेतो अन्त-
 राय पडती जाण हो ॥ स्वा० । तिणरो फल तो सुद
 में षतावियो । तिणरी बुधवन्त करसौ पिछाण हो
 ॥ स्वा० ॥ हुं ॥ १४ ॥ प्रदेशी राजा कहै कीसी स्वाम
 ने । म्हारे तो चढ़तो बैराग हो ॥ स्वा० । म्हारे सात
 सहस्र गांव खालसे । तिणरा करुं च्यार भाग हो
 ॥ स्वा० ॥ हुं ॥ १५ ॥ एक भाग राण्यां निमते करुं ।
 दूजो भाग करुं खजान हो । स्वा० । तीजो भाग
 घोडा हाथी निमत करुं । चौथो भाग करुं देवा दान
 हो ॥ स्वा० ॥ हुं ॥ १६ ॥ च्यारुं भाग सावद्य कामीं
 जाणनें । मौनसाभी रच्या कीसी स्वाम हो ॥ स्वा० ।
 जो उवे किणहीक में धर्म जाणता । तो तिणरी
 करता प्रसंसा ताम हो ॥ स्वा० । हुं ॥ १७ ॥ सावद्य
 कर्तव्य च्यारुं भाग राजरा । त्यामेजीवांगी हिंसा
 अत्यन्त हो ॥ स्वा० । तिणस्युं च्यारु वरावर जाणने
 मौन साभी रच्या सतिवन्त हो ॥ स्वा० । हुं ॥ १८ ॥

जान देवा मंडाडदान साल में । प्रदेशी नामे
 राजान हो ॥ स्वा० । सात सहस्र हुंता गांव खालसे
 तिणरी चौथी पांतीरो देवा दान हो ॥ स्वा० हुं
 ॥ १६ ॥ च्यार भाग कर आप न्यारी हुवो । तिण
 जाण्यो संसार नो माग हो ॥ स्वा० । तिण तीथ
 नकिधी तिणराजरी । रह्यो मुगतस्युं सनमुख लाग
 हो ॥ स्वा० ॥ हुं ॥ २० ॥ ओ तो दान ओराने भो-
 लायने । तिण पुछो नदिसि बात हो ॥ स्वा० । चौव
 दे प्रकार रो दान साधने । तेतो राख्यो निज
 पोतारे हात हो ॥ स्वा० ॥ हुं ॥ २१ ॥ चौथो भाग दान
 तालके करी । नहीं राख्यो पोतारे हात हो ॥ स्वा० ॥
 ती नूं भाग ज्युं डूगने पिणथापीयो । छव काय
 जीवारी जाणी घात हो ॥ स्वा० ॥ हुं ॥ २२ ॥ साडा
 सतरेसो गांव दान तालके । दिन २ प्रते मठेरा
 पांच गांव हो ॥ स्वा० । त्यांरि हांसलरो धान रंधा
 यने । दान साला मंडाड ठामठाम हो ॥ स्वा० ॥
 हुं ॥ २३ ॥ टालवा गांव जाणीज्यो खालसे । तेतो
 चौथि आराराछा गांव हो ॥ स्वा० ॥ हांसल पिण
 आवतो जाणो ज्यो घणों । नेपे पणहुंती घणो
 अलाम हो ॥ स्वा० ॥ हुं ॥ २४ ॥ हांसल आयो हुवे
 एक एक गांवरो । दश सहस्र मणारे उनमान हो

॥ स्वा० । दिन २ प्रते मठेरा पांच गांव रो ।
 जणो पचास हजार मण धान हो ॥ स्वा० ॥ हुं ॥
 ॥ २५ ॥ इण लेखे एक बरस तणो । पुणां देय
 क्रोडमम धान हो ॥ स्वा० । अधिको ओखो तो आप
 जाणीरह्या । अटकल स्युं कह्यो उनमान हो ॥ स्वा० ॥
 हुं ॥ २६ ॥ पाणी पांच क्रोड मणरे आसरे । पुणां देय
 क्रोड मण रांध्यां धान हो ॥ स्वा० । अग्न एक क्रोड
 मण जाणज्यो । लुणकै लाखां मणरे उनमान हो
 ॥ स्वा० ॥ हुं ॥ २७ ॥ नितधान हजारं मणरांधत ।
 अग्न पाणी हजारं मण जाण हो ॥ स्वा० । मणा
 बंध लुण पिण लागतो । बाउकायरो बोहोत घम-
 साण हो ॥ स्वा० ॥ हुं ॥ २८ ॥ फवारादिक अनेक
 पाणी मभे । वलेवनस्पति पाणी मांध हो ॥ स्वा० ।
 धान हजारंमन रांधता । तिहां अनेक मुवा
 तसकाय हो ॥ स्वा० ॥ हुं ॥ २९ ॥ दिन २ प्रते मारे
 छवकायने । बले अनंतजीवारी करे घात हो
 ॥ स्वा० ॥ त्यारी हिंसारे पापगीणे नही ॥ त्यारे
 हिंसा धर्मरो मिथ्यात हो ॥ स्वा० ॥ हुं ॥ ३० ॥
 एहवा दुष्ट हिंसा धर्मी जीवडा ॥ केइ जाणेकै
 अज्ञानी साध हो ॥ स्वा० ॥ तिणारे घट मांहि घोर
 अश्वार क्कै ॥ तेतो नेमा निश्चे क्कै असाध हो ॥ स्वा०

॥ हुं ॥ ३१ ॥ केडूजीव खुवायामें पुन्य कहै । केडू
 मिश्र कहै कै मुठ हो ॥ स्वा० ॥ ए दोनूं बूडा कै
 वापड़ा कर २ मिथ्यात री रुठहो ॥ स्वा० ॥ हुं ॥
 ३२ ॥ जीव खाधांखुवायां भला जाणीयां । तीनूं
 हीं करणां कै पाप हो ॥ स्वा० ॥ आसरधा परुपी कै
 आपरी । तेपिण दैवे कै अज्ञानी उथाप हो ॥स्वा०॥
 हुं ॥ ३३ ॥ केडू जीव खुवावेकै तेहनां । चोखा कहै
 अज्ञानी प्रणाम हो ॥ स्वा० ॥ कहै धर्मने मिश्र हुवे
 नहीं । जिव खुवायां बिण ताम हो ॥ स्वा० ॥ हुं ॥
 ३४ ॥ जीव खावणरा प्रणाम कै अतिबुरा । खुवावण
 रा पिण खोटा परिणाम हो ॥ स्वा० ॥ युही भोलाने
 नाखि भर्ममें । लेले परिणामारो नाम हो ॥ स्वा० ॥
 हुं ॥ ३५ ॥ केडू कहै जीवांने मायां विना । धर्म न
 हुवे ताम हो ॥स्वा०॥ जीव मायांगे पाप लागे नहीं ।
 चोखा चाहिजे निज परिणाम हो ॥ स्वा० ॥ हुं ॥ ३६ ॥
 केडू कहै जीवांने मायां विना । मिश्र न हुवे ताम
 हो ॥ स्वा० ॥ ते जीव मारणरी सांनी करे । लेले
 परिणामारो नाम हो ॥ स्वा० ॥ हुं ॥ ३७ ॥ केडू धर्मने
 मिश्र करवा भणी । कुवकायरो करे घमसाण हो
 ॥ स्वा० ॥ तिणरा प्रणाम चोखा कछ्यांयकां । पर
 जीवांरा कुटे प्राण हो ॥स्वा०॥ हुं ॥ ३८ ॥ जिण चोलख

लीधी आपरी आगन्यां । ओलख लीधी आपरी
 मौन हो ॥ स्वा० ॥ तिण आपने पिण ओलख लीया ।
 तिणरेटलसी माठी माठी जुन ही ॥ स्वा० ॥ हुं ॥
 ३६ ॥ तिण आज्ञा नविओलखी आपरी । ओलखी
 नवि आपरी मौन हो ॥ स्वा० । तिण आपने पिण
 ओलख्या नवि । तिणरे वन्धसी माठी माठी जुन
 हो ॥ स्वा० ॥ हुं ॥ ४० ॥ केड जिण आज्ञा वारे
 धर्म कहै । जिण आज्ञा माहे कहै पाप हो ॥ स्वा० ।
 ते दोनू विध बुडा कै वापडा । कुडो करकर अज्ञा
 नी बिलाप हो ॥ स्वा० ॥ हुं ॥ ४१ ॥ आपरो धर्म
 आपरी आगन्यांमभे । नहीं आपरी आज्ञा वार
 हो ॥ स्वा० ॥ जिण धर्म जिण आगन्यां वारे कहै ।
 तेतो पुरा कै मुढ़ गिवार हो ॥ स्वा० ॥ हुं ॥ ४२ ॥
 आप अवसर देखनै बोलीया । आप अवसर देखी
 साभ्नी मौन ही ॥ स्वा० ॥ जिहां आपतणी आगन्यां
 नवि । ते करणी कै जावकजबुन हो ॥ स्वा० ॥ हुं
 ॥ ४३ ॥ भेष धाखां सावद्य दान थापीयो । तिण
 दानस्युं दयाउथप जाय हो ॥ स्वा० ॥ वले दया कहै
 छवकाय वचाविथां । तिणस्युं दान उथपगयो ताय
 हो ॥ स्वा० ॥ हुं ॥ ४४ ॥ छवकाय जीवानै जीवा
 मारने । कोड दान टेवे संसाररे मांय हो ॥ स्वा० ।

तिणारे घटमें छवकाय जीवांतणी । दया रही नहीं
 ताय हो ॥ स्वा० ॥ हुं ॥ ४५ ॥ कोद्र दान देवे तिणने
 बरजने । जीव बचावे छवकाय हो ॥ स्वा० ॥ तेजीव
 बचायांदया उथपे । तिणस्युं न्यारा रच्यां मुखथा-
 यहो ॥ स्वा० ॥ ४६ ॥ छवकायने जीवांने मारे दान
 दे । तिण दान स्युं मुगत न जाय हो ॥ स्वा० ॥
 बले फिर बचावे छवकायने । तिणस्युं कर्म कटे
 नहीं ताय हो ॥ स्वा० ॥ हुं ॥ ४७ ॥ सावद्य दान
 दियां स्युं दया उथपे । सावद्य दयास्युं उथपे
 अभै दान हो ॥ स्वा० ॥ सावद्य दान दया कै संसार
 नां । यांने ओलखते बुधवान हो ॥ स्वा० ॥ हुं ॥
 ४८ ॥ त्रीविध्, र छवकाय हणवी नहीं । आ दया
 कहि जिणराय हो ॥ स्वा० दान देणो सुपात्रने
 कछो । तिणस्युं मुगत सुखे सुखे जाय हो ॥ स्वा०
 ॥ हुं ॥ ४९ ॥ दान दया दोनूं मारग मोषरा । तेतो
 आपरी आज्ञा सहित हो ॥ स्वा० ॥ याने रुडौरित
 आराधिया । ते गया जमाती जीत हो ॥ स्वा० ॥
 हुं ॥ ५० ॥ आप तणी आग्या ओलखायवा । जोड
 किधी नवां सहर मभारहो ॥ स्वा० ॥ समत अठारे
 नै वरस चमालीसे । माहासुद् सातम बृहस्पति

वार हो ॥ स्वामी जी हुबलिहारी हो हुबलिहारी हो
श्री जिनजीरी आगन्यां ॥ ५१ ॥

॥दुहा॥ श्रीजिन धर्म जिन आज्ञामभे । आज्ञा
वारे नहीं जिन धर्म ॥ तिणस्यु पापकर्म लागे नहीं ।
वले कटे आगला कर्म ॥१॥ केइ मुठ मिथ्याती इम
कहै । जिण आज्ञा वारे जिण धर्म ॥ जिण आज्ञा माहे
कहै पाप कै । ते भुला अज्ञानी भर्म ॥२॥ जिण आज्ञा
वारे धर्म कहै । जिन आज्ञा माहे कहै पाप ॥ तेकिण
हीं सुवमें कै नहीं । युहिं करे मुठ विलाप ॥३॥ कहै
धर्म तिहां देवां आगन्यां । पाप कै तिहां करां नषेध ॥
मिश्र ठीकाणे मौन कै । एह धर्मनों भेद ॥४॥ इसड़ी
करेकै परूपणां । तेकरे मिश्ररीयाप ॥ तेबुडा खोटोमत
वांधने । श्रीजिन वचन उयाप ॥५॥ केइ मिश्रतो माने
नवि । माने हिंसामें एकन्तधर्म ॥ तेपण बुडेकै वापडा ॥
भारि करेकै कर्म ॥६॥ जिन धर्म तो जिण आज्ञामभे ।
आज्ञा वारे धर्म नहीं लिगार ॥ तिणमे साख सुवरी
दे कहुं । ते सुण ज्यो विस्तार ॥७॥

* ढाल तीजी *

(जीव मारते धर्म आछो नवि एदेशी)

आज्ञामें धर्म छै जिनराजरो । आज्ञा बारे कहै
 ते मुठरे ॥ विवेक विकल सुध बुध बिना । ते वुडे छै
 करकर रूठरे ॥ श्रीजिनधर्म जिन आगन्यां तिहां ॥१॥
 ज्ञान दरसण चारत ने तप । एतो मोषरा मारग
 च्याररे ॥ यां च्यारां मे जिनजीरी आगन्यां । यांबिनां
 नहीं धर्म लिगाररे ॥श्री॥ २ ॥ यां च्यारां मांहला एक
 एकरे । आग्या मांगि जिनेश्वर पासरे ॥ तिणने देवे
 जिनेश्वर आगन्यां । जब उ पामे मनमें हुंलासरे ॥श्री॥३॥
 यांच्यारां बिना मांगि कीद्व आगन्यां । तो जिनेश्वर
 साभे मौनरे ॥ तो जिन आगन्यां बिना करणी करे ।
 ते करणी छै जावक जबुनरे ॥श्री॥४॥ बीसां भेदां रूके
 कर्म आवता । बारे भेदे कटे बन्धिया कर्मरे ॥ त्याने
 देवे जिनेश्वर आगन्यां । ओहिज जिण भाष्यो धर्मरे ॥
 श्री ॥५॥ कर्म रूके तिणकरणीमें आगन्यां । कर्म कटे
 तिण करणी में जाणरे ॥ यां दोयां करणी बिना नवि
 आगन्यां । तेसगली सावद्य पिछाणरे ॥श्री॥६॥ देव अरि-
 हन्त ने गुरु साध छै । केवली भाष्योते धर्मरे ॥ ओर
 धर्म नहीं जिन आगन्यां । तिणसु' लागेछै पापकर्म
 रे ॥श्री॥७॥ जिन भाष्यामे जिनजीरी आगन्यां । ओरांरी

भाष्यामें और जाणरे ॥ तिणस्यु जीव सुधगत जावे
 नहीं । बले पाप लागेकै आणरे ॥ श्री ॥ ८ ॥ केवली भाष्यो
 धर्म मंगलीककै । श्रीहिज उत्तम जाणरे ॥ सर्णी'पणल्यो
 दूण धर्मरो । तिणमें श्रीजिन आज्ञा प्रमाणरे ॥ श्री ॥ ९ ॥
 ठाम २ सुत्र माहे देखल्यो । केवली भाष्योते धर्मरे ॥
 मौन साभे तिहां धर्म को नहीं । मौन साभे तिहां पाप
 कर्मरे ॥ श्री ॥ १० ॥ मौन साभणियो धर्म माठो घणो । भेष
 धास्यां परुष्यो जाणरे ॥ खांचरबुडेकै बापडा । ते सुत्र
 रा मुठ अजाणरे ॥ श्री ॥ ११ ॥ धर्मने सुक्त दोनू ध्यानमें ।
 जिण आज्ञा दिधी बारुं बाररे ॥ आर्त रुद्र ध्यान
 माठा विहुं । याने ध्यावे ते आज्ञा बाररे ॥ श्री
 ॥ १२ ॥ तेजु पद्म सुक्त लेस्या भली । त्यांने जिन
 आगन्यां ने निर्जरा धर्मरे ॥ तीन माठी लेस्यामें आ
 ग्या नहीं । तिणस्यु वन्धेकै पाप कर्मरे ॥ श्री ॥
 १३ ॥ चार मंगल चार उत्तम कछ्या । चार सर्णा
 कछ्या जिन रायरे ॥ एसगलाकै जिन आगन्यां मभे ।
 आज्ञा विन आच्छी वस्तु न कायरे ॥ श्री ॥ १४ ॥
 भला प्रणाम में जिन आगन्यां । माठा परिणामां आ
 ज्ञा वाररे ॥ भला परिणामां निर्जरा निपजे । माठा
 परिणामां पापहाररे ॥ श्री ॥ १५ ॥ भलां अथ्यव साय में
 जिन आगन्यां । आज्ञावाररे माठा अथ्यव सायरे ॥ भला

अथ्यव सायां सुं निर्जरा हुवे । माठा अथ्यव सा-
 यांसुं पाप बन्धायरे ॥ श्री ॥ २६ ॥ ध्यान लेस्या प्रणा
 म अथ्यव सायकै । च्यारुं भला में आच्चा जाणरे ॥
 च्यारुं माठामें जिन आच्चा नहीं । यांरा गुणारी
 कर जो पिच्छाणरे ॥ श्री ॥ १७ ॥ सर्व मुल गुणने
 उत्तर गुणे । देश मुल उत्तर गुण दीय रे ॥ दीयां
 गुणां में जिनजीरी आगन्यां । आगन्यां बारे गुण
 नवि कोयरे ॥ श्री ॥ १८ ॥ अर्थ परम अर्थ जिन धर्म
 कै । उवाइ सुंगडायंग मांयरे ॥ तिणमें तो जिन
 जीरी आगन्यां । सेष अनर्थमें आग्या नवितायरे ॥
 ॥ श्री ॥ १९ ॥ सर्व व्रत धर्म साधां तणो । देशव्रत
 श्रावकरो धर्मरे ॥ यां दीयां धर्म जिनजीरी आग-
 न्यां । आग्या बारे तो बन्धसी कर्मरे ॥ श्री ॥ २० ॥
 उजलो धर्म कै जिन राजरो । तेतो श्रीजिन आच्चा
 सहित रे । मुगत जावा अजोग असुध कच्चो । ते
 तो जिन आग्या स्युं विपरीतर ॥ श्री ॥ २१ ॥ आच्चा
 लोप छांदे चाले आपरे । ते ज्ञानादिक धन सुं
 खाली धायरे ॥ आचारंग अध्येन दुसरे । जो वो
 छटा उदेसा मांयरे ॥ श्री ॥ २२ ॥ आच्चा सुं रुके ते
 धर्म मांहरो । एहवो चिन्तवे साधुमन मांयरे ॥ आ
 ज्ञा विन करवो जिहांहिं रच्चो । रुडो बोलवो पिण

नवि थायरे ॥ श्री ॥ २३ ॥ आज्ञा मांहलो ते धर्म मां
 हरो । और सर्व पारको थायरे । आचारंग छठा
 अध्येन में । पहले उदेस जोय पिछाणरे ॥ श्री ॥
 २४ ॥ आगन्यां मांहे संजम नै तप । आगन्यां में
 दोनूँ परिणामरे । आग्या रहित धर्म आछो नवि ।
 जिण कछो पराल समानरे ॥ श्री ॥ २५ ॥ आश्रव
 निर्जरारो ग्रहण जुदो कछो । ते जाणसी जिन आ
 ज्ञारो जाणरे । आचारंग चौथा अध्येनमें । पहले
 उदेसा जोय पिछाण रे ॥ श्री ॥ २६ ॥ निर्वद्य धर्म
 चतुर विध संघ छै । ते आग्या सहित बंछै अनु-
 सन्तानरे । आचारंग चौथा अध्येन में । तीजे
 उदेसे कछो भगवान रे ॥ श्री ॥ २७ ॥ तिर्यंकर धर्म
 कीधोतिको । मोषरो मारग सुधवेसरै ॥ और
 मोषरो मारग को नहीं, पांचमें आचारंग तीजे उदेस
 रे ॥ श्री ॥ २८ ॥ जिण आज्ञा वारली करणी तणो ।
 उधम करे अज्ञानी कोयरै ॥ आज्ञा माहली कर-
 णीरो आलस करे । गुरु कहै सिष्य तोने दोय
 म होयरै ॥ श्री ॥ २९ ॥ कुमारग तणी करणीकरे ।
 सुमारग रो आलस होयरै ॥ ए दोनूँ हिं करणी
 दुरगत तणी । आचारंग पांचमें अध्येन जोयरै
 ॥ श्री ॥ ३० ॥ जिण मारग रा अजाणने । जिण

उपदेश नों लाभ न होयरे ॥ आचारंग राचोथा
 अध्येन में । तीजा उदेसामें जोयरे ॥ श्री ॥ २१ ॥
 ज्यां दान सुपात्र ने दियो । तिणामें श्रीजिन आग्या
 जाणरे ॥ कुपात्र दानमें आगन्यां नहीं । तिणारी
 बुधवंत करज्यो पिच्छाण रे ॥ श्री ॥ ३२ ॥ साध विना
 अनेरा सर्वने । दान नहीं दे माठो जाणरे ॥ दीधां
 भमण करे संसार में । तिणस्युं साध किया पच्च-
 खाणरे ॥ श्री ॥ ३३ ॥ सुयगडांग नवमा अध्येन में ।
 बीसमी गाथा जोयरे ॥ बले दिधां भागे व्रत साध
 रो । जिन आगन्यां पिणनवि कोयरे ॥ श्री ॥ ३४ ॥
 पात्र कुपात्र दोनूं नै दिया । विकल कहै दोयामें
 धर्मरे ॥ धर्म हुसी सुपात्र दानमें । कुपात्र ने
 दिया पाप कर्मरे ॥ श्री ॥ ३५ ॥ खैत कुखैत श्रीजिन
 घर कह्यो । चौथे ठाणे ठाणा अंग मांयरे ॥ सु खै
 तमें दियां जिन आगन्यां । कु खैतमें आग्या नवि
 कायरे ॥ श्री ॥ ३६ ॥ आहार पाणीने वले उपधादि-
 क । साधु देवे गृहस्थने कोयरे ॥ तिणने चौमासी
 दण्ड नसीतमें । पनरमें उदेसे जोयरे ॥ श्री ॥ ३७ ॥
 गृहस्थने दान दे तिण साधुने । प्राश्चित आवे कि
 धो अधर्मरे ॥ तो तेहिज दान गृहस्थ देवे । त्याने
 किण विध होसी धर्म रे ॥ श्री ॥ ३८ ॥ असंजम

छोड संजम आदख्यो । कुसोल छोड हुवो ब्रह्मचार
 रे ॥ अण कल्पणीक अकार्य परहरे । कल्प आचार
 कियो अंगीकार रे ॥ श्री ॥ ३६ ॥ अज्ञान छोडने
 ज्ञान आदख्यो । माठी क्रिया छोडि माठी जाणरे ॥
 भली क्रियाने साधु आदरी । जिण आज्ञा स्युं
 चतुर मुजाण रे ॥ श्री ॥ ४० ॥ मिथ्यात छोड सम्यक्त
 आदख्यो । अबोध छोड आदख्यो बोधरे ॥ उनमार्ग
 छोड सुनमार्ग लियो । तिणस्युं होसो आतमा सु-
 धरे ॥ श्री ॥ ४१ ॥ आठ छोडेंते जिन उपदेस, सुं ।
 पाप कर्म तणीं बंध जाणरे ॥ जिण आज्ञा स्युं आठ
 आदख्यां । तिणसुं पामै पद निर्वाण रे ॥ श्री ॥
 ४२ ॥ ठाम २ मुत्त में देखल्यो । जिण धर्म जिण
 आज्ञा में जाणरे ॥ ते मुठ मिथ्याती जाणे नहीं ।
 युहीं बुडे छै कर कर ताणरे ॥ श्री ॥ ४३ ॥ हुं कहि
 कहिने कितरो कहु । आगन्यां- वारे नहीं धर्म
 मुलरे ॥ आगन्यां वारे धर्म कहै तेहना । सरधा
 कण विना जाणो धुलरे ॥ श्री ॥ ४४ ॥

॥ दुहा ॥ भेषधारी विगरायल जैनरा । ते कुड
 कपटरी खान ॥ ते आगन्यां वारे धर्म कहै । त्यांरे
 घटमें घोर अग्यान ॥ १ ॥ त्याने ठीक नही जिन
 धर्मरी । जिण आग्यारी पिण नवि ठीक ॥ त्याने

परवार बिवेक विकल मिल्या ॥ त्यामें बाजै पुजमे
 ठीक ॥ २ ॥ ते बडा उठज्युं आगे चले । लार चले
 जेमकतार ॥ वोहला बुडेकै बापडा । बडा बुढा रीलार
 ॥ ३ ॥ हिवे बले विशेष जिन आगन्यां । ओलखजी
 बुधवान ॥ तिणारा भाव भेद प्रगट करूं । ते सुण
 जो मुर्त दे कान ॥ ४ ॥

॥ ढालचौथी ॥

(जंबु कुंवर कहै परभव सुणो एदेगी)

साधु सामायक व्रत उचरे । तिणमें सावदरा
 पच्चखाण ॥ भविक जन हो ॥ तेहिज सावद गृस्थ
 करे । तिणमें श्री जिण धर्म म जाण ॥ भविक जन
 हो ॥ श्री जिनधर्म जिन आगन्यां तिहां ॥ १ ॥
 आवक सामायक पोसो करे । तिणमें पिण साव-
 दरा पच्चखाण ॥ भ० । तेहिज सावद कासो कुटो
 करे । तिणमें पिण जिणधर्म म जाण ॥ भ० ॥ २ ॥
 श्री ॥ धर्म कहै साधु जिन आगन्यां मभे । आग्या वारै
 धर्म कहै ते सुठ ॥ भ० । तिण श्री जिन धर्म नओ-
 लख्यो । तिण भाली सिध्यातरी रुठ ॥ भ० ॥ ३ ॥
 श्री ॥ जिन धर्मगी जिन आगन्यां देवे । जिण धर्म


सीखावे जिणराय ॥ भ० । आज्ञा वारे धर्म किण
 सीखावियो । तिणरी आज्ञा देवे कुण ताय ॥ भ०
 ॥ ४ ॥ श्री ॥ केइ आगन्यां वारे मिश्र कहै । केइ
 धर्म पिण कहै आज्ञावार ॥ भ० ॥ तिणने पूछिजे
 ओ धर्म किण कह्यो । तिणरो नाम तुं चौडेबताय
 ॥ भ० ॥ ५ ॥ श्री ॥ इण मिश्रने धर्मरो कुण धणी ।
 तिणरी आज्ञा कुणटे जोड्यां हात ॥ भ० । देवगुरु
 मौन साभ न्यारा हुवे । इणरी उतपतरो कुण नाथ
 ॥ भ० ॥ ६ ॥ श्री ॥ कोइ वैस्यारा पुढने पुछा करे ।
 थारि सा कुण नै कुण तात ॥ भ० । जब उ नांव
 वतावे किण वापरो । ज्युंआ मिश्रवालांरी छै वात
 ॥ भ० ॥ ७ ॥ श्री ॥ वैस्यारा अंग जात नो उपनों ।
 तिणरो कुण हुवे उदेरिने वाप ॥ भ० । ज्युं आज्ञा
 वारे धर्म नै मिश्ररी । जिण धर्मरी करसी कुण
 थाप ॥ भ० ॥ ८ ॥ श्री ॥ वैस्यारे अंग जातनो
 उपनो । उण लषणो हुवे उदेरिने वाप ॥ भ० । जुं
 जिन आगन्यां वारे धर्म नै मिश्ररी । केइ करे छै
 पाषण्ड थाप ॥ भ० ॥ ९ ॥ श्री ॥ कोइ कहै म्हारी
 माता कै वांभडी । तिणरो हुं कुं आतम जात ॥
 भ० । ज्युं मुख कहै जिण आगन्यां विना । करणी
 क्रीधां धर्म माप्यात ॥ भ० ॥ १० ॥ श्री ॥ वाप विण

बेटो निश्चै हुवे नहीं । जुं जिण आग्या बिना धर्म
 न होय ॥ भ० । जिन आज्ञा होसी तो जिण धर्म
 छै । आज्ञा बिना धर्म न होय ॥ भ० ॥ ११ ॥ श्री ॥
 मा बिण बेटारो जन्म हुवे नहीं । जन्मे ते बांभ ने
 होय ॥ भ० । ज्युं जिण आज्ञा बिना धर्म हुवे नहीं ।
 जिन आज्ञा तिहां पाप न कोय ॥ भ० ॥ १२ ॥
 श्री ॥ गघु पंषी नै चोर दोनूं भणी । गमती लागि
 अंधारी रात ॥ भ० ॥ ज्युं भारि कर्मां जीव तेह-
 ने । जिण आग्या बाहर लो धर्म सुहात ॥ भ० ॥
 १३ ॥ श्री ॥ काग निमोली में रति करे । भण्ड सूरा
 ने भीष्टो आवेदाय ॥ भ० । जुं काग भंड सूरा
 जेहवामानवी । रिभे आज्ञा बाहर ली करणी मांय
 ॥ भ० ॥ १४ ॥ श्री ॥ चोर परदारा सेवणकुसी
 लिया । तेतो सेरी जीवे दिन रात ॥ भ० । जुं
 आज्ञा बाहर धर्म अधायवा । उंधी कर कर अ-
 ज्ञानी वात ॥ भ० ॥ १५ ॥ श्री ॥ गुरुवादिकरी आ
 ज्ञा मांगे नहीं । तेतो अपछन्दा अवनित ॥ भ० ।
 ज्युं केइ जिण आगन्यां विण करणी करे । ते पिण
 करणी छै विपरीत ॥ भ० ॥ १६ ॥ श्री ॥ दुष्ट जीव
 मंजारी ने चितरा । कल सुं करे पर जीवारीघात
 ॥ भ० । एहवा दुष्ट मिश्र सरधा रा धणी । कल

स्युं घाले विकलारे सिध्यात ॥ भ० ॥ १७ ॥ श्री ॥
 विगरायल हुवां न्यात वारे करे । ते विगरायल फिरि
 न्यात वाहर ॥ भ० ॥ तेहवो धर्म जिण आगन्यां
 वार लो । तिणमें कदे मत जाणो भलीवार ॥ भ०
 ॥ १८ ॥ श्री ॥ न्यात वारे ते न्यात मांहे नहीं । ति
 णने नवि वैसाणे एक पांत ॥ भ० ॥ ज्युं जिण आ
 ज्ञा विना धर्म अजोगं छै । किधां पुरीजे नहीं
 मन खांत ॥ भ० ॥ १९ ॥ श्री ॥ जो आग्या विन
 करणी में धर्म छै । तो जिन आज्ञारो काम न कोय
 ॥ भ० ॥ तो मन मानी करणी करसी तेहने । सग-
 ली करणी क्रियां धर्म होय ॥ भ० ॥ २० ॥ श्री ॥
 जिण आज्ञा वाहर ली करणी क्रियां । पाप नहीं
 लागे नै धर्म थाय ॥ भ० ॥ तो किण करणी सुं पाप
 निपजे । तिण करणी रो तुं नांव वताय ॥ भ० ॥
 २१ ॥ श्री ॥ ज्ञान दर्शण चारित्र तर्प । ए च्यारुं हिं
 छै आज्ञा मांय ॥ भ० ॥ यां च्यारुं मांहे तो धर्म
 जिण कह्यो । यां विना ओर नांव वताय ॥ भ० ॥
 २२ ॥ श्री ॥ इमपुंक्क्यां रो जाव न उपजे झूट बोले
 वणाय वणाय ॥ भ० ॥ विकला ने विगोवण पापीया ।
 जिण आग्या वारे धर्म अधाय ॥ भ० ॥ २३ ॥ श्री ॥
 आगन्यां वारे धर्म कहै । ते पिण छै, आगन्यां वार

॥ भ० । इण सरधा सुं बुडे कै बापड़ा । ते भव
भवमें होसी खवार ॥ भ० ॥ २४ ॥ श्री ॥ जिण आग-
न्यां वारे धर्म कहै । ते बिगरायल जैनरा जाण ॥ भ०
त्यांरि अभिंतर फूटी कै मांहली । ते अंधारे उगो
कहै भाण ॥ भ० ॥ २५ ॥ श्री ॥ श्रीजिन आगन्यां
बिन करणी करे । तेतो दुरगतरा आगीवाण ॥ भ० ॥
जिण आज्ञा सहित करणी करे । तिणस्युं पामेपद्
निरवाण ॥ भ० ॥ २६ ॥ श्री ॥ आज्ञा वारे धर्म
कहै तेहनी । जोड किधी कै पैरवा मभार ॥ भ० ॥
समत अठारे चालीस में । आसोजबिद् पांचम था
वर वार ॥ भ० ॥ २७ ॥ श्री ॥ श्रीजिनधर्म जिण आग
न्यां तिहां ॥

इति जिन आज्ञा की चोढालियो
समाप्त ।



अथः श्रीपुज्य भीक्षणजीको स्मरण

कोइ अनुमति दूम कहै । भजन नहीं जैन के
 मांय ॥ सुना घरको पाउगीं । ज्युं आवे ज्युं जाय ॥१॥
 खेतमें खात रलायने । हल देवे जुतराय ॥ खेत खडे
 चौकस करे । रुडी वाड वणाय ॥ २ ॥ जलस्युं सिंचे
 खेतने । वीज नहीं तिणमांय ॥ रुत आयां रोवे कृ-
 षणी । लुण तां देखै लोग लुगाय ॥३॥ दान दया तप
 जप घणो । जैन धर्मके माय ॥ वीज भजन विना
 कृषणी । करने सब खप अली जाय ॥ ४ ॥ फेइ २
 भोला लोकने । वांगा दे वहकाय ॥ देवे द्रष्टांत, प्रश्न
 कुडा । राले फांदके मांय ॥५॥ जैन मति कोइ जैनमें ।
 म्हारी सुणो कृषण करतुत ॥ वीज वावे साख
 निपजाय वा । शिवपुर अंगासुत ॥६॥ खेत घणीको
 जीव है । काया खेत समान ॥ तपरुपीयो हल
 जोतने । घात रुपीयो दान ॥ ७ ॥ सागडी रुपीया
 सतगुरु । सम्यक्त वीजज वाय ॥ दया रुपीयो जल
 पावतां । व्रतांरी वाड वणाय ॥ ८ ॥ खेत मीलु कर्म

काटवा ॥ क्षम्यां रूपणी कसौल्याय ॥ खाइ बाड
 संतीष ज्युं ॥ पांन पोठ ज्युं पुन्या बंधाय ॥ ९ ॥
 मेह अरिहंत ज्युं ध्यानकै । ध्यान रूपी योग्यान ॥ चारे
 रूप उपर निपना मुख संसार ना विविध विविध
 असमान ॥ १० ॥ नाज रूपीया फल मुगतका । मोडा
 बैगा जास्यां मोष ॥ जैन जिस्थो कृषण नहीं ।
 म्हे घणां देख्या मत फोक ॥ ११ ॥ थे नहीं समजो
 बोधबीजमें म्हे भजां अरिहंत भगवान ॥ थारा गुर
 महिमां कही में पिण लीधो जाण ॥ १२ ॥ गुरु
 गोवीन्द दोनू खड़ा किसके लागुं पाथ ॥ बलिहा
 री सतगुरु तणी गोविन्द दिया ओलखाय ॥ १३ ॥
 अरिहंत गुण नहीं ओलख्या । सतगुरु दिया दर-
 साय ॥ कहुं भजन महिमां सत गुर तणी । ते सुंण
 ज्यो चित्त लगाय ॥ १४ ॥

॥ ढाल ॥

श्री संत भिषण जीरो स्मरण करतां । भव दुख
 जावे सर्व भाज जी ॥ वासो वसे तो देव लोकां
 मांहि । पामे मुक्त पुरी नो राजजी ॥ श्रीपुज्य भिषनजी
 की स्मरण कौजे ॥ १ ॥ भि कहै तां भिषु व्रत लीधा ।

प्र कहतां पीम्यारस पीध जी ॥ न कहैतां सावद्य
 काम निवास्या । जी कहैतां इद्रयां ने जीतजी ॥ श्री
 पुज्य ॥२॥ स्मरण चिन्तामण च्यार आषररो । तिणमें
 गुण अथागजी ॥ चक्री निधान ज्युं स्मरण साजे ।
 तिणरो वीर कछो बड़ भाग जी ॥ श्री ॥ ३ ॥ सुत्र
 सिद्धांतमें नवकार भाख्यो । दीय पदामें आया
 स्वामजी ॥ आचार्य पदवीने सत गुर साधु । ज्यांरो
 राते दिवस रटो नामजी ॥ श्री पुज्य ॥ ४ ॥ च्यार
 मंगलीक उत्तम सर्णां लेणा । श्री वीर गयाछै भाषजी ॥
 तीन प्रकारे बोले स्वामी । ज्यांरि आवसग सुत्र
 में साषजी ॥ श्रीपुज्य ॥ ५ ॥ घणा विघन भागे वृण
 स्मरण स्युं । टल ज्यावे दुख होवे हगामजी ॥ कही
 कथा सुत्रके मांहि खेउं थोड़ा सा नाम जी ॥ श्री
 पुज्य ॥ ६ ॥ लायमें बलतां सतगुर समस्या । नहीं
 बल्यो कूंज कंवार जी ॥ सीप्य होस्युं श्री नेम जिण
 दरो । तिणने देवता काख्यो बाहार जी ॥ श्रीपुज्य ॥ ७ ॥
 सेठ सुदर्शनमें संकट पडीयो । जव समरलीया जगनाथ
 जी ॥ विघन टल्यो देखो अर्जनमालीरा । नहीं चल्या
 तिण पर हातजी ॥ श्रीपुज्य ॥ ८ ॥ सिता सतीने अंजणा
 वे वनमें । उपसर्ग उपनां करुजी ॥ संकट पद्यां सति
 सत गुर समस्या । तिणरो देव विघन कियो दुरजी ॥

श्री पुज्य ॥६॥ सेठ मुद्रशरणने स्मरण करतां । अभिया
 दिनो आलजी ॥ सूली फाट सिंघासण रचीयो । इसडो
 स्मरण सील रसालजी ॥ श्री पुज्य ॥ १० ॥ सती सुभ
 द्रा ने निज सासु । दियो अण हुंतो आल जी ॥ ते
 लो करीने सती सत गुरु समखा । देवी आइ ततकाल
 जी ॥ श्रीपुज्य ॥ ११ ॥ राजुल रूपदेखी रहनेमी
 चलोया । ध्यान चुकाने दियो धिक्कार जी ॥ ध्यान
 स्मरण मन पाछो धरीयो । पहंता मुगत मभार जी
 ॥ श्रीपुज्य ॥ १२ ॥ अरणकने कामदेव दीयाने । देवता
 दुख दिधा अपारजी ॥ तोपिण सतगुर स्मरण सेंठा ।
 देव गया तिण स्युं हारजी ॥ श्री पुज्य ॥ १३ ॥
 नन्दण मणीहारो डेडको हुंतो । तिणने चीथ्यो श्रेणि
 करे कीकाणजी ॥ संथारो करीने सतगुर समखा । उपनो
 दुधर बिमाणजी ॥ श्री पुज्य ॥ १४ ॥ दल मेल्या
 तिर्हा सात नर्कना । परसन चंद्रराजान जी ॥ ध्यान
 स्मरण मन पाछो धरीयो । पास्यां केवल ज्ञान जी ॥
 श्री पुज्य ॥ १५ ॥ तीर्थं कर चक्रवरत इद्रादिक ।
 ओहि स्मरण साधजी ॥ मुक्ति पधाखा तेहिज
 भाष्यो । ओही मन्त्र आराध जी ॥ श्रीपुज्य ॥ १६ ॥
 मध्यम नर कोइ स्मरण साजे ज्यांरे वध ज्यावे आव
 जी ॥ मध्यम जायगां प्यारी लागै । जांगे क्यारी खी

ली गुलाबजी ॥ श्री पुज्य ॥ १७ ॥ उत्तम मध्यम रो
 नहीं कोइ कारण । कूल उंच निच ने मध्य जी ॥
 स्मरण साधे तिणरे घटमें । जाणे चांदणो कर दीयो चंद्र
 जी ॥ श्री पुज्य ॥ १८ ॥ जिमकोइ जलने पय ओटावे ।
 तिम र चोखी होवे दुध जी ॥ कर्म पातक भडे
 द्रुण स्मरण स्युं । निर्मल चोखीज्यांरो दुधजी ॥ श्रीपुज्य
 ॥ १९ ॥ कपड़ेको मैल कटे साबुन स्युं । रत्न काम
 लरो आगजी ॥ कर्मांरो मैल कुटे स्मरण स्युं । मिट
 ज्यावे भव भव दाग जी ॥ श्री पुज्य ॥ २० ॥ सुल
 भ बोधी स्मरण साधे । अठे ही पामे ग्वान जी ।
 अठे नही पामे तो परभवमें पामे । इसडो स्मरण ध्यान-
 जी ॥ श्री ॥ पुज्य ॥ २१ ॥ स्मरण करतां जाणे मुख
 में । मीश्री पीधी गालजी ॥ सरौर वैदनां ध्यान
 स्मरणस्युं । जाणे वेठा मुखपालजी ॥ श्रीपुज्य ॥ २२ ॥
 पुज्य सरौषो भरत पेटमें । बीजी नहीं कोइ चीज
 जी ॥ स्मरण व्रतामें समकित आपे । हलु कर्मी रह्या
 रीभजी ॥ श्रीपुज्य ॥ २३ ॥ साध भिषण जीरो स्मरण
 करतां । पहुंके भवजल पारजी ॥ जे नर नारीरा
 भाग्य वडाके । वंदे मुरत दिदारजी ॥ श्रीपुज्य ॥
 २४ ॥ परजाने प्यारा वासुदेव केशव । वीरवाला
 तीर्थ च्यारजी ॥ पतिव्रता विकसे पतिदेख्यां । ज्युं

समदृष्टी गुरु दिदारजी ॥ श्रीपुज्य ॥ २५ ॥ अलवरो
 जीव फूल डम्बरमें । सारंग ने सारंग करे कुकजी ॥
 ज्यु समदृष्टीने गुरु दर्शणकी । सदा लागी रहे भुष
 जी ॥ श्रीपुज्य ॥ २६ ॥ अमृतफल सुवटाने मीठा ।
 मोती मीठा मुरालजी ॥ समदृष्टी सतगुरु स्मरणस्युं ।
 किधांहिं हर्ष अपारजी ॥ श्रीपुज्य ॥ २७ ॥ अमृत
 भोजन किधां तपत । पछै कीसो कुकसरी लगन
 जी ॥ समदृष्टी सतगुरु स्मरण स्युं । मुनिज्युं रहै
 मगनजी ॥ श्रीपुज्य ॥ २८ ॥ मनवांछितफल द्रुण
 स्मरणस्युं । समरो भिषनजी साधजी ॥ हालत चालत
 उठत बैठत । चितमें रहो आराधजी ॥ श्रीपुज्य ॥
 २९ ॥ बेल त्रिया कोडू निरफल थावे । निरफल
 थावे कोडू बीजजी ॥ सतगुरु स्मरण निरफल नाहीं ।
 ज्युं सीता सतीरो धीजजी ॥ श्रीपुज्य ॥ ३० ॥ मध्यम
 बेल्यां मंत्र जपतां । तिणस्युंई सुधरे काजजी ॥ साधु
 उत्तमको स्मरण कस्यांस्युं । निश्चिदू शिवपुर राजजी
 ॥ श्रीपुज्य ॥ ३१ ॥ काल दुचम मे वहोल कर्मी । आय
 लीयो अवतारजी ॥ सतगुरु स्मरणस्युं केवल पामे ।
 अटके दीय प्रकारजी ॥ श्रीपुज्य ॥ ३२ ॥ काल
 सुचम मे हलु कर्मी । आय लीयो अवतारजी ॥ सत-
 गुरु स्मरणस्युं केवल पामे । इमा भिन्नू अणगारजी


श्रीपुज्य ॥ ३३ ॥ अध्येन आठमें गीनाता सुत्रमें ।
 गुरु गुणगावे दिन रातजी ॥ गोत तीर्थंकर तेहिज
 बांधे । केवल पिण उपजे साख्यातजी ॥ श्रीपुज्य ॥
 ३४ ॥ उंच पदवी देव मानव गतमें । आद तीर्थं
 कर देवजी ॥ सर्व सुख पामे द्रुण स्मरणस्युं । सारो
 भिषण जीरी सेवजी ॥ श्रीपुज्य ॥ ३५ ॥ द्रुण स्मरण
 स्युं कटे भव भवरा । कर्म कटकदलं फोजजी ॥
 देखो सांवलिय मुनीराजरी सुरत । पुरोमनरी मोज
 जी ॥ श्रीपुज्य ॥ ३६ ॥ पाषंड पेलण हाराने विड-
 दारा भारा । बर्ण सांवल दृध दिदारजी ॥ लाली
 लोचन चाल हस्तीनी । पुज्य श्रीलखो द्रुण उणीहार
 जी ॥ श्री ॥ ३७ ॥ पंच माहाव्रत पाले दीषण टाले ।
 सूर वीरने धीरजी ॥ मुल गुण आचारज पूरा ।
 आगे हुवाउयुं माहावीरजी ॥ श्रीपुज्य ॥ ३८ ॥ वीर
 स्मरणमें पुज्य स्मरणमें । फेर नही तील मातजी ॥
 वीररी गादी श्रीपुज्य विराज्या । सगली चौथे आरि-
 रीज्यु वातजी ॥ श्रीपुज्य ॥ ३९ ॥ तिर्थ प्रवर्ताव्या
 ज्ञानरा गाढा । हीरारत्नारी षाणजी ॥ भरत धैतमें
 सोज्या नही लाधे भिषु सरीषा बुधवानजी ॥ पुज्य ॥
 ४० ॥ हुवाने वले होमी धणोगा । हिवडांतो दिसे
 नाहजी ॥ गुण घणां पिण एक जिमस्युं । कया कटा

लग जाय जी ॥ श्रीपुज्य ॥ ४१ ॥ तीर्थ प्रतीपालाने
 ज्ञान रसाला । भविकां भंजन भीरजी ॥ अमृतवाणी
 जगमें बखाणी । मीठी मीश्री खीरजी ॥ श्रीपुज्य ॥
 ४२ ॥ खीर खाइ चक्र बरत नौदासी । रत्न करे
 चक्रचुरजी ॥ खीरज्युं स्मरण सम दृष्टीने । बल ज्युं
 चढे पोरस पूरजी ॥ श्रीपुज्य ॥ ४३ ॥ गाल दियो गर्ब
 श्रीदेवीनो । बलदेख्यो तिण वारजी ॥ पोरस सम
 समदृष्टी धर्म दियो । अनुमतिनो गर्ब गालजी ॥
 श्रीपुज्य ॥ ४४ ॥ खीर खाइ एक ब्राह्मण बांगे ।
 बधियो विषय विकारजो ॥ खीरज्यु कूजन ब्राह्मणरी
 साथी । कूताज्यु कूडत गिवारजी ॥ श्रीपुज्य ॥ ४५ ॥
 सुवो मैनां पढ़ावे मानव गतमें । बाणी बोले विविध
 प्रकारजी ॥ साध्यात मैनाने कहै स्मरण कीजे ।
 समजे नही मुड़ गिवारजी ॥ श्रीपुज्य ॥ ४६ ॥ रात
 दिवस त्यारो ध्यान लग रह्यो । अनुमतरो भजन
 विशेषजी ॥ निरफल जाणे कोइ सत्य स्मरणने । गाढी
 राखे ठेकजी ॥ श्रीपुज्य ॥ ४७ ॥ द्रढ़पणो राखो भवि
 जीवां । राखो स्मरण ठेकजी ॥ रखे स्मरणस्युं ठीला
 पड़ ज्याबोतो । अनुमति करसीथारी ठेकजी ॥
 श्रीपुज्य ॥ ४८ ॥ भगवंत भजां अरिहंत सिध प्रमु ।
 अचार्य उवभाय मुनीरायजी ॥ पांच पदारो स्मरण

साक्षा । थाने तो पिण खबर न कायजी ॥ श्रीपुज्य ॥ ४६ ॥
 चार पदारो चौवुर्जगढ । सतगुर पोल दुवारजी ॥
 पोल पायां विन गढ किम पामे । ज्युं डम गुरांको
 इधकारजी ॥ श्रीपुज्य ॥ ५० ॥ गुरु स्तुती सुणो
 भवि जीवां । धारो स्मरण सील रसालजी ॥ तिख्या
 अनंता इण स्मरणस्युं । दाख्या दिन दयालजी ॥
 श्रीपुज्य ॥ ५१ ॥ एहवो महिमा गुर स्मरणरी । देवारी
 जाणो विसेषजी । जैनमें भजन नहीं डम मत कही
 ज्यो । छोड़दो कूडी टेकजी ॥ श्रीपुज्य ॥ ५२ ॥ अनु-
 मतारो जैन धर्मरो । नहीं भजन प्रमाणजी ॥ बानगी
 दीखाली एक जैन धर्मरी । अहो भजन पिछाणजी ॥
 श्रीपुज्य ॥ ५३ ॥ रही रही पाषंडी इण जैन धर्ममे ।
 मुगते पहंता अनंत अनेकजी ॥ गुरुदेवारे स्मरण
 विना । मुगतन पहंता एकजी ॥ श्रीपुज्य ॥ ५४ ॥
 मृगतणा ज्युं स्मरण थारो । कण विना थोथो
 वावे नाजजी ॥ गुण विना नांवस्युं मुगतने पामे ।
 ज्यांरा कदेइन सुधरे काजजी ॥ श्रीपुज्य ॥ ५५ ॥
 गुघुने दिवस नहीं सूजे । पांव रोगीने मीठो
 लागे खाजजी ॥ निम पान नहीं कड़वो जहर
 चढ्यानि । गुण विना भजन कर्म वस गाजजी ॥
 श्रीपुज्य ॥ ५६ ॥ भगत भिपन जीरो श्रावक मोभो ।

किधी च्यार तिरथ मन वारजी ॥ माला मोत्यांज्यु
सतगुर स्मरण । हीराज्यु हिरदे धारजी ॥ श्रीपुज्य
॥ ५७ ॥ कुगत मिटावो सुगतजावो समरो भिषन-
जीसाधजी ॥ श्रावक सोभो किरत भाषि श्रीजी-
दुवार सुगामजी ॥ श्रीपुज्य ॥ ५८ ॥

इति संपूर्णम् ।



देसी आरसी की ।

देव गुरु धर्म सुध आराध्यां । समकित होवे
तंत सारसी ॥ यया तंत दिल मांहि दरसावे । जिम
मुख दिसे आरसी ॥ सरधा विन प्राणी अेलो जनम
युंही हारसी ॥ सरधा ॥ १ ॥ वरस क्वमासी तत्र
बहु । किधा जगन पद नवकारसी ॥ सुर सुख
भोग रुल्यो चिहुं गतमें । नहीं आयो धर्म विचारसी
॥ सरधा ॥ २ ॥ संका कंषा दुरगति लेज्यावे ।

ते नरदुर निवारसी ॥ साची सरधा जे नर धारे ।
 ते नर आतम तारसी ॥ सरधा ॥ ४ ॥ कुगुरु संगत
 नर भव हारौ । दुरगत मांय पधारसी ॥ भव भव
 मांहि रुले चिहुं गतमें । नहीं हुवे कुट कारसी ॥
 सरधा ॥ ५ ॥ पढ़ पढ़ पोथा रह गया थोथा । संस्कृ-
 तने फारसी । विना बिचारी खोटी भाषा बोले ।
 ते किम पार उतारसी ॥ सरधा ॥ ६ ॥ सुध साधाने
 आल देइने । डूव गया काली धारसी ॥ कोइ सुध
 साधारी किरत बोले । ते नर जन्म सुधारसी ॥ सरधा
 ॥ ७ ॥ सुध साधारी निन्दा कर कर आतम केम
 उवारसी ॥ नरकां जावे माहा दुख पावे । परमा
 धामी मारसी ॥ सरधा ॥ ८ ॥ द्रम सांभल उतम
 नरनारी । सीख सतगुर की धारसी ॥ सुध साधारी
 कर कर सेवा । आतम कारज सारसी ॥ सरधा ॥ ९ ॥
 सुध साधारी सुधी सरधा वसला नन्दण सारसी ॥
 सुधी सरधास्युं शिवगत जायां । आवा गमण निवा-
 रसी ॥ सरधा ॥ १० ॥ सुध श्रावकरा व्रतज पाली ।
 दुरगत दुख विडारसी ॥ जन्म मरण जोख मिट
 जावे । पावे सुख अपारसी ॥ सरधा ॥ ११ ॥ मत्सर
 भाव साधांमुं राखे । वेगोइ पुन्य परवारसी ॥ इण
 भवमांहि निजरा देखो । वीटला हुवे विकारसी ॥

सरधा ॥ १२ ॥ गुण विना सेवा करे साधारौ । नहीं
सरे गरज लिगारसी ॥ कोइ हीण आचारी आपही
डूबे । तिहां तुजकेम निस्तारसी ॥ सरधा ॥ १३ ॥
सुर मुख सेवे जे नर पावे । तप कर देही गारसी ॥
पंच आश्रव परहरो प्राणी । ममता मनरी मारसी ॥
सरधा ॥ १४ ॥ तस्या तरे ने तरसी वाला । नहीं
करे पाप लिगारसी ॥ उत्तम बयण धर सिर उपर ।
ते उतरे भव पारसी ॥ सरधा ॥ १५ ॥ उगणीसे
बीस विद् चवदस । मास कातीक सुख कारमी ॥
शहर राजगढ़ दिपमालका जोड़ करी तंत सारसी ॥
सरधा ॥ १६ ॥




॥ अथ अनाथी मुनीको स्तवन ॥



राय श्रेणिक बाड़ी गयो । दीठो मुनि एकंत ॥
रूप देखी अचरज थयो । राय पुकैरे कुण वीरतंत ॥
श्रेणिक रायहु' रे अनाथी निग्रंथ । मेंतो लिधोरे

साधुजी रो पंथ ॥ श्रेणिक ॥ १ ॥ कोसम्बी नगरी
 हुंती । पितामुज पर बल धन ॥ पुत्र परवार भर
 पूरस्युं तिणरो हुं कुंवर रतन ॥ श्रेणिक ॥ २ ॥ एक
 दिवस मुज वेदना उपनी । मी स्युं खमियन जाय ।
 मात पिता भूस्या घणा । न सक्यारे मुज वेदना
 वंटाय ॥ श्रेणिक ॥ ३ ॥ पिताजी म्हारे कारणे ।
 खरच्या व्होला दाम ॥ तोपिण वेदना गड नही ।
 एहवोरे अथिर संसार ॥ श्रेणिक ॥ ४ ॥ माता पिण
 म्हारे कारणे । धरती दुःख अथाय । उपावतो किया
 घणा । पिणम्हारेरे मुख नही थाय ॥ श्रेणिक ॥ ५ ॥
 वन्धु पिण म्हारेहुंता । एक उदरना भाय ॥ उषध
 तो बहु विध किया । पिण कारीन लागी काय ॥
 श्रेणिक ॥ ६ ॥ बहिनां पिण म्हारे हुंती । वडी
 कोटी ताय । बहुविध लुण उवारती पिण म्हारेरे मुख
 नहीं थाय ॥ श्रेणिक ॥ ७ ॥ गोरडी मन मोरडी ।
 गोरडो अवला वाल । देख वेदना म्हायरी न सकीरे
 मुज वेदना वंटाय ॥ श्रेणिक ॥ ८ ॥ आंखां बहु
 आंसु पडे । सिंच रही मुजकाय ॥ खाण पाण विभुषा
 तजी । पिण म्हारेरे समाधी न थाय ॥ श्रेणिक ॥ ९ ॥
 प्रेम विलुधी पदमणी । मुजस्युं अलगी न थाय ॥
 बहुविध वेदना मे मही । वनिता रहीरे विल लाय

॥ श्रेणिका ॥ १० ॥ बहु राजवैद बुलाविया । किया
अनेक उपाय ॥ चन्दन लैप लगाविया । पिण्डहारेरे
समाधी न थाय ॥ श्रेणिक ॥ ११ ॥ जुगमे कोड
किणरो नही । तब मे थयोरे अनाथ ॥ बितरागजीरे
धर्म विना । नाहीं कोडरे मुगतीरो साथ ॥ श्रेणिक
॥ १२ ॥ बेदना जावे न्हायरी । तोलेउ' संजम भार ॥
डूम चिन्तवतां बेदना गड प्रभातेरे थयो अणगार ॥
श्रेणिक ॥ १३ ॥ गुण सुण राजा चिन्तवे । धन २
एह अणगार ॥ राय श्रेणिक समकित लीवी बान्दी
आयोरे नगर मभार ॥ श्रेणिक ॥ १४ ॥ अनाथी
जीरा गुणगांवता ॥ कटे कर्मांरी कोड गुण सुण
सुन्दर डूम भणे । ज्याने बन्दुरे वेकरजोड ॥
श्रेणिक ॥ १५ ॥



अथ जिन कल्पी साधुकी हाल लीख्यते

जिन कल्पी कष्ट उदैरिने लेवे । परिसाहा सहै
समपरिणामोरे ॥ आक्रोस विविध प्रकारना उपजे ।
तोड्ड उदैरिन जावे तिण ठामोरे ॥ सूरुं वीरारो
ओसुध मारग ॥ १ ॥ मास मास खमण कोड्ड करे
निरन्तर । इतरा कर्म कटे एक छिन मेरे ॥ वचन
कुवचन सहै सम भावे । राग द्वेषन आणे मुनि
मन मेरे ॥ सू० ॥ २ ॥ मास सवा नव जीव रछ्यो
गर्भमें । तोए दुःख कितरा दिन कारे ॥ एम विचार
सहै समभावे । सूर मुनि द्रढमनकारे ॥ सू० ॥ ३ ॥
लाभ अलाभ सहै समभावे । बले जीतव मरण समा-
नोरे ॥ निन्दा अस्तुति मुख दुःख समचित । सम-
गीणे मान अपमानोरे ॥ सू० ॥ ४ ॥ वाड्डस तेतिस
सागर तांड । जीव वसियो नर्क मभारोरे ॥ तो
किंचित दुःखस्युं सुंदलगीरी । एम विमासे अण
गारोरे ॥ सू० ॥ ५ ॥ मेघ सरिषा सीटा मुनि-
श्वर । कियो पाटुप गमण मंधारोरे ॥ खोलीमें जीव
कतां तन त्याग्यो । एकमास पहली गुण धारोरे ॥

सू० ॥ ६ ॥ सालिभद्रने धनें सरौषा । ज्यारो सुख
 माल तन श्रीकारोरि ॥ त्यांपिण मास मास खमण
 तप किधा । बले पादुप गमण संथारोरि ॥ सू० ॥ ७ ॥
 रोग रहित तिर्थंकर नो तन । तेपिण लेवे कष्ट
 उदिरोरि ॥ तो सहजांहीं रोगादिक उपना आद्र ।
 तो समा परिणामां सहै सूर बीरोरि ॥ सू० ॥ ८ ॥
 इत्यादिक मुनि स्हामीं देखी । ते कष्ट पड्यां नहीं
 काचारि ॥ अल्पकालमें शिव सुख पामें । सूर
 सिरोमणी साचारि ॥ सू० ॥ ९ ॥ नरकादिक दुःख
 तिब्र वेदना । जीव सहि अनन्ती वारोरि ॥ तो किंचित
 वेदना उपना माहामुनि । सहै आणी मन हर्ष
 अपारोरि ॥ सू० ॥ १० ॥ ए वेदनाथी हुवे कर्म निर्जरा ।
 ए वेदन थी कटे कर्मोरि ॥ पुन्यरा थाट बंधे सुभ
 जोगे । बले हुवे निर्जरा धर्मोरि ॥ सू० ॥ ११ ॥
 समचित वेदन सुखरो कारण । ए वेदनथी कटे
 कर्मोरि ॥ सुर शिवना सुख लहै अनोपम । बले हुवे
 निर्जरा धर्मोरि ॥ सू० ॥ १२ ॥ सम भावे सच्या होवे
 निर्जरा एकंत । असम भावे सच्या होवे पाप
 एकंतोरि ॥ ठाणा अंग चोथे ठाणे श्रीजिन भाष्यो ।
 इम जाणी समचित सहै संतोरि ॥ सू० ॥ १३ ॥

इति संपूर्णम् ।




(नमिनाथ अनाथारो नाथोरे एदेशी)

आदिनाथ अरिहन्त आख्यातोरे । वडो पुतर
 भरत विख्यातोरे ॥ अनित्य भावना भाद्र साख्यातो ।
 माहामुनि मोटका नित्य वन्दोरे ॥ १ ॥ गढ मढ
 मंदिर पोल प्रकारोरे । नर इन्द्र सुरेन्द्र सारोरे ॥
 नित्य नहीं सहु नर नारो ॥ माहा ॥ २ ॥ असर्ग
 भावना ऋषी अनाथीरे । एक जिन धर्म जीवरो
 सार्थीरे ॥ संजम पाली मुगत संघाती ॥ माहा ॥ ३ ॥
 संसार भावना सालिभद्र भाद्ररे । अधिक वैराग
 मन आद्ररे ॥ संजम लेड स्वार्थ मिध पाड ॥ माहा

॥ ४ ॥ नमिराय ऋषिेश्वर जागीरे । एकत्व भावना
 उर आगीरे ॥ मुनि जाय पहुंता निरवाणी ॥ माहा
 ॥ ५ ॥ पंखीनी पर भावना भल भाडूरे । कुंवर
 ऋषापुत्र उर आडूरे ॥ संजम लियो परिवार सम-
 भाडू ॥ माहा ॥ ६ ॥ चौथा चक्री सनत कुमारीरे ।
 अमुच भावना भाडू अपारीरे ॥ राज छाडि संजम
 ब्रत धारो ॥ माहा ॥ ७ ॥ समुद्र पाल एलाची दोडू
 रे ॥ आश्रव भावना जोडूरे ॥ दोनूं मुगत गया कर्म
 खोडू ॥ माहा ॥ ८ ॥ बागणी केशी हर केशीरे ॥
 सम्वर भावना उर वीसीरे ॥ हर केशी मुगत वरेसी
 ॥ माहा ॥ ९ ॥ निर्मल निर्जरा भावना भाडूरे ।
 क्व मासे कर्म खपाडू रे ॥ अरजन माली अनन्त
 मुख पाडू ॥ माहा ॥ १० ॥ लोक सार भावना
 लीव लागीरे । शिवराज ऋषिेश्वर जागीरे ॥ प्रभुपे
 संजम लेडू बैरागी ॥ माहा ॥ ११ ॥ अठाणवे पुतर
 आयारे । आदेश्वरजी समभायारे ॥ बोध दुलभ
 भावना भाया ॥ माहा ॥ १२ ॥ धर्मरुची ऋषिरायोरे ।
 धर्म भावना ते भायोरे ॥ दया पाली स्वार्थ सिध
 पायो ॥ माहा ॥ १३ ॥ एवारे भावना जी भावीरे ।
 ते नर माहा सुख पावीरे ॥ वेगो मुगत नगरमें जावे
 ॥ माहा ॥ १४ ॥ समत देणवे वरस अठारीरे ।

कातीवद् नवमी भोमवारोरे । जोड किधी मालवा
गांव मभारो ॥ माहा ॥ १५ ॥



अथ सीलकी नव बाडकी ढाल ।



श्रीसतगुरु प्राय नमी करी । श्रीजिन वरनी
वाणीरे ॥ उदाध्येन सोलमे अध्येन । ब्रह्मचार्यांरी
वाड वखाणीरे ॥ ब्रह्मचारि नव बाड विचारो ॥१॥
स्त्री पशु पंडक तिहां यानक । ब्रह्मचारी तिहां
टालेरे । मुसा मंभारी ने दृष्टंते । प्रथम वाड डम
पालेरे ॥ ब्र० ॥ २ ॥ स्त्री कथा करे नहीं मुनिवर ।
मुर नरनी मन डोलिरे ॥ निर चले निंवुरी वात
सुगंता । दुजी वाड डम बोलेरे ॥ ब्र० ॥ ३ ॥ पीठ
फलंग सीभ्यां नहीं वैठे । नारी वैठे तिण ठामो
रे ॥ वाक टूटंता उसणता आटो । वडकाचर
फल नामोरे ॥ ब्र० ॥ ४ ॥ नेह धरी नारी रूप
निरखि । फरसे अंग उपंगोरे ॥ निजर भाख्यी

सुरजथी देख्यां । चौथी वाड व्रत भंगोरे ॥ ब्र० ॥५॥
 न रहै सीलवन्त भितर अन्तर । न सुणे जांभरनो
 भ्रमकोरे ॥ हांस विलास रुदन सेवत । दृष्टन्त गाजे
 मोर ठमकोरे ॥ ब्र० ॥ ६ ॥ पुर्वला काम भोग मति
 चितारो । तिणस्युं आरत उपजे अधिकोरे ॥ अग्न
 बधे दूधणारी संगत । क्वाळ बटाउ दृष्टन्तोरे ॥ ब्र० ॥
 ७ ॥ सरस आहार विगै बली दूधको । भोगव्यां
 विष थाय बध तोरे ॥ सनिपात बधे दुध मिश्री
 पौधां । तिणस्युं विगै लौजे तुं सदतोरे ॥ ब्र० ॥ ८ ॥
 अति मात दूधको जीमे । काम भोग विषय रस जागे
 रे । सीररा ठांवेमें दोय सीर उरे । तो आठमी वाड
 दूम भागेरे ॥ ब्र० ॥ ९ ॥ चावा चंदन चरचे
 अंगा । आभुषण अति चंगोरे ॥ कृगन भगन हुवे
 बेस बणावे । नवमी वाड व्रत भंगोरे ॥ ब्र० ॥ १० ॥
 रतन अमोलक दूधक अनोपम । जिण तिणने देखा-
 वेरे ॥ रांकारे हातस्युं खोसी लेवे । व्यु सील
 रतन नगमावेरे ॥ ब्र० ॥ ११ ॥ सील पालते सुखीया
 होसी । अखी होसी नर नागीरे । सुत वचन जो
 सरधे संवला । तो मुगत जासी व्रत धारीरे ॥ ब्र०
 ॥ १२ ॥ इति ॥

जयाचार्य कृत

श्रीभिषणजी स्वामीके गुणाकी ढाल ।

स्वाम भिन्न प्रगटे । जगमाँहि किरत थडरे ॥
 श्रीजिन आणा सिर घरी । वर न्याय वाता कहिरे
 कहिरे स्वाम साचा अद्भुत वाचा कहिरे ॥ १ ॥
 आगुंच उवा ध्येनमें । इण आर पंचम मंहिरे ।
 जिन बिना शिवपंथ होसी । संत तंत सहिरे ॥ सहिरे
 ॥ स्वा० ॥ २ ॥ समत अठारा तेफना पळे । सुत्र
 संग वृध थडरे । वंक चुलिया माँहि वारता । तुं
 जोय प्रतन्न सहिरे ॥ सहिरे ॥ स्वा० ॥ ३ ॥ स्वाम
 पारण सारिषा । चिन्तामणी कर लहिरे ॥ भवदधि
 पोत उद्योत करवा । स्वाम सूरज सहिरे ॥ सहिरे
 ॥ स्वा० ॥ ४ ॥ स्वाम भिन्नू समरिया । उगणीस
 चवदे मंहिरे । विदासर चौमासमें जय जश किरत
 थडरे ॥ थडरे ॥ स्वा० ॥ ५ ॥



जयाचार्य कृत

श्रीमिषणजी स्वामीके गुणाकी ढाल ॥



नन्दण बन भिन्नू गणमें बसोरी । हेजो प्राण
जावे तोडू पग म खीसोरी ॥ नन्दण ॥ १ ॥ गण मांहि
ग्यान ध्यान सोभेरी । हेजो द्विपक मंदिर मांहि
जिसोरी ॥ नन्दण ॥ २ ॥ अबनितकी देसना नदि-
पेरी । हेजो गणिका तणे सिणगार जिसोरी ॥ नन्दण
॥ ३ ॥ टालो कडरो भणवो न सोभेरी । हेजो
नाक बिना ओती मुखडो जिसोरी ॥ नन्दण ॥ ४ ॥
दुःखदाइ खुद्र जोवा सरीकोरी । हेजो नंदक टालो
कड बमण जिसोरी ॥ नन्दण ॥ ५ ॥ सांसण में रंग
रत्ता रहोरी । हेजो सुर शिव पद मांहि वास वसो-
री ॥ नन्दण ॥ ६ ॥ भागवले भिषु गण पायोरी ।
हेजो रतन चिन्तामण पिण न इसोरी ॥ नन्दण ॥
७ ॥ गणपत कोप्यां गाढा रहोरी । हेजो समचित
सांसण माहे हुलसोरी ॥ नन्दण ॥ ८ ॥ आड डोड
चितमें म आणोरी । हेजो मोह कर्मरो तजदो न
सोरी ॥ नन्दण ॥ ९ ॥ खेल खीलास्यांरा याद करो
री । हेजो अचल रहो पिण मतिरे सुसोरी ॥ नन्दण

॥ १० ॥ वार वार सुं कहिय तुनेरी । हेजी अडिग
 पणे धेतो गणमें वसोरी ॥ नन्दण ॥ ११ ॥ उगणीसे
 गुण तीस फागुणारी । हेजी जय जश आणामें मुख
 धिलसोरी ॥ नन्दण ॥ १२ ॥

आवक सोभजी कृत

श्रीभिक्षूगणीके गुणाकी ढाल ।

मोटो फांद इग जीवरेरे । कनक कामणी दीय ॥
 उलभ रछो निकल सकुं नहिरे । दर्शणारी पद्योरे
 विक्रीय ॥ स्वामीजीरा दरशण किण विध होय ॥१॥
 कुटम्बी ऋधस्युं राचियोरे । अन्तराय सुजीय ॥
 मंगलीक दर्शण श्रीपुजनारे । मुगत पहुंचावे सोय
 ॥ स्वा० ॥ २ ॥ संसाररो मुख दुःख भोगव्यारे ।
 कर्म तणो बंध होय ॥ दर्शण नन्दण वन जिसोरे ।
 कर्म चिन्ता देवे खोय ॥ स्वा० ॥ ३ ॥ दान दया
 बोध बीजनेरे । हिरदे में दीज्यो पोय । परदेशां
 गुण विस्तररे । ज्युंसीने में रतन जडोय ॥ स्वा० ॥
 ४ ॥ चोरी जारी आद योगण तजोरे । इग भव
 परभव दीय ॥ खरची पुगव भव तणीरे । श्रीपुज

बिना कुण पुगोय ॥ स्वा० ॥ ५ ॥ साचे मोतीज्युं
 बायक श्रीपुज्यनारे । हिरदे में लीज्यो पोय । ग्यान
 सागर आयां विनारे । जीव मैल किम धोय ॥
 स्वा० ॥ ६ ॥ सोम दर्शण श्रीपुज्य नारे । हिरदेमें
 लीज्यो पोय ॥ सागर ज्युं गुण पुजनारे । गागर
 ज्युं केम टालोय ॥ स्वा० ॥ ७ ॥ गुण बिना दर-
 शण भेषनारे । कर २ डूबे सोय ॥ पुज बिना दर्शण
 किंरा करुंरे । आप समो नहीं कोय ॥ स्वा० ॥ ८ ॥
 पाषण्ड जाडो इण भरतमें रे । भिचनजी दियो
 रे विगोय ॥ भिनो चिरज्युं जुवान मरोडनरे ।
 ज्युं चरचा मे लियारे निचोय ॥ स्वा० ॥ ९ ॥ धुंवीं
 अमर घासनों रे । कस्तुरी संग लिपटोय ॥ ज्युं चित
 दरशण मांहेरो । आप इसो लियोजी मनमोय ॥
 स्वा० ॥ १० ॥ मीन कादे में तड फडेरै । कद
 मिलसी मुक्त तीय ॥ ज्युं तड फडै तुज आविकारे ।
 कमल जेम कमलोय ॥ स्वा० ॥ ११ ॥ कृष्णीरो
 मनमेहथीरे । वादल वरसे सोय । पपइया मोर
 पुकारता । ज्युंहे वाट रच्या सब जोय ॥ स्वा० ॥
 दर्शण श्रीजी दुवार मेरे । सेवक दिपक जोय ॥ भाण
 भलो जद उगसी । सोभो चरणा स्युं कमल लगीय
 ॥ स्वा० ॥ १३ ॥

॥ जयाचार्य कृत ॥

अथ मरियादा उपरदाल ।



मुणिन्द मोरा । भिषुने भारिमाल । वीर गोयम
 री जोडीरे । स्वामी मोरा ॥ अति भलीरे ।
 मोरा स्वाम ॥ १ ॥ मुणिन्द मोरा । आप मांहि
 तथा गणमें जाण । सुध संजम जाणो तोरे ॥ स्वा० ॥
 रहिवो सहीरे ॥ मोरा० ॥ २ ॥ मुणिन्द मोरा ।
 ठागास्युं रहिवारा पच्चखाण । वली अनन्त सिधारी
 साखेरे ॥ स्वा० ॥ समसहिरे ॥ मोरा० ॥ ३ ॥
 मुणिन्द मोरा । अवगण बोलणरा त्याग । गणमें
 अथवा वाहरेरे ॥ स्वा० । विहुंतणेरे मोरा० ॥ ४ ॥
 मुणिन्द मोरा । मुनिवर जे साहा भाग्य । एह
 मरियाद आराधेरे ॥ स्वा० । हित घणोरे मोरा०
 ॥ ५ ॥ मुणिन्द मोरा ॥ तीजे पट ऋपराय ।
 खेतशीजी सुख कारीरे ॥ स्वा० । मुनि पितारे
 ॥ मोरा० ॥ ६ ॥ मुणिन्द मोरा ॥ समदम उदधि
 सुहाय । हेम हजारी भारीरे ॥ स्वा० । गुणरत्तारे
 मोरा० ॥ ७ ॥ मुणिन्द मोरा । जय जगकरण जिहाज ।
 दिपगणी दिपकमारि ॥ स्वा० साहामुनिरे ॥ मोरा० ॥

- ६ ॥ मुनिंद मोरा । गणपतिमें सिरताज । विदेह
 क्षेत्र प्रगटियारे ॥ स्वा० । माहाधुनीरे ॥ मोरा० ॥
- ७ ॥ मुनिंद मोरा । अमिथचंद अणगार । माहांतपस्वि
 बैरागौरे ॥ स्वा० । गुणनिलोरे ॥ मोरा० ॥ ८ ॥
 मुनिंद मोरा । जीत सहोदर सार । भीम जवर
 जघकारौरे ॥ स्वा० । अतिभलोरे ॥ मोरा ॥ ११ ॥
- मुनिंद मोरा । कोदर तपस्वी करुण । राममुख
 ऋषि रुडोरे ॥ स्वा० । राजतोरे ॥ मोरा० ॥ १२ ॥
- मुनिंद मोरा । शिवदायक शिवसुर सतीदास मुख-
 कारौरे ॥ स्वा० । गाजतोरे ॥ मोरा० ॥ १३ ॥
- मुनिंद मोरा । उभय पिथल बर्धमान । साम राम
 युग बंधवरे ॥ स्वा० । नेमस्युरे ॥ मोरा० ॥ १४ ॥
- मुनिंद मोरा । हीर बखत गुण खाण । थीर पाल
 फते सु जपौयरे ॥ स्वा० ॥ प्रेमस्युरे ॥ मोरा० ॥ १५ ॥
- मुनिंद मोरा । टोकरने हरनाथ । अखय राम मुख
 रामजरे ॥ स्वा० । द्रश्वरुरे ॥ मोरा० ॥ १६ ॥ मु-
 निंद मोरा । राम संभु शिव साथ । जवान मोती
 जाचारे ॥ स्वा० । दमीश्वरुरे ॥ मोरा ॥ १७ ॥
- मुनिंद मोरा । इत्यादिक बहु संत । बले समणी
 सुखकारौरे ॥ स्वा० । दिपतीरे ॥ मोरा० ॥ १८ ॥
- मुनिंद मोरा । केलु माहागुणवंत । तीन बन्धव नी

सातारै ॥ स्वा । जीपतीरै ॥ मोरा० ॥ १६ ॥ मुणिंद
 मोरा । गंगा नै सिणगार । जैतां दीलां जाणीरै ॥
 स्वा० । माहा सतीरै ॥ मोरा० ॥ २० ॥ मुणिंदमोरा ।
 जोतां माहा जश धार । चम्या आदि सयाणीरै ॥ स्वा० ।
 दिपतीरै ॥ मोरा० ॥ २१ ॥ मुणिंद मोरा । सांसण
 माहा सुखकार । अमर मुरी अदष्टायकरै ॥ स्वा० ।
 दायकारै ॥ मोरा० ॥ २२ ॥ मुणिन्द मोरा । दववन्ती
 जैयन्ती सार । अनुकुल बली इन्द्राणीरै ॥ स्वा० ।
 सहायकारै ॥ मोरा० ॥ २३ ॥ मुणिन्द मोरा । उ-
 गणी से पनरे उदार । फागुण सुध तिथि दसमीरै ॥
 स्वा० । गाड्योरै ॥ मोरा० ॥ २४ ॥ मुणिन्द मोरा
 जय जश सम्पति सार । विदासर सुख सातारै
 ॥ स्वा० ॥ पाड्योरै ॥ मोरा० २५ ॥

॥ ऋगजी कृत ॥

श्रीपुज्यगणीके गुणाकी ढाल ।

(देशी असवारीकी)

गादी वीर गणेश्वर गहरा । भिन्नू मध इधकारी ॥
 समय बुज दधि सार विलीकी । प्रगट कियो । मग
 सारीजी ॥ महाराजा धारी सोभते गण वन व्यारी ॥

सांसण पत जिन इन्द्र तणीपर । लागत छिव भंवि
 प्यारौ ॥ १ ॥ धर्म नागेन्द्र सभौबर सखरी । आपथया
 असवारी ॥ आण सैन्यांकर भाल अनोपम । पापंड
 मत दियो पारीजी ॥ माहा २ ॥ गण वृध करण वरण
 शिव बांधी । वर मरियाद उदारी ॥ एक गणपतनी
 आणामें रहिवी । मुनि मघ लग इकतारीजी ॥ माहा
 राजा थारी मरियादा सुखकारी ॥ वर भिन्नूना
 बयण आराध्यां उभय भवे हितकारी ॥ ३ ॥ कर्म
 जोग गण बाहिर निकसे । एक बेतण जे अविचारी ॥
 तेह भणी साधु नही गीणवो । बले नहीं तिर्थ मभा-
 री जी ॥ माहा ॥ ४ ॥ इम बहु लीखत लीखी दृघ
 मालं । थाप्या गण सिणगारी ॥ गुण जश परिमल
 महक रही वर । गणी सुधर्म जिमथारीजी ॥ माहा ॥
 ५ ॥ सितांसुसादृश सीतलता । सांत दांत सुखकारी ॥
 जंबु स्वाम जिसा पट तीजे । राय शशि ब्रह्म चारी
 जी ॥ माहा ॥ ६ ॥ पाट चतुर्थं जबर गणीजय ।
 इधक कियो उजियारी ॥ वर मरियाद सुं कोट
 ओट कर । उपम करी विपतारीजी ॥ माहा ॥ ७ ॥ मुनि
 अज्या पुस्तक गण वधी । दिन २ इधक तुमारी ॥
 आदेज वयैण अधिक फुन अतिसय । अरिहन्त ज्युं दूण
 थारीजी ॥ माहा ॥ ८ ॥ जो जिनदेखन हुंसहुवे दिल

तो देखो नी जय दिदारी जो मन खंत करण प्रश्नरी ।
 तोगणी श्रुत केवल धारीजी ॥ माहा ॥ ९ ॥ बीर
 गोयमरी जोड निरखणरी । हुवे भवि मन मकारी ॥
 तो जय गणपत मुनि मधवा वर । पैखल्यो नयैन नि-
 हारीजी ॥ माहा ॥ १० ॥ सहु मुनि मंडण करण
 आणन्दन । मुनि मधराज नितारी ॥ वर गुण वन्दण
 सुखके कन्दण । पद युगराज प्रकारीजी ॥ महाराजा
 थारा । सिष्य वडा सुखकारी ॥ मतिवन्ता युगराज
 मुणिन्दरी जोग मुद्रा क्वि प्यारी ॥ ११ ॥ विनय वि-
 वेक विचक्षण वारु' । मुनि अज्याहितकारी ॥ सतिय
 गुलाव तणीवर महिमां । सतियांमें सिणगारीजी ॥
 महाराजा थारी । सिषणी माहा सुखकारी ॥ पद युग
 राज तणी वर वहनी । गण वत्सल गुणसारी ॥ १२ ॥
 उगणीसें वर्ष तीस माहाग वर । सुक्त सप्तमी सारी ॥
 वर गणीराज मरियाद द्विटावत । छोग हर्ष हुंसि-
 यारीजी महाराजाथारी । मरियादा सुखकारी ॥ वर
 भिच्छूना वयण आराध्यां । उभय भवे हितकारी ॥

॥ इति ॥

श्रीपुज्य गणीके गुणाकी ढाल ।

(धौठामं धौठमें क्या विगाढ्या तेरा एदेशी)


माहावीर गादी धर सोहै । भिन्नू गणी गुण
 वृन्दा ॥ जी निमल भणी युग नाण भाणसा । प्रगव्या
 जेम जिणन्दा ॥ भिन्नूगणीराज धर्या तंत पंथ तेरा ॥
 लेवा शिवराज निरणय किया भलेरा । जी विवध मरि-
 यादा बरबहु बांधी आगम न्याव नवेडा ॥ भिन्नू ॥ १ ॥
 एक बैत्रण जे आद टोलाथी । निकसे दुरमति वरणा ॥
 जी वे मुख नन्दक टालोकर चिहु' तिरथमें नहीं
 गीणना ॥ ज्ञानी गुणवन्ता न करणा सप्रसंगा ॥
 सुगुणा मतिवन्ता जाणे तास भुयंङ्गा ॥ २ ॥ कलुष
 भाव गणपतना गणथी । आणे निपट मिरलजा ॥ जी
 कुरव कायदो सबही खोवे । बांधे अपयश ध्वजा ॥
 पुद्गल मुख बरवा समकित चर्ण गमावे ॥ लागे फल
 कडवा जगमें फिट फिट धावे ॥ ३ ॥ गणपतने गण
 थो गुणवन्ता । अनुकुल लीन सुचंगा ॥ जीमुक्ती हल
 भल माल सरीषा लागे बिनय प्रसंगा ॥ सांसण वन
 रमीयां मिटे जन्म मृत्यु फेरा ॥ गणी आणांमें बैयां
 देवे सुगत गढ डेरा ॥ ४ ॥ भिन्नू भारिमाल नृप इन्दु ।
 चौथे जय माहाराजं ॥ जी आक्षी जिनमग ओप
 चंढाड माहावीर सम आजं ॥ गणाधिप गणपत तुम

चरणे चितमेरा ॥ दिजे शिव सम्पत सर्ग लियामें
 तेरा ॥ ५ ॥ शशि सम सोम प्रकृत सुखमालं । अति
 सय धर युगराजं । जी सतियां मांहि सति सीरोमण ।
 गुलाब कुंवर सिरताजं ॥ मुनिराज सतियां धरो
 सिस जय सीको ॥ युगराज मुणिन्द मघराज तणी
 ग्रहो सीखो ॥ ६ ॥ उगणीसे गुण तीस माहाग सुद ।
 विदासर रंगरेला । जी भरियादा मोत्सव दिन
 निका चिहुं तिरथां ना मेला ॥ भिन्नू गणीराज धर्या
 तंत पंथ तेरा ॥ ७ ॥

इति ॥


॥ मोतीजी स्वामी कृत ॥

श्रीपुज्य गणीराजके गुणाकी ढाल ।



पंचम आरे मफार ॥ हो सुखकारीरे सुगणा ॥
 भिन्नू प्रगटे भविजन ॥ भवो दधि तारवारेलोय ॥
 आगम वच अनुसार ॥ हो सुखकारी रेसुगणा ॥ मानुं
 जिन जिम जाहिर । जगत उधारवारे लोय ॥ १ ॥
 तुम वाणी हे जाणी अमिय समान ॥ हो० । सु० ।
 सु० । गुण खाणी हित आणीरे । धाग्यां हिया मभेरे

लीय ॥ अजर अमर सुखदान ॥ हो० । सु० । सु० ।
 मन बंछित कारज । सारे ते सहु सभरे लीय ॥ २ ॥
 रटतां जिहां तुम नाम ॥ हो० । सु० । सु० । कटता
 पुदगल थ्यासारे । फटता कर्म रिपुरे लीय ॥ पटता
 शिव सुख धाम ॥ हो० । सु० । सु० । हटता पुदगल
 थ्यासारे । घटता जे बपुरे लीय ॥ ३ ॥ साठे भिन्नू
 कियोहै संधार ॥ हो० । सु० । सु० । सात पोहर
 लग पालीरे । परभव पांग्यारे लीय ॥ तसु पट गरु
 मल सार ॥ हो० । सु० । सु० । जंबु स्वाम तणी पर ।
 नृपशशि संच्यारे लीय ॥४॥ चतुर्यथये जय जयवन्त ॥
 हो० । सु० । सु० । मघराजा युगराजारे । सरद शशि
 जिसीरे लीय ॥ सतीय गुलाबांजी गुण तंत ॥ हो० ।
 सु० सु० । भाद्रवे सुक्त तयोदशी । मन आणन्द इसीरे
 लीय ॥ ५ ॥



श्रीकालु गणीराजके गुणाकी ढाल

श्रीकालु गणिन्द समररे ॥ ए आंकडी ॥ पंचम
 आरके धराधुर जिनसम । प्रगटे भिन्नू मुनिवररे ॥
 पुज्य तणी प्रतीत राखकर । मुगत पंथ पग धररे ॥
 धररेर धररे ॥ श्रीकालु ॥ १ ॥ भिन्नू सिधान्त मांदि
 फरमायो । ठाम ठाम जिनवररे ॥ तेहिज नाम
 आय अवतरिया । दिपां उर गणी वररे ॥ वररे
 २ वररे ॥ श्रीकालु ॥ २ ॥ तसु पाटोधर दध
 मुनिश्वर । नृप शशि पट पुसकररे ॥ युग पट
 जीत जवर जोगिन्दा । सरपट मघ अघ हररे ॥
 हररे २ हररे ॥ श्रीकालु ॥ ३ ॥ पटघट षट किया
 अति माणिक । सप्तम डाल समररे ॥ जवर आचा-
 रज हुवा भरतमें । तसु आशा सिरधररे ॥ धररेर
 धररे ॥ श्रीकालु ॥ ४ ॥ वसु पट स्वाम कालु
 गुण सागर । आगर जिम बुधि धररे ॥ शशि सम
 विमल गंभीर दधिसम । तसु नमण करुजोडी कररे ॥
 कररेर कररे ॥ श्रीकालु ॥ ५ ॥ मानव नीं भव दुलभ
 जेहनी । आसा करत अमररे ॥ पुन्य उदय सतगुरनी

संगत । आण मिल्यो अवसररे ॥ सररे २ सररे ॥ श्री
 कालु ॥ ६ ॥ करण दरश सफर्स चरण मुज । मन
 अभिलाषा कररे ॥ पिण अध उदय नहोसके प्रभु ।
 होसीते दिवस जवररे ॥ जवररे २ जवररे ॥
 श्रीकालु ॥ ७ ॥ शशि निध षट सप्त अरध काती
 सम । लक्ष्मी दिन सुखकररे ॥ हस्त मुख हर्षसंगावे ।
 अल्प बुधि अनुसररे ॥ सररे २ सररे ॥ श्रीकालु ॥ ८ ॥





(अवतो सुरत दीखावोजी जोडीरा भरतार एदेशी)

स्वामी म्हारा द्रुणहिज पंचम आर । भविजन
तारण भिचू प्रगटे भरत मभार ॥ प्रगटे भर्थ मभार ॥
सादृश जिनवर जिम अवतारहो ॥ प्रगटे भर्थ मभार ।
सादृश जिनवर जिम अवतार ॥ देखो तेरा पंथ तंत
सार । हुं वलिहारी वारुंवार ॥ थिर मन करके
सेवो कालु गण सिणगार ॥ १ ॥ स्वामी म्हारा तमु
पट दृघ मुणिन्द । तृतीय पट नृप द्रन्दु सोहै । जिम
उडूगगमें चंद ॥ जि० २ ज्यांरो तपतो तेज दिनन्द
हो । जि० २ गाले हरिवर जेम गणिन्द । ज्यांरो नाम
लियां निस्तार ॥ थिर ॥ २ ॥ स्वामी म्हारायुग जय

जश सुखकार । शर पट मघ अघ हरियाजी । जमा
खड्ग कर धार ॥ ज० २ रस पट माणिक गण सिण
गारहो । ज० ज्यांरि महिमा अगम अपार । हुं नित
बन्दु बार हजार ॥ थिर ॥३॥ स्वामी म्हारा पर्वत पट
डालचंद्र । बसुपट पे थट काजेजी । कालु गणद्वन्द ॥
का० २ माता सती छोगांजीरा नंद हो । का० ज्यांनि
सेवे सुर नर वृन्द । ज्यांरो तेजस्वी दिनकार ॥थिर॥४॥
स्वामी म्हारा गुण षट तीस उदार । उपम षट दश
सोहै जी । मन मोहै नरनार ॥ म० २ ज्यांरि अष्ट
सम्पदा सार हो । म० ज्यांरि बाण सुधामृत धार ।
ज्यांरि गुणकी छेह न पार॥थिर॥५॥स्वामी म्हारा सायर
जेम गंभीर । रविवत तेज सवायोजी । मेरु नी पर
धिर ॥ मेर अतिसय ओपत जिम माहावीर हो । मे०
बाणीनिर्मल गंगनो नीर । किरती छाद्र लोकमभार॥
थिर ॥ ६ ॥ स्वामी म्हारा गुण को अन्त न पार ।
अमर पतिज्यो सहंस्र जिह्वा कर । गायां नविलह
पार॥गा० २तो म्हारी कुण चिकार हो॥गा० म्हारे आप
तणो आधार । नित उठ ध्याउं सांभ सवार ॥ थिर
॥ ७ ॥ स्वामी म्हारा दाश अरज अवधार । चतुर
मास फरमावोजी । चंदेरी शहर मभार ॥ चं० २
सुण २ हर्षे बहु नरनार हो । चं० थांरि बाणी सुण

सुखकार । भविजन भवसें उतरे पार ॥ धिर ॥
 ८ ॥ स्वामी म्हारा शशि निध षट अरिधार । फाग
 मंजु चित चायो । तिथी प्रथम चंद्रवार ॥ ति० २
 काङ्क लाडणुं शहर मभार हो । ति० महालुहिरदय
 हषं अपार । गाङ्क अल्प बुधी अनुसार ॥ धिर ॥ ९ ॥

श्रीकालुगणी के गुणाकी ढाल ।

(सोहीरे सयाणा अवसर साजे एदेशी)

श्रीभिक्षू पट अष्टमें छाजे । कालु गणिन्दा सिंह
 जिमगाजे ॥ गुण षट तिसे सोभत स्वामी । षट
 सम्पदा वहु विध पामी ॥ महेर करो मुज नगरी
 स्वामी । करो चौमासो अन्तर जामी ॥ ए आंकड़ी ॥
 १ ॥ शशि सम सीतल वदन तुमारो । रवि. सम
 तेज प्रताप तिहारो ॥ पातिक दुर पुलायो स्वामी ।
 तुम दरशणु घी शिव मुख पामी ॥ महे ॥ २ ॥ जमा
 खड्ग लियो प्रभु निकी । देखी पाषंडि पडगया
 फिकी ॥ कल्प तरु सम नाथ हमारो । सेवा वंछित
 फल दातारो ॥ महे ॥ ३ ॥ प्रभुके चरण कमल कुं
 भेटे । भव सागर कलतां ने भेटे ॥ प्रभुकी सीख सदा
 सुखकारी । सेवा पातिक दुर निवारी ॥ महे ॥ ४ ॥

मही निध गुणतर वर्ष सु सारो । चैत कृसन पञ्चमी
गुरुवारो ॥ फूल फगर नेमीं गुण गावे । रिभमें चतुर
मासो चितचावे ॥ महेर करो मुज नगरी स्वामी
करो चौमासो अन्तर जामी ॥ ५ ॥

॥ माहा सत्यांजी माहाराज श्री कान कंवरजी कृत ॥

श्रीकालु गणिराज के गुणाकी ढाल ।

पंचम अर्के प्रगधारे । पंचम अर्के प्रगध्या ।
कांद्र भिन्नू भविजन कुंतारी ॥ निमल अनोपम
युगल नाण स्युं । मिथ्या तिम्र मिथ्यो सारी ॥ अजी
मिथ्या तिम्र मिथ्यो सारी ॥ अजी श्रीजिन सीकी
सिरधारी ॥ स्वाम भिन्नूनी मरियाद अछी है । सुख
पावे तिरथ च्यारी ॥ १ ॥ वसु पाटो धर दिप तारे ।
व० । कांद्र कालु गणी गुण जिहाज स्वामी ॥ इधक
उजागर गुण निध सागर । अवतरिया अन्तरयामी ॥
अजी अव० । अजी नमण करुमें सिरनामी ॥ पर्वल
पण्डिताद्र देख गणिन्दकी । अहो २ भवि अचरज
पामी ॥ २ ॥ समौसरण रचना भणीरे । स० । कांद्र

संसकृतमें वाचंदा ॥ काव्य कोश टीका फरमावे ।
 भवि जन सुणसुण हुल संदा ॥ अजी भवि० । अजी
 वहा वहा मुल छोगां नन्दा ॥ सभा सुधर्मी सक्र तणी
 पर । वाक्य सुधा घन वर्षंदा ॥ ३ ॥ सांसण नन्दण
 वन जिसोरे । सां० । कांडू काम कुंभ जिम सुख
 दाइ ॥ चिन्तामणी सम चिन्ता चुरक । कित्त लता
 रहीछाडू ॥ अजी कित्त० ॥ अजी मुगती देइ सर्गे
 आइ ॥ दिनदयाल गरीव निवाजा । दया मया
 रखीय सारी ॥ ४ ॥ सतियां मांहि सोभतारे । स० ।
 कांडू जेठाजी सती सुखकारी ॥ समत उगणीसे ।
 वर्ष अडसठे गुणगाया मेधर प्यारी ॥ अजी गुणा० ॥
 अजी मरियादा मोहोत्सव भारी । दिन क्रांती वधो
 सवाइ तपज्यो गणि वर ध्वतारी ॥ ५ ॥



श्रीगुलाब कंवरजी माहासत्यांजी माहाराज
 के गुणाकी ढाल ।



स्मरण सुखकारीरे । करो नरनारीरे ॥ सतीरे
 गुलाब ॥ गुण गुलकारीरे । फैल्यो जग भारीरे ।

सतीरे गुलाब ॥ ए आंकड़ी ॥ सतीतणो स्मरण करोरे ।
 उगन्ते प्रभात ॥ स्मरण कक्षां संकट मिटे । ज्यांरा
 विघन दुराटल ज्यायरे ॥ स्मरण ॥ १ ॥ मुख सतीको
 झसो सोभतो । जाणे पुनम चंद्र ॥ जीवतडांरा नयैन
 ठरे । कांडू उपजे घणो आणन्दरे ॥ स्मरण ॥ २ ॥
 सती सिरोवण गुण निलारे । ज्ञान गुणाकी जिहाज ॥
 वीरमुख आगल चंद्रमाला । पुज मुख आगल हुंता-
 परे ॥ स्मरण ॥ ३ ॥ एकवेर स्मरण करे सती तणोरे ।
 भव २ में गुण थाय ॥ उठ परभाते भजन करे ज्यांरा ।
 पाप दुराटल ज्यायरे ॥ स्मरण ॥ ४ ॥ सतियांमे सारां
 सीरेरे । सती सीरे गुलाब ॥ गुण देखी कुरबबधा-
 रियो । ज्यारि किरत फेली चिहुं दिश मांयरे ॥
 स्मरण ॥ ५ ॥ गण पतनी आज्ञा भणीरे । सतीपाले
 साहा सीख ॥ भविजनने प्रतिबोधिया । सती कर
 लियो सुगतनजिकरे ॥ स्मरण ॥ ६ ॥ समत उगणीसे
 बयालीसमेंरे । साहा सुद विज गुरुवार ॥ सती तणा
 गुण गाविया । आमापुरी शहर मभाररे ॥ स्मरण ॥ ७ ॥

अथः आषाढ मुनिको व्याख्यान ।

दुहा । सांसण नायक मुख करु । बंदु विरजिणंद ।
 सेवकने सुर तरु समो । पुरण प्रमानन्द सहको जिन
 वर उपदिशे । दान सील तप भाव । धर्म मुल एहोज
 धुरा भवसागरकी न्याव ॥२॥ भाव विसिषे भविकजन ।
 एहमें अधिक मुजाण । भाव सहीत तप जप करे ।
 तोपहुंते निर्वाण ॥ ३ ॥ भाव विना भक्ती किसी ।
 भाव विनासी दीख । भाव विना भणवो किसी । भाव
 विनासी सीख ॥ ४ ॥ दूण पर भावे भावना । जिम
 आषाढ मुनिस । कर्म मेल खैरुं करी । केवल लक्ष्यो
 जगौश ॥ ५ ॥

॥ ढाल १ ली ॥

राणा पुरो रलियामणोरे लालए देशी ॥ दक्षिण
 भगत माहि भलोरे लाल पुर्व दीश प्रधान ॥ मुख
 कारीरे ॥ राजग्रही रलियामणोरे ॥ लाल ॥ इन्द्रपुरी
 उपमान । सु । राज ॥ १ ॥ सोहै चोगसी चौहटारे

लाल । व्यापी कुप आराम । सु । अहो निसी जिहां
 रहै देवतारे लाल । तिहां रहिवा विश्राम । सु ॥२॥
 लोक सकल सुखिया बसैरे लाल । धनकरी धनंद
 समान । सु । ले लाहो लक्ष्मी तणोरे लाल ।
 पुरुषतिके पुन्यवान ॥ सु ॥ ३ ॥ अरिहन्त देवांगी
 आसतारे लाल । श्रावक कुल सिणगार । सु० ।
 धर्म धुरंधरमें धुरारे लाल । कै द्वादश ब्रत धार ॥
 सु ॥ ४ ॥ नालदे पाडे बसैरे लाल । तिहां श्रावकानी
 जोड़ । सु । श्रीमुख बीर परसंसियारे लाल । घर साढ़ी
 धारा कोड़ । सु ॥५॥ पर्वत च्यारकै पाखतीरे लाल ।
 विभार विपुलगीरी जाण । सु । उदय सोहन रत्न
 गीरीरे लाल । नरम जिसातिहां बखायण । सु ॥ ६ ॥
 सालभद्र धनो तिहारे लाल । एकादश गणधार
 सु । कर अणसण श्राधनारे लाल । पुंहुता मोष
 मजार ॥ ७ ॥ लास्वी हात क्कीयाल कैरे लाल । प्रगट
 प्रसिध सुसाल । सु । चौदे चोमासा तिहां कियारे
 लाल । श्रीवीर जिगन्ददयाल । सु । ८ ॥ पहली टाल
 पुरिथईरे लाल । अलवेला नी जात । सु । मान
 सागर कहै सांभलोरे लाल । नगरी तणो अवदात ।
 ॥ सु ॥ ९ ॥

दोहा । ग्राम नगर पुर विचरितां । छाडी मन

अहंकार ॥ पंच सया स्युं परवस्था । धर्म रुची अणुगार
 ॥ १॥ समय सत्य तिण अवसरे । राज ग्रही उद्यान ॥
 तास शिष्य आघाड मुनि । लब्धी गुण भंडार ॥ २ ॥

ढाल दूर्जा ।

तीन बोझां करी जीवनेजी अल्प पाउ ।

मुनिवर बहेरण पांगर्या ॥ सखी ॥ लेइ सतगरु
 आदेश । छठतणो छै पारणो ॥ सखी ॥ नगरीमें कियो
 प्रवेशरे । मुनिवर नव जीवन वेसरे । सोभे सिर
 लुंचित केशरे । चित लोभ नहीं लव लेशरे । मन
 मोहन गारोरे साधजी ॥ १ ॥ पतली उट्टी पकैवडी
 । सखी । मुनिवर अंग सुरंग । मयंगलनी पर मा-
 लती । सखी । निर्मल गंग तरंगरे । जाणे लाग्यो
 चारित स्युरंगरे । रुपेकरीजेम अनंगरे । जाणे छोड्यो
 प्रमादनो संगरे ॥ २ ॥ भमरतणी पर बहुभमे । सखी ।
 लह मुनिवर सुध आहार । सुर तपे सिर आकरो ।
 सखी । पिंड भरु जल धाररे । ऋषि उपशम रस
 भंडाररे । जाणे जोत्या विषये विकाररे । अति पञ्च
 माहाव्रत धाररे ॥ ३ ॥ मुनिवर आयो वहिरवा ।
 सखी । गाथा पतिने गेह । दीठो मुनिवर दीपतो ।

॥ ३ ॥ पायाजकी । घड्डी साप करार ॥ ३ ॥

कपु रंभा सायली । कुन्दाणी अविहार ॥ ३ ॥

सुनिवर मन स'स्य पड्या । पड्ड कपकी रीज ॥ २ ॥

रुह ॥ १ ॥ आणी उभा आयाज । जाली चमकी वीज

जगह । नटवी दिठ्ठी नय्या अर । पड्डी लोभे

देवा । वीजे दिवसे वहरवा । आया उ

पासाजी पुन्य प्रकार ॥ २२ ॥

नटवी करे विचार । सुनि विनासाया अविहार

सांभला ॥ सखी ॥ सांभलाया सुख कार । वि

कली सखी । मोठी रंग सहर । मान सागर क

रु । पड्डे मोडवी चूपर ॥ ११ ॥ वीजे टाले ट

सुनिवरनी अकल सकपरे । लव्हे कही नवनवा

राज लोक रोभीवर । सखी । रोभा भला भला भूपरे

जा नटवी रूवे आपण । सखी । तो भयिष धन क

जही समभायरे । सुतरक सम प कवि रोयरे । १

आवे देयरे । नटवी निज मंदिर जायरे ॥ पुढे

सुनिराय । जे जोडयते लीजिय । सखी ॥ जो व

॥ २ ॥ ल'वा महेल वि उलयो । सखी । नट वी

सखी । चिसकी चरित तेहर । आयो मुनिवर अम
 गहर । हूँ करी पुरित तेहर । मोदेक दोषो धरि
 तेहर ॥ ४ ॥ मोदेकले मुनिवर बल्यो । सखी ।
 चिनव चित मकर । एमोदेक मुज गुरु भयो । सखी ।
 कियो एह विचार । मुनि लखेनयो भंडार ।
 कियो तिया फप उदार । बले आयोदौजा वार । ५ ।
 आयो मोदेक लेबल्यो । सखी बली चिनव मुनिराय ।
 एविद्या गुरु करायो ॥ सखी । थियर फपबली यार ।
 अति गलीत पलीत थई काय । लई थंडतासुके
 पाय । लीजा बला तिहां जाय ॥ ६ ॥ जोसो देखी
 दुबली । सखी । देख थई देलगीर । बहराव कफ्या
 करी ॥ सखी । जाय रखा एकलीर । बली चिनव
 मन बड वीर । इयासे लख थिखानो सीर । गुरु
 पासु भयो चिसकीर ॥ ७ ॥ कृक बडवो वामयो ।
 सखी । वाम वरगा कर हूँगा । काणी कोवो अंखडी ।
 सखी । गौड रखा ले लीनर । देविर कियो अति
 खीणर । लीण फप रयो अति दोनर । बोले मुख
 अति प्रवीनर ॥ ८ ॥ बोली बला आवियो । सखी ।
 तियाहिज वरने वार । पही जाभ्या प्रेमकोही ॥ सखी ।
 मोदेक मुख आवार । लेख मुनिवर किय विहार ॥

पातालकी । घड़ी आप करार ॥ ३ ॥
 कप रंभा सावणी । कुन्दाणी अजहार ॥ कृ पदेम
 सुनिवर मन स'सय पजा । पद कपकी वीज ॥ २ ॥
 नर ॥ १ ॥ आणी लगी आया । जणी वपकी वीज ॥
 जगह । नटवी दिट्टी नया मर । पही लो मरि
 देहा । वीही दिवस वहरवा । आयो लहि
 पासाजी पुन्य प्रकार ॥ २२ ॥
 नटवी करे विचार । सुनि विजासा अजहार ।
 साभला ॥ सखी ॥ साभला सुख कार । विहे
 कली सखी । सीटी रोग मरहार । मान सागर कहे
 रे । पहेले सीट्टी वृपर ॥ ११ ॥ वीही टाले टाल
 सुनिवरनी अकल सफर । लदे कही नवनवा कप
 राज लोक सीकवह । सखी । सीके भला भला मर ।
 जो नटवी हवे आपणी । सखी । जो मरिय धन रूप ।
 जही समभायर । सुतरक सम प कलि रोवरे । १० ।
 आवे देयर । नटवी निज मरिदे जावर ॥ पुवीन
 सुनिराय । जे जोइयते लीजिय । सखी ॥ जो कहे
 ॥ २ ॥ व'वा महल वि लतयो । सखी । नट वाया

दियो । जाय लागोरे । तेनहींसके उठ ॥ ८ ॥ भवन
मुन्दरी जय मुन्दरी । समभावेरेर एतीजी ढाल । मान
कहै समभ्यांपछै । धन्यासरीरे २ । राग विशाल ॥६॥

दोहा । करजोडी बिनती करे । सुग सस्नेही
साध ॥ घर घर भिष्या मांगने । कहोनी कुण फल
लाध ॥१॥ द्रुसी सीख किम मानिय । लही मानव
अवतार ॥ जिण ए भोगन भोगव्या । किण लेखे अव-
तार ॥ २ ॥

ढाल चौथी ।

रामचन्द्रके बागं चांवेसोररइरी ।

सुग सस्नेहा संत । कामण अरज करेरी ॥ धे
गीरवा गुणवन्त । घर २ कांथ भसोरी ॥ १ ॥
याकुण दिधी सीख । योवन दिख्या ग्रहोरी ॥ घर २
मांगो भिष । कहो कंहि सिध लहिरी ॥ २ ॥ किणरे
धुतारी धुर्त । चितडो चोर लियोरी ॥ वली कियो
अवधुत । फिर फिटकार दियो री ॥ ३ ॥ फीरो
उवराणे पाव । सुग आषाढ मुनिरी ॥ सुखोलुखो
खाय । तिहां कहां सिध सुगीरी ॥ ४ ॥ पर्हारि
माला वेश सोचन कछु कियोरी । मस्तक लोच्या

केश । देही दुख दियोरी ॥५॥ लुल लुल लागुं पाय ।
 साहिव कछो करोरी ॥ थे सहुने मुखदाय । हमसें प्रीती
 करोरी ॥६॥ परणो जीवन वेश । नर भव सफल करो-
 री ॥ सुध बिना केश । कामण चित धरोरी ॥ ७ ॥
 सुण सस्नेहा स्वाम । भेष परो तजोरी । थेहम आतम
 राम । मंदिरसेज सजोरी ॥८॥ फूल विछाई सेज । नवर
 भांत भलीरी ॥ करे हीरणादि स्युंहेज पुरो चित रली
 री ॥ ९ ॥ तुम हम मिलवा कोड । मंदिर आय वसी
 री ॥ जासी जीवन छोड़ । बैठा हात घसोरी ॥ १० ॥
 इम नटवी जल पंत । चरण आय लगीरी ॥ नेह निजर
 नीरखंत । देखी प्रीत जगीरी ॥११॥ कामणने सम-
 भाय । मुनिवर बात कहिरी ॥ गुरकुं पुकुं जाया आविस
 तुरत सहिरी ॥ १२ ॥ मान सागर कविराय । चौथी
 ढाल भणीरी ॥ कामणनेवस थाय । हिवे आषाड मुनि
 री ॥ १३ ॥

दुहा । बाट जोवि मुनीवर तणी । सतगुरु नयण
 निहाल ॥ एहवे आषाड मुनिवरु । तिहां आयो तत
 काल ॥१॥ वछ असुरा आविया माथे चठियो सुर ॥
 सतगुर शिष्यने पुछियो । वेलि शिष्य करु ॥२॥ घरर
 भिष्या मांगवी । घणो सन्तायो भिष । सिर सुर्य पग
 ल्यातपे । तपावली तुम सीख ॥३॥ ए उगाए । मुमती

एह तुमारो भेष ॥ सद्धान जावे खीण २ खारा वयण
विशेष ॥ ४ ॥ बोल बांधी हुं आवियो । करी नटवी
संकेत ॥ रह्यो न जावे भोग बिन । नटवी बांध्यो
हेत ॥५॥ हमने तुम आदेश दी । तीनटवी घर जाय ॥
भोग भलैरा भोगउ' । हम कुंधयो उछाय ॥ ६ ॥

ढाल पंचमी ।

इण सरवरीयरीपाल उभादीय राजवीहो लाल उ० ॥
पभणे सतगुरु सौख । सुणो शिष्य । बावलाही ॥
लाल सु० । पर रमणीरे काज । थया किम आकुला
हो । लाल थ० ॥ १ ॥ पंचमाहाव्रत धार । इस्यो
तुम किम घटे हो० ॥ जाप जपे तुम नाम । लियां
पातिक कटे हो० ॥ २ ॥ रत्न चिन्तामण हाथ ।
दाष कहो कुण ग्रहे हो० ॥ गेवरघुमे वार । गधो
कुण संग्रहे हो० ॥ ३ ॥ वर छांडिजे प्राण । हुता
सगामें बलीहो० ॥ चारित्र रत्न नछोड़ । मकर नारी
बली हो० ॥ ४ ॥ तपकर आतम सोष । इट्टी बस कि
जीय हो० ॥ संजम विधस्युं पाल । बहुत जग लिजोय
हो ॥ ५ ॥ नगमे सतगुरु सौख । कहै गुरु शिष्य भणी
हो० ॥ मुभमन एहिज मोज । ग्रहे वसवा तणी

हो ॥ ६ ॥ हमकुं द्यो आदेश । शिष्य कहै बली २
 हो ॥ जिग कुल मदरा मांस । तिहां रहिजोटीही ॥७॥
 देखीस मदरा मांस । भक्षण करती सहीही ॥ तजस्युंत
 तक्षिण तेह । तिहां रहिस्युं नहीही ॥ ८ ॥ हिवे
 आषाड़ मुणिन्द । आयो नटवा घरे हो ॥ भवन
 सुन्दरी जयै सुन्दरी । बिहुँ उछव करे ॥९॥ जो मदरा
 नैमांस । तणो टालो करोही ॥ तो तुम हम घर
 वास । बोल मानो खरोही ॥ १० ॥ दोनूई मानी
 बात । बोल निश्चय करीही ॥ जो तुम लोपांकार ।
 साहिव जाज्यो फिरीही ॥११॥ परणावी निज तात ।
 भवन जय सुन्दरीही ॥ भोगवे भोग रसाल । कवल
 सुंधोकरी हो ॥ १२ ॥ हांस विलास । विनोद विविध
 सुख मानताही ॥ मानव भव अवतार । सफल कर
 जाणताही ॥ १३ ॥ एक दिवस आषाड़ । चल्थी
 नृपती मभाहो ॥ तेड़ो आव्यो दुत । सुकन हुवा
 भला हो ॥ १४ ॥ लेई सामग्रहो साथ । नाटक करवा
 भगी हो ॥ प्रमदा पुठे छाक । पीये मदरा तणी हो
 ॥ १५ ॥ नाटक जीप आषाड़ । आयो घर आपणे
 हो ॥ राजानो लई सुपमाय । सहु जै जै भणे
 हो ॥ १६ ॥ दिठो वनितावेस । विकल मद छाकणी
 हो ॥ चिर रहित पडौ जाण । भुम पर डाकणी हो ॥

१७ ॥ मुल स्वभाव नजाय । जतन बहुला करेहो ॥
 प्रवाननी वांकी पुंछ । सरल कहो कुण करेहो ॥ १८ ॥
 मोतन जाय कोड । उषद बहु कीजिय हो ॥ काग-
 नहोवे स्वैत । सावण बहु दीजिय हो ॥ १९ ॥ छाडि
 संजम वेस । इसी नारी वही ॥ पंचमौ ढाल रसाल ।
 विशाल घणी कही ॥ मान सागर आषाड़ । यह
 रहिसे नहीं हो लाल ॥ यह रहिसे नहीं ॥ २० ॥

दोहा । खरी सीख दिधी हुंती । पिण कामण
 लोपीकार ॥ हिवे रहिवो जुगतो नहीं । निश्च नेव
 वहार ॥ १ ॥ विकल रूप नारी पड़ी । छोडी चाल्यो
 जाम ॥ छाक गडमदरा तणी । नारी लाजी ताम ॥ २ ॥
 कंधा क्रोध न कीजिय । अवला भाषे आम ॥ कीडी
 स्युंकटकी कीसी । घेहम आतम राम ॥ ३ ॥ पलो
 भाल उभीरही । जाय सखी भरतार ॥ श्रीलाखीणी
 लाडलो । कव मेलि करतार ॥ ४ ॥ प्राण पहली
 परणी हती । अब किमदिजि छोड ॥ कतवारीरे सुत
 ज्युं । जिहांतुटे तिहां जोड़ ॥ ५ ॥

ढाल झठी ।

प्रीण गडरे नारी पीण गड ।

प्रीत लगी केसरिया कन्त । कहै मृगा नैनी सुण
 गुण वन्त ॥ तोस्युं प्रीत लगी ॥ १ ॥ पीतकी रीत न

जाणे कोय । जे जाणे कुलवन्ती होय ॥ ती० ॥ २ ॥
 एकरसु पीउ घरमे आय । लालन मोरो विरहो मि-
 टाय ॥३॥ तुंमुक्त प्रीतम प्राणाधार । तुम्ह बिन सुनो
 सयल संसार ॥४॥ तुंपिहर तुं सासर जाण । तुं परमे-
 श्वर तुं रहमाण ॥ ५ ॥ बलतो कहै आषाड मुनिश ॥
 मोमन केरी पुगौ जगीश ॥ ६ ॥ म्है निज गुरुकुंदिधी
 पुठ । कह कडावत आयो उठ ॥ ७ ॥ अबहुं लेख्युं
 संजम भार । मैनिज गुरनी लोपीकार ॥ ८ ॥ हुंअप-
 राधी कठीन कठोर । विमुख थयो गुरुजीकी चोर ॥
 ९ ॥ मै किधी चाखि नी हाण । नहीं राखी गुरुजीकी
 काण ॥ १० ॥ गुरुदीवो गुरु प्रतप्तदेव । हिवे हुं
 कर स्युंगुरुजीकी सेव ॥ ११ ॥ कोप तजो नगदीरा
 वीर । कामण सुंकांड तोडो हीर ॥ १२ ॥ कहोजी
 हमने कवणा धार । ये तो मुकोछो निरधार ॥ १३ ॥
 मुनिवर जंपे सुण हे नार । सात दिवस रहिस्युं घर
 वार ॥ १४ ॥ मै लवस्युं तुम्हधननी कोड । पछे नम
 स्युंगुरुवैकर जोड ॥ १५ ॥ छठी ठालि अर्थ सुचंग ।
 मान सागर कही मन रंग ॥ १६ ॥

दुहा । लिड सभाड सह चल्थो । नृप पास ऋष
 राज ॥ नाटक नृत संगीत रस । जुगत दिखाउ
 आज ॥ १ ॥ कुंवर सभाया पांचसे । आरिसा आवा

स ॥ वीणा ताल मृदंग ध्वनी । राग बंध हुयोरास ॥२॥
 लब्ध करी लोकांविचे । आणे नव नवा रूप ॥ देख
 अचम्भो आषाढनो रीभ्यो चितमें भुष ॥ ३ ॥

ढाल सातवीं ।

रे लाला पुन्य पदारथ उलखो ।

रिध करी चक्र वरतनी तिहां भरत थयो ऋष
 आपरे ॥लाला॥ पटषंड आण मनावतो । हिवे मांड्यो
 नव २ व्यापाररे । धन्य धन्य आषाढ मुनिसरु ॥१॥ धन
 आषाड मुनि सरु । हिवे मांड्यो नाटक जाणरे । लाला ॥
 भरत तणे अही नाणस्युं । जाणेपाम्याकेवल ज्ञानरे ॥
 ॥२॥ गज रथ घोडा पायका । वलि अन्त उर परि
 वाररे ॥ लाला ॥ वतीस सहंस नरेसरु । लब्ध करी
 किधातयाररे ॥ ३ ॥ भुषण अंग वणाविया वले
 रूप कूमाररे ॥ भुवन आरिसे में रच्या । तिहां
 नाटक ना धूँकाररे ॥ ४ ॥ न्हावण मंडप नृपति ।
 भुषण करी वेठाटुररे ॥ एक आंगुल रही मुद्रका ।
 तिगा सोभा अधिक सनुररे ॥ ५ ॥ कायादिमे कार
 रमी । पर सोभत देहरे ॥ आभरण करी सोभे ।
 विन भुषण मंदीदेहरे ॥ ६ ॥ अस्त्रि रुधर मांसथु
 करमी । भमलेपत बहुला आसरे ॥ अंतरगत
 आलोषता । मलमुत ना बहु ठामरे ॥ ७ ॥ भरत

तणी पर भावना । -भावंतालह्यो केवल नाणरे ॥
कुंवर तीकी प्रति बुभिया । केवल थयातीण अब
सानरे ॥ ८ ॥ आइ सांसण देवता । अनुक्रमे चारित्र
पालरे साधुमुगत पहुंता जाणने ॥ जेहनी लोक
वधे सूभ वाणरे ॥ ९ ॥ इणपर भावना भाविय
जिम भाई अषाड़ मुन्दरे ॥ ते मुगत तणा सुख
पावसी । गुंण गावे सुर नर वन्दरे ॥ १० ॥ सतर
से तीसिसमे । श्रीनगर भेरुंदा जाणरे ॥ सातमी ढाल
सुहामणी । कवि मान सागर सुभवाणरे ॥ ११ ॥

अथः सामायकरा बतीसदोष ।

१० दश दोष मनसुं लागे ते कहै छै ।

- १ विवेक राखीने सामायक करणी कही छै
- २ जगतमें जश किर्तीअर्थेनहीकरणीकरेतोदोषलागे
- ३ इण लोकरी वन्छा घालीने सामयक न करणी
- ४ सामायकमें गर्व अहंकार नहीं करणी
- ५ सामायकमें वैठा मनमें भय न ल्यावणी
- ६ सामायकमें वैठा संसारीकामकोसंकल्पनहीकरणी
- ७ फल प्रते संदेह नहीं करणी (मै सामायक करुंछुं
फल कदहोसी

८ सामायकमेंवैठाकोदूखोटावचनकहैतोरौसनकरणी
९ विनय सहित सायायक करणी कहीकै

१० भक्ती रहित सामायक न करणी करे तो दोष लागे

१० दश दोष वचन सुं लागे ते कहै छै

१ सामायकमें कठोर कुवचन बोलिगो नहीं

२ सामायकमेंवैठावचनविचारीनेनिर्वद्यभाषाबोलणी

३ सामायकमें वैठा रागकरीसरागगीतगावागोनहीं

४ सामायकमें वैठा विना बतलायां बोलिगो नहीं

५ सामायकमें बोलिगो पडैतो घोडो निरदोष बोलिगो

६ सामायकमें वैठा कलहकारी कथा करणी नहीं

७ सामायकमें वैठा हांसी कितोल ख्याल न करणी

८ सामायकमें वैठा उचा साद नहीं बोलिगो

९ सामायकमें उपयोग सहित भणगो गुणगो करणी

१० सामायकमें विकथा करणी नहीं धर्म कथा करणी

१२ बारे दोष काया सुं लागे ते कहै छै

१ दोनूं पग उंचा करने सामायकमें नहीं वैठगो

२ एक पग उंचोकरिने सामायकमें नहीं वैठगो

३ सामायकमें वैठा च्यारु दिशातमासोजीवगोनहीं

४ सामायकमें सावद्य काम करणी नहीं

५ सामायकमेंवैठाउसीमारीभींतप्रमुखगोमारीनलिगो

- ६ सामायकमें अंग उपयंग गोपवी नै राखणा
- ७ सामायकमें बैठा आलस मोडणो नहीं
- ८ सामायकमें बैठा आंगुल्यांमें कडकानहीं०)काठणा
- ९ सामायकमें शरीरको मयल उतारणी नहीं
- १० सामायकमें धरती विना देख्यांपुंज्यां हाथ पग नही धरणो
- ११ सामायकमें हात पग चंपावणा नहीं दुजापासे
- १२ सामायकमें बैठानिद्रालेणी नहीं विकया करणीं नहीं
- ए सामायक ना बतीस दोष कछाते टालीने सामायक करे

इति सामायक रा बतीस दोष समाप्त ।

अथः श्री अरिहन्त भगवानकी चौतीस

अतिसय

- १ केस मांस रोम नख वधे नही सोभनीक रहै
- २ निरोग शरीर हुवे लेप लागे नहीं
- ३ लोही मांस गायना दुध सर्षपा उजला हुवे
- ४ प्र्वासोप्र्वासमेकमलनीसुवासनासरीखीसुवासनाहुवे
- ५ आहारनिहारकरताचरमचक्षु नोधणीदेखसकेनहीं
- ६ आकाश मारगमें चक्रचाले
- ७ आकाश मारगमें छत्र चाले
- ८ आकाश मार्गे प्र्वेत चमरांको जोडी चाले
- ९ आकाशमार्गेपादपिठसहितफटिकसिंहासणचाले
- १० आकाश मार्गे इन्द्र ध्वजा चाले

- ११ आशोक वृक्ष फल फूल सहित छायां करे
- १२ पीठ पाकै भगवन्तने भामंडल दे दिपमान दिपे
- १३ एक जोजनतांड्र भुंमी भाग सुंवीं रमणीक हुवे
- १४ मारगमें कांटा सुंवां पड्या हुवेते उंधापडे
- १५ कूडं ऋतु सुखकारी होवे विचरे जठे
- १६ एक जोजनमें सुगंध पवन करी धरती पुँजीजाय
- १७ एकजोजनतांड्रपंचवर्णाफूलांकाठीकठौं चाअचितहोवे
- १८ एक जोजन तांड्र सुगंध पाणीनों क्खिडकाव होवे
- १९ (अमनोज्ञ) अणगमताशब्दरूपरसगंधस्पर्शउपशमें
- २० (मनोज्ञ) गमता शब्द रूप रसगंधस्पर्शप्रगटहुवे
- २१ एक जोजन तांड्र भगवन्त नीवाणी विस्तरे
- २२ अर्ध मामधी भाषाकरीने व्याख्यान करे
- २३ आर्यअनार्यदोपदचौपदआपअपणीभाषामेंसर्वसमजे
- २४ भगवंत ना समोसरणमेंआपसमेंवैरभावउपजेनहीं
- २५ वादी वाद करगने आवे तेहातजोडीनेविनयकरे
- २६ जो कदा वादी विनयनहींकरेतोतेमाहाकष्टमेंपडे
- २७ पचीस जोजन तांड्र टीडीनो उपद्रव नहीं होय
- २८ पचीस जोजन तांड्र खचक्रते देशाधिपति सैन्यांनो
भय न हुवे
- २९ पचीस जोजन तांड्र परचक्र तेपराया राजानीसैन्यां
नो भय नहीं हुवे

- ३० पचीस जोजन तांडू मरी मिरघी रोग न उपजे
- ३१ पचीस जोजन तांडू अतिघणो मेह नहीं होवे
- ३२ पचीस जोजन तांडू वर्षा नो अभाव न होय
- ३३ पचीस जोजन तांडू दुकाल न पडे भगवन्त बिचरे
जठासुं
- ३४ पचीस जोजनतांडू आगलोरोग उपशमेनवो उपजे नहीं
इति श्रीअरिहन्त भगवानकी चौतीस अतिसय समाप्त ।

श्रीसिद्ध भगवानकी पैंतीस वाणी ।

- १ संस्कार सहित वचन मुख स्युं उचारण करे
- २ उंचा शब्द स्युं प्रगट अक्षरचरवड़ासुधवचनवोले
- ३ ग्रामीण वचन बोले पांडूर वचन बोले मुखस्युं
- ४ गंभीर उंडाश्वरसुं उंचाशब्दस्युं बोले
- ५ बोलतां थकां वाणीमे परछन्दा उठे
- ६ सरस कहतां रस सहित वचन मुख थी बोले
- ७ राग स्नेह रहित वचन बोले मुख थकी
- ८ सुत्र पाठ थोडो अनै तेहनो विस्तार घणो करे
- ९ पुर्व पर वचन विरुध मुख थकी नहीं बोले
- १० जुदा भिन भिन अर्थ संदेह टालीनै वचन कहै
- ११ व्याख्यान सांभलण हाराने सन्देह उपजे नहीं
- १२ अनेरा बादीने वचन दीपण देइने पराभवे

- १३ सांभलणहारानोमनहरेअनेरेठीकाणेचितजावेनहीं
- १४ देशकाल देखीने वचन बोले जोग्यतापणे
- १५ अर्थ करीने अति घणो विस्तार करते मिलतो करे
- १६ जीवादिक वस्तुनो विचार कहै ते मिलतो कहै
- १७ पद कहै ते आगले पदनी संपेजाय कहै
- १८ वारता रूपवचनकहैतेहधीवालकपिणसमभेतिमकहै
- १९ अति सरस मधुर भाषा बोले घणी स्वरूप
- २० उपदेस कहतां थका कोडनी मर्म वचन नहीं बोले
- २१ धर्म रूप उपदेस देतां थकां धर्म कथाही कहै
- २२ वस्तुनो प्रकाश करे तेहनो विस्तार करीने कहै
- २३ पारकी निन्दा आपणी स्तुति वचन मांहे बोले नहीं
- २४ मध्यस्थ वचन बोले श्लाघा लहै
- २५ शब्द कावक लिंगयी असुध न कहै वचन
- २६ तेहना वचन सांभलण हार चमत्कार पामें चितमें
- २७ व्याख्यान अति घणो उंतावली नहीं वांचे
- २८ भगवन्त ना मुखनी वाणी रीगादिक दोषस रहित
कै सुणने वालाने
- २९ भर्म विनाकी भाषा भाषण करे
- ३० जे पदार्थ वर्णवे तेहिज विज्ञेय सरूपयी संक्रमे
- ३१ वचन बोलेते वाचनारनी अपेजाय वचन बोले
- ३२ अर्थ पदार्थ जुदा भाषण करे

३३ सत्य साहासीक वचन सदा कहै धर्म कहैता
सरम न पामें

३४ उछाह करीं सहित वचन बोले मुखथकी

३५ जीवादिक बस्त प्रकाश करता वचन बोले

इति श्रीसिद्धभगवानकी पेंतीस वाणी समाप्त ।

अथः पांच मण्डलाका दोष ।

संजोग मेलि तो दोष लागे ॥१॥ प्रमाणस्युं इधकी
लेवे तो दोष लागे ॥ २ ॥ सरस आहार सराय सराय
लेवे तो दोष लागे ॥ ३ ॥ निरस आहार विसराय
विसराय लेवे तो दोष लागे ॥ ४ ॥ छव कारण विना
आहार करे तो दोष लागे ॥५॥

छवकारण आहार करणोते कहै छै ।

पुदा वैदनी खमणी नहीं आवे तो आहार क-
रणो ॥ १ ॥ व्यावचरे वास्ते आहार करणो ॥२॥ इर्या
पालवारे वास्ते आहार करणो ॥ ३ ॥ संजम पाल-
वारे वास्ते आहार करणो ॥४॥ प्राण घणादिन राख-
वारे वास्ते आहार करणो ॥ ५ ॥ धर्म जागरणारे
वास्ते आहार करणो ॥ ६ ॥

छवकारण आहार नहीं करणो

रोग उपजतो जाण आहार नहीं करे ॥ १ ॥
उपसर्ग उपजि तो आहार नहीं करणो ॥ २ ॥ दया
पलती नहीं दिसे तो आहार नहीं करणो ॥ ३ ॥
ब्रह्मचर्य पलतो न दिसे तो आहार नहीं करे ॥ ४ ॥
तपवास्ते आहार नहीं करणो ॥ ५ ॥ संघारे वास्ते
आहार नहीं करे ॥ ६ ॥

अथः दशाविधि यति धर्म

स्वन्ती १ मुत्ती २ अजवे ३ मद्रवे ४ लाघवे ५

जमारो निरलोभता सम्लताइ मदनकरे भट्टीकहलका
करवी पणोराखे

सच्चेदसंजमे ७ तवे ८ चेइय ९ ब्रह्मचर्यवासे १०

सत्यवचन सतरेभेदे वारिभेदे ज्ञानवन्त सीलपाले
मंजमपाले तपकरे

अथः सतरे भेद संजम ।

पृथ्वी काय मंजम ॥ १ ॥ अग्नि काय मंजम ॥ २ ॥
तेज काय मंजम ॥ ३ ॥ वायु काय मंजम ॥ ४ ॥ वन-

स्पृत्तिकाय संजम ॥ ५ ॥ वेङ्गुन्द्नी संजम ॥६॥ तेङ्गुन्द्नी
संजम ॥७॥ चोङ्गुन्द्नी संजम ॥८॥ पंचेङ्गुन्द्नी संजम ॥ ९ ॥
अजीवकाय संजम (वस्त्र पातरा लेवे पलेवे मेलि
जयणा स्युं (१० पेहा संजम (बहुमोला वस्त्र नहौं
राखे कल्पते सवाय (११ उपेहा संजम (कालोकाल
पलेहणाकरे (१२ अबहट संजम (आज्ञा माहेला
कारजमें जोग वरतावे (१३ अपमेगण संजम (जयणा
स्युं पुंजे परठे लघुनित वडीनित (१४ मनसंजम १५
वचन संजम ॥ १६ ॥ काया संजम ॥ १७ ॥

अथः बयालीस दोष ।

१६ सोले दोष उदगमणका आवकरे जोगसुं लागे ।

आधाकर्मीं भोगवेती दोषलागे ॥१॥ उदेशी भोग-
वेती दोष० ॥ २ ॥ पुतीकर्म ॥ ३ ॥ थापीतो ॥ ४ ॥
मिश्र ॥ ५ ॥ पाहुणो आगो पाछो ॥ ६ ॥ अनाराथी
उजालोकरे ॥ ७ ॥ मोलको लेवीनेदेवे ॥ ८ ॥ उदारो
लेवीनेदेवे ॥ ९ ॥ सदलो वदलो करे ॥ १० ॥ रहांमा
आण्यो भोगवे ॥११॥ छांदो कौवाड खोलीनेदेवे ॥१२॥
उंची अवखी जायगा स्युं उतारीनेदेवे ॥ १३ ॥ नि-
मले पासे खोसीनेदेवे ॥ १४ ॥ सीरकी वस्तु विना
पुक्रांदेवे ॥ १५ ॥ आधणमें अधिकी उरे ॥ १६ ॥

१६ सोले दोष उतपातका साधु श्रावक

दीनाके जोगसुं लागे ।

धायनी पर लेवे ॥ १ ॥ दुतनी परे लेवे ॥ २ ॥
 निमत भाषीनेलेवे ॥३॥ जातजणाडनेलेवे ॥४॥ गरीवी
 गाडनेलेवे ॥ ५ ॥ वैदगरी करीने लेवे ॥ ६ ॥ क्रोध
 करीने ॥ ७ ॥ मानकरीने ॥ ८ ॥ मायाकरीने ॥ ९ ॥
 लोभकरीने ॥१०॥ पहली पकै दातारका गुणकरीने ११॥
 विद्याकामण करीने ॥१२॥ संत वैदगरो करीने ॥१३॥
 गोली चुरण करीने ॥१४॥ सोभाग्य दो भाग्य करीने ॥१५॥
 गर्भपडाडने लेवे तो दोष लागे ॥ १६ ॥

१० दश दोष येषणाका साधुके जोगसुंलागे

संका सहित लेवे तो दोष लागे ॥ १ ॥ मिचत
 हात खरड्यो हुवे ॥ २ ॥ सचित उपर मेल्यो लेवे तो
 दोष लागे ॥ ३ ॥ सचितकरी ठाक्यो हुयो लेवे ॥४॥
 सचितके मंगटे आय्यो लेवे ॥ ५ ॥ आंधै पांगले खने
 स्युं लेवे ॥ ६ ॥ सचित अचित भेलो लेवे ॥ ७ ॥ शस्त्र
 पुरी नहीं परगस्यो हुयो लेवे ॥ ८ ॥ नाखतो द्रव्य
 आय्यो लेवे ॥ ९ ॥ पांगणो ततकाल नो नीण्यो हावे
 तो लेवे तो दोष लागे ॥ १० ॥

इति ब्यासीस दोष समाप्त ।

अथः बावन अणाचार ।

- १ उदेशीक आहार (साधुरे अर्थे रांधीने आपे ते लेवे तो अणाचार लागे
- ३ नित पिंड एकघरसुं आहार लेवे तो अणाचार लागे ।
- ४ स्हांमा आण्योडो आहारादिक लेवे तो अणाचार लागे
- ५ रात्री समयमें आहार पाणी लेवे भोगवे तो अणाचार लागे
- ६ स्नान प्रमुख करे तो अणाचार लागे
- ७ सुगंध तेल फूलेल भोगवे तो अणाचार लागे
- ८ माला फूलादिक नी भोगवे तो अणाचार लागे
- ९ वींभगणा करीने वायरो लेवे तो अणाचार लागे
- १० आहार पाणीदिक रात्रे वासी राखे तो अणाचार लागे
- ११ गृहस्थीरा भाजन ठांवेमें जीमे तो अणाचार लागे
- १२ राजपिंड राजा छत्रधारिके घरको आहार लेवे तो अणाचार लागे

- १३ सदावरत (दानसालाका आहार) लेवे तो अणा चार लागे
- १४ तैलादिकनो मर्दन करे तो अणाचार लागे
- १५ काष्ठ प्रमुखस्युं दांतण करे तो अणाचार लागे
- १६ गृहस्थने सुख दुःख नीवार्ता पुकैतोअणाचारलागे
- १७ दर्पण (काच) मे मुख देखे तो अणाचार लागे
- १८ जुवो खेलै तो अणाचार लागे
- १९ सोरी पाशा चौपड़ खेलै तो अणाचार लागे
- २० माथे उपर कपड़ो विना कारण ओढ़े तो तथा माथे छत्र धरावे तो अणाचार लागे
- २१ वैदगी करे तो अणाचार लागे
- २२ पगामें पगरखी पहरे तो अणाचार लागे
- २३ अग्निने आरम्भ समारम्भ करे तो अणाचार लागे
- २४ सभ्यातर (साधुने रहनेवास्ते धानक देवे) तेहने घरको आहार भोगवे तो अणाचार लागे
- २५ माचा पिलंग ठोलिया उपर बैठे सुवे तो अणा चार लागे
- २६ शरीर रोग प्रमुख थी वीमार घड़ ह्वावे १ तथा तपशी ह्वावे २ तथा शरीर माहे असगती ह्वावे ३ ए तीन कारण विना गृहस्थोरे चरे बैठे तो अणा चार लागे

- २७ शरीरे पीठी चालवे तो अणाचार लागे
- २८ गृहस्थरी व्यावच करे तथा गृहस्थस्युं करावे तो अणाचार लागे
- २९ पोतेकी जातीकी ओलखणा करी पेट भराडू करे तो अणाचार लागे
- ३० मिश्र हुवो पाणी (जे बासण विषे पाणी उका लवा मुक्यो छे ते बासण ना निचा भागने विषे तथा विचला भागने विषे अनै उपरला भागने विषे ए तीनू जागे अग्नि लागी नथी तीनू जागे पाणी उनोथयो नथो द्रसो मिश्र पाणी लेवे तो अणाचार लागे
- ३१ रोगे पिड्यो थको गृहस्थ नी व्यावचने संभारीने सर्णोग्रह तो अणाचार लागे
- ३२ मुलो प्रमुख खावे तो अणाचार लागे
- ३३ आदो प्रमुख खावे तो अणाचार लागे
- ३४ सेलडी ना कटका काचा भोगवे ती अणाचारलागे
- ३५ कांद भोगवे तो अणाचार लागे
- ३६ मुल भोगवे तो अणाचार लागे
- ३७ फल भोगवे तो अणाचार लागे
- ३८ बीज भोगवे तो अणाचार लागे
- ३९ संचल लुण भोगवे तो अणाचार लागे

- ४० सिन्धो लुण भोगवे तो अणाचार लागे
४१ रोम लुण भोगवे तो अणाचार लागे
४२ समुद्रकी लुण भोगवे तो अणाचार लागे
४३ खारी लुण भोगवे तो अणाचार लागे
४४ सिन्ध देशनी पर्वत थी निपज्यो काली लुण भोगवे तो अणाचार लागे
४५ धूप खेवे तो अणाचार लागे
४६ जागाकर वमण करे तो अणाचार लागे
४७ गुंज जगां धोवे तो अणाचार लागे
४८ जुलाव भाड़ भोगवे तो अणाचार लागे
४९ दांतण करे दांत रंगावे तो अणाचार लागे
५० आंखां काजल आंजे तो अणाचार लागे
५१ तेल मालिस करे तो अणाचार लागे
५२ शरीर नी सुश्रुषा करे तो अणाचार लागे

इति यावन अणाचार समाप्त ।

अथः बहु सुतीने सोले ओपमा ।

संग्वकी ओपमा ॥ १ ॥ अश्वकी ओपमा ॥ २ ॥
मुभटनी ओ० ॥ ३ ॥ हाथीनी ओ० ॥ ४ ॥ हृषभनी
ओ० ॥ ५ ॥ मिंङ्गनी ओ० ॥ ६ ॥ वसुदेवरी ओ० ॥ ७ ॥
चक्रवरतनी ओ० ॥ ८ ॥ सफेन्द्रनी ओ० ॥ ९ ॥ चंद्र-

मान्नीओ०॥१०॥सुर्यनीओ०॥११॥कोठारीनीओ०॥१२॥
जंबु सुदर्शणनीओ०॥१३॥सीता नदीनीओ०॥१४॥मेरु
गौरी नीओ०॥१५॥स्वयंभुरमण समुद्रनीओपमा॥१६॥

अथः अष्ट संपदा

आचार संपदा ॥ १ ॥ शरीर संपदा ॥ २ ॥ सुव
संपदा ॥ ३ ॥ वचन संपदा ॥ ४ ॥ विनय संपदा ॥५॥
मतसंपदा ॥६॥ उपयोग संपदा ॥७॥ सुगुरु संपदा॥८॥

चवदे स्थानक समुच्छिम मनुष्य उपजे ।

बडोनित (दिसां जावेजठे) ॥ १ ॥ लघुनित
(पेशावमें) ॥ २ ॥ लोहीमें ॥ ३ ॥ राधमें ॥ ४ ॥
विर्यमें ॥ ५ ॥ खेल खंखारमें ॥ ६ ॥ श्लेष (नाकरा
मैलमें ॥ ७ ॥ वमनमें ॥ ८ ॥ पीत पडे तेहमें ॥ ९ ॥
विर्यरा पुद्गल आला हुवे तेहमें ॥१०॥ स्त्री पुरुषरा
संजोगमें ॥ ११ ॥ मुवाजीवरा क्लेवरमें ॥ १२ ॥ अ-
सुचमें ॥ १३ ॥ कादेमें ॥ १५ ॥

स्वामी भिषणजी कृत ।

अथः एकलरो चौढालियो ।

दोहा । आरंभ जीव गृहस्थी फिरे त्वारी नेश्राय ॥
 अन्य तीरथी पासधादिक । तेपिण तेहका घाय ॥१॥
 वैरागे घर छोड़ने । रात्रि विषय रसरंग ॥ रागद्वेष
 व्याकुलथका । करे व्रतनो भंग ॥ २ ॥ ते रति पामे
 पाप कर्ममे । सावद्य सरणी मान गण छोडि हुवे
 एकला । कुड कपटगी खान ॥ ३ ॥ न्यास लजावे
 पाकली । वले भेष लजावणहार ॥ एहवा मानव ए-
 कल फिरे । धीग त्यांगे जमवार ॥४॥ ते घणा भेलो
 रहै सके नहीं । ते एकलड़ा घाय ॥ कुण २ दोष
 तिगामे कछ्या । ते सुगज्यो चितलाय ॥ ५ ॥

ढाल १ ली ।

कर्म जोगे गुरमाठा मिलीया ॥ एदेगी ॥

केड थाप छांटे फिरे एकला । ते जिन मारगमे
 नहीं भला ॥ साध थावक धर्म घकी टलिया । संसार
 समुद्र मांहे कलिया ॥ १ ॥ एकलो देख लोक पुका

करे । तोषणो क्रोध करीने तिणस्युं लड़े ॥ बले
वांदे नहो जव मान बहे । करडा वचन तिणनेरे
कहे ॥ २ ॥ कपटाइ घणीकै एकलतणी । सुवमै
भाष्यो तीभवन धणी ॥ बले लोभ घणोकै बहुल पणे ॥
श्रीबीर कछोकै एकल तणे ॥ ३ ॥ बहु आरंभने विधि
रक्त घणो । संचोकरे वज्र पाप तणे ॥ नटवि अर्थ
भोगतणो । बहु भेषधर माहा ग्रधपणो ॥ ४ ॥ घणा
प्रकारे करे धुरतपणो । संके नहीं करतो कर्मरिणो ॥
अध्यवसाय मनरो अतहीघणो । माठो वर्तेकै एकल
तणो ॥ ५ ॥ बहु कोहे माणे साया लोभ पणो । रते
नरे सढे संकए घणो ॥ ए आठ ओगण घटमे वरती ।
हिंसादिक आश्रवनो अरथी ॥ ६ ॥ बले साधुनो लिंग
लिया बहे । कर्म ए बांध्यो डूम कहे ॥ हुं कुंधुर चार
तियो आचारी । सतरे भेदे संजम धारी ॥ ७ ॥ रखे
कोई देखे अकारज करतो । आज्जीवका अर्थी रहै
छरतो ॥ अज्ञान प्रमाद स्युं दोष भयो । निरंतर
मुठ मोह कुप पयो ॥ ८ ॥ जिनधर्म न जाणे आप
छांदे रह्यो । त्यांने कर्म बांधणने पंडित कछो ॥ पाप
कर्म स्युं अलगा रहै नहीं । त्यांने संसारमे भमण
कही ॥ ९ ॥ आचारंग पांचमे अध्येन भाष्यो । पहले
उदेमे जिनदाष्यो ॥ ए चिरत कछा कै एकल

तणा । इण अणुसारे अत ही घणा ॥ १० ॥ एहवा
 अपछंदा अवनितो । त्यां छेडि जिणधर्म तणी रीतो ॥
 निरलज भागल विपरीत । किम आवे त्यांरी प्र-
 तित ॥ ११ ॥ उसन्नांदिक पांचुंरेभणी । सुवमे वर-
 ज्याकै विभवनधणी ॥ ए तो मोषमारग राकै फंदा ।
 एहवाकै जैनतणा जिन्दा ॥ १२ ॥ त्यां छेडि लोकीक
 तणी लजिया । संका नहीं आणे करता कजिया
 दोषण काड्यां तो तपता रहै । आया परिसा ते केम
 सहै ॥ १३ ॥

दोहा । ठाणा अंग मांह कछो । एकलरो विव-
 हार ॥ आठ गुणा कर सहितकै ते मुण ज्यो विस्तार
 सरधामें सेंठोघणो नसके देव डिगाय । सत्यवादी
 प्रगन्या सूरकै । वले वले नहीं अन्याय ॥ २ ॥ सुव
 ग्रहवा सक्त घणी । मर्यादावन्त वखाण ॥ बहु मुरती
 नवमा पूर्वतणी । तीजी आचार वत्युनो जाण ॥ ३ ॥
 पांचमें पांचु समर्थी । शरीर तप एकल पणो जाण ।
 सवे करी सेंठो घणो । समर्थ शरीर वखाण ॥ ४ ॥
 कलहकारी छठे नहीं । सातमें धिरज ताह ॥ अनु-
 कुल प्रतिकुल उपशर्ग सहै । आठमें विर्य उक्काह ॥ ५ ॥
 ए आठगुणा सहितकै । तीकरणो उग्र विहार ॥ ते
 पिका गुरु आत्ता दियां । फिरे एकल मल अणुगार ॥ ६ ॥

ढाल ३ जी ।

ध्रिग २ मोह विटम्बणा एदेशी ।

ताव चढे कदे आकरो । वाचारुके बोल्थो न
 विजायोरे ॥ त्रिषा अतुलवाय भङ्कियो । उगरेकुण
 सखाड यायोरे ॥ ध्रिग २ अव्यक्त एकलो ॥१॥ कदा
 कर्म जोगे कुतडो डसे । तो ठले मातर कुणजायोरे ॥
 डामरु जानवालादिक हुवां । उगरेकुण आहारपाणी
 ल्यायोरे ॥ ध्रि० ॥ २ ॥ जब कीड कायर सिधांवता ।
 आप छंदे करे मन जाख्योरे ॥ भुष त्रिषारा पीडिया ।
 खावे गृहस्थीरो आण्योरे ॥ ध्रि० ॥ ३ ॥ केड आत
 ध्यान मांहे मरे । नकं तिर्यंचमे जायोरे । उतकृष्टो
 अनन्ता भवभमे । चिहुं गतगोताखायोरे ॥ ध्रि० ॥४॥
 स्त्री आय बकारियां । लाग ज्यावे तिण चालेरे ।
 विटल हुआ ने होसीघणा । किणरीलज्या सील पा
 लेरे ॥ ध्रि० ॥ ५ ॥ विषै अत्यंत पिड्यांधका । वैश्या
 टिकने घरे जायोरे ॥ माठी भावना भाविया । कुण
 आणे तिणने ठायोरे ॥ ध्रि० ॥ ६ ॥ अकार्य करती
 संके नहीं । थोडा सुखारे काजेरे ॥ वात चावी
 हुवां लोकमें । कने वैसण वाला पिणालाजेरे ॥ ध्रि० ॥७॥
 डमजाणी नर नारिया । एकल दुर तजीजेरे ॥ घर
 हाण हांसी हुवे लोकमें । डसडो काम न किजेरे ॥

आपण पो मोटो मानतोरे । प्रवल मोह मांहे मुर्भा
 यरे ॥ कार्य अकार्य सुध मुक्ते नहीरे । विवेक विकल
 ते एकल थायरे ॥ अ० ॥ ६ ॥ गामाणुं गामविचरता
 तेहनेरे । घणी अवाधाउपजे आयरे ॥ अवाधा एकलने
 षमणीदोहेलीरे । षमवारी जाणे नहीं उपायरे ॥ अ०
 ॥७॥ वीर कंझो म्हारा उपदेसथीरे । तोने शिष्य एकल
 पणो म हायरे ॥ आतो अज्ञा तिर्थंकर देवनीरे । गमण
 मत छोडो सुत्र जोयरे ॥ अ० ॥ ८ ॥ आचारंग पांच
 मांध्ये नमेरे चाथे उदेसे एहवा भावरे ॥ उपसर्ग थी
 अवाधा उपजे तेहनेरे । विवरो कहुंछुं तिगरिन्या
 यरे ॥ अ० ॥ ९ ॥

दोहा । प्र्वाण खांस ताव तेजरो । रोगउपजे
 अनेक विध आय ॥ वले गरटा पणो आयांयकां ।
 विवध पणे दुःख थाय ॥ १ ॥ वले प्रणाम चलविचल
 हुवे । किणरी हटक न थाय ॥ ज्यां एकल पणो आ
 दग्यो । त्याने परभवचिन्त नकाय ॥ २ ॥ जो साधारी
 संगत रहै । तो वधेघणो वैराग ॥ आप क्रांदि एकल
 फिरे । जाय संजम थी भाग ॥ ३ ॥ भागणरा उपाय
 कै अतिघणा । तैपुरा कन्या न जाय ॥ पिण कहुं थी
 डिसी वानगी । ते मुण ज्यो जित लाय ॥ ४ ॥

ढाल ३ जी ।

ध्रिग २ मोह विटम्बणा एदेशी ।

ताव चढे कदे आकरो । वाचारुके बोल्यो न
विजायोरे ॥ त्रिषा अतुलवाय भङ्कियो । उगरेकुण
सखाइ यायोरे ॥ ध्रिग २ अव्यक्त एकलो ॥१॥ कदा
कर्म जोगे कुतडो डसे । तो ठले मातर कुणजायोरे ॥
डामरु जानवालादिक हुवां । उगरेकुण आहारपाणी
ल्यायोरे ॥ ध्रि० ॥ २ ॥ जब कीड कायर सिधांवता ।
आप छांदे करे मन जाख्योरे ॥ भुष त्रिषारा पीडिया ।
खावे गृहस्थीरो आण्योरे ॥ ध्रि० ॥ ३ ॥ कीड आतं
ध्यान मांहे मरे । नर्क तिर्यंचमे जायोरे । उतकृष्टो
अनस्ता भवभमे । चिहुं गतगोताखायोरे ॥ ध्रि० ॥४॥
स्त्री आय वकारियां । लाग ज्यावे तिण चालेरे ।
बिटल हुआ ने होसीघणा । किणरीलज्या सील पा
लेरे ॥ ध्रि० ॥ ५ ॥ विषै अत्यंत पिड्यांथका । वेष्ट्या
दिकने घरे जायोरे ॥ माठी भावना भाविया । कुण
आगे तिणने ठायोरे ॥ ध्रि० ॥ ६ ॥ अकार्य करतो
संके नहीं । थोडा मुखारे काजेरे ॥ वात चावी
हुवां लोकमें । कने वैसण वाला पिणलाजेरे ॥ ध्रि० ॥७॥
द्रमजाणी नर नारिया । एकल दुर तजीजेरे ॥ घर
हाण हांसी हुवे लोकमें । इसडो काम न किजेरे ॥

ध्रि० ॥ ८ ॥ क्यां स्युं प्रकत पाछि मिलि नही । क्यां
 स्युं न मिलि सभावोरे ॥ दुःख वांधो हुवे एकला ।
 केड करे घणा अन्यायोरे ॥ ध्रि० ॥ ९ ॥ क्यां स्युं पोते
 आचार पले नहीं । बले कुड कपटगे चालोरे ॥
 ते गणकोडि हुवे एकला । ओगं सिरटे आलोरे ॥
 ॥ ध्रि० ॥ १० ॥ क्यां स्युं पोते आचार पले नहीं ।
 पिण समकितराखे चाखोरे ॥ गण कोडि हुवे ए-
 कला । नहीं काटे ओगंमे दोषोरे ॥ ध्रि० ॥ ११ ॥ पके
 मोह कर्मउदै हुवां । कुड कपट चलावेरे । फिरती
 भाषा बोले घणी । अगहुंता अवगुणावेरे ॥ ध्रि० ॥ १२ ॥
 गामां नगरां विचरतां । लोक पुके हर कोडरे ॥ ये
 साधां मांस्युं निकली । आतमा कांय विगोडरे ॥
 ध्रि० ॥ १३ ॥ जब केडक बोले पाधरा । केड बोले
 आल पंपालोरे ॥ केड क्रोध करी महा प्रजले ।
 केड मुंह करे विकरालोरे ॥ ध्रि० ॥ १४ ॥ केड दो-
 पण टाके आपरा । ओगंमिं बतावे चुकोरे ॥ पुकरां
 न बोले पाधरा । पुजाश्रधारा भुखोरे ॥ ध्रि० ॥ १५ ॥
 केडक लाला लोलो करे । आहारादिकरा लपटीरे ॥
 पुरे निकाल काटे नहीं । असा के एकल कपटीरे ॥
 ॥ ध्रि० ॥ १६ ॥ आय साधाने वनगा करे । महा
 साठा परिणामोरे ॥ विनो नर्माड करे घणी । एक

पेट भरगरे कामोरे ॥ ध्रु० ॥ १७ ॥ समभु नरनार
 बान्दे नहीं । आज्ञा लोप एकलो देखोरे ॥ आहार
 प्राणी न दे भावस्युं । तो हुवे साधारो द्वेषीरे ॥ ध्रु० ॥
 तेकल छिद्र जीवतो रहै । दुष्ट प्रणामादिन काठेरे ॥
 च्यार तिर्थ स्थं तपतो रहै । मोषतणी ब्रत बाठेरे ॥
 ॥ ध्रु० ॥ १८ ॥ दग्ध वीजकरे आकरो । ओरांरे घाले
 संकोरे ॥ भर्ममें नाखे लोकने । ओसोके एकल बं-
 कोरे ॥ ध्रु० ॥ २० ॥ चित भरसो फिरतो रहै । तिण
 साची समकित नावेरे ॥ कदाच ज्यो आइ हुवे ।
 तो थोड़े मांह गमावेरे ॥ ध्रु० ॥ २१ ॥ मांगने खाणो
 पारकी । बले कने साधुकी भेषारे ॥ सरधा राखे
 निर्मली । केडक विरला देखोरे ॥ ध्रु० ॥ २२ ॥ च्यार
 तिर्थने ओर लोकमें । फिट २ सगले कहाणोरे ॥
 जो अवगुण आणे आपमें । साची सरधारा ए अहना
 णोरे ॥ ध्रु० ॥ २३ ॥ बले अवगुण काठे तुरत तेहनो
 तोही कुलष भाव नही आणोरे ॥ अभिन्तर समकित
 परगमी । तेतो मोटा उपगारी जाणोरे ॥ ध्रु० ॥
 ॥ २४ ॥ बोध सम्यक्त पायो ज्यांकने । त्याने दिठां हर्षत
 घायोरे ॥ विनै भगत करे घणी । तो साची सरधा
 दिसे तिणमांयोरे ॥ ध्रु० ॥ २५ ॥ साध साधवि ने
 सरधा तणा । पुठ पाके गुणगावरे ॥ एकण धारा
 बोलतां । प्रतीत इणविध आवेरे ॥ ध्रु० ॥ २६ ॥

दोहा । भला कुलरो विगडो तीका । जीवे वि
 राणा साध ॥ ज्युं साधु विगद्यो आचार घी । किण
 विध आवे हात ॥ १ ॥ आज्ञा लोपी सतगुरुतणीं ।
 तिगने ओपमा कै गलिहार ॥ आप छान्दे एकला
 फिरि । ज्युं ठोर फिरि रुलिहार ॥ २ ॥ विगडा धा
 नरी पाखती । वैठां दुरगंध आय ॥ ज्युं एकल री
 संगत कियां । बुध अकल पत जाय ॥ ३ ॥ जो
 एकल ने आदर दिये । तो बधे घणो सिध्यात ॥
 फूट पड़े जिनधर्म में । तेमुष्यजो विख्यात ॥ ४ ॥

ढाल चौथी ।

(धन्य २ मितारज मुनि एदेजी)

जिण सांसगमे आगन्यांवडो । आतो बांधिरे श्री
 भगवन्तपाल ॥ ए तो सजन अमजन भेला रहे ।
 कांदे चालिरे प्रभुवचन मंभाल ॥ बुधवन्ता एकल सं
 गत न कोजिय ॥ १ ॥ कांदो रुध्यां विण संजमन
 निपजे । उवाध्येनरे चौथा अध्येन मांह ॥ गाथा आ
 ठमी मांह कही । एता जोवोर चौडे सुवरो न्याय ॥
 ॥ वु० ॥ २ ॥ कांदो रुध्यां विण संजम निपजे । तो
 कुण चालिरे परनी आज्ञा मांय ॥ महु आयमते हुवे
 एकला । योगमें भेलार योगमें विखर जाय ॥ वु० ॥ ३ ॥
 जो आपमते हुवे एकला । तो सांसगमेरे पड़ जाय
 पसंडांन ॥ एहवा अपकंडारी करे आपना । ते भेट

न पांथोरे भुलां रह गइ भाल ॥ बु० ॥ ४ ॥ बैराग
 घटे तिणरी पाखतो । कीउणरी संगतरे आवे मुल
 मिथ्यात ॥ की साधां सुं उतर जाय आसता । साची
 श्रध्दारे एकलरी बात ॥ बु० ॥ ५ ॥ भिडकावे सा
 धांगी समदायथी । आपसमें रे बोले विरुवा वैण ॥
 बले छिद्र दावे एक एकने । साध दिठारं बले अंतर
 नयैण ॥ बु० ॥ ६ ॥ नकटादिक चोरकुसिलिया ।
 बधी चावरे आप आपणी न्यात ॥ व्युं भाग
 लने भागल मिले । घणो हरषेरे करे मनोगत बात
 ॥ बु० ॥ ७ ॥ चोरी जारी खुन अकारज क्रियां ।
 राजा पकड़ेरे सिर छेदे षोड़ ॥ बले देशनिकालादे
 काठियां । त्याने राखेरे भील मैणादिक चोर ॥
 ॥ बु० ॥ ८ ॥ ते बिगाड करे तिण देशने । भील
 मैणारे त्याने आणी साथ । दुःख उपजावे रेत गरी
 बने । धन लेज्यावरे त्यांरी कर कर घात ॥ बु० ॥ ९ ॥
 त्याने असणादिक आदर दियां । लफरो लागीरें
 भाग्यां राजारी आण ॥ कदा राय कीपे तो धन खो
 सले । जीवां माररे तिणरा एफल जाण ॥ बु० ॥ १० ॥
 दूगही दिष्टंते साधारे समदायमें । दोष सेव्यारे साध
 काठे गणवार ॥ ते आप छांदे एकला रहै । के भाग
 लरे आगे पाकै फिरे लार ॥ बु० ॥ ११ ॥ तेतो सा
 धांगा आगण बोलता फिरे । मुख सीठीरे खेले अंत

रघात ॥ ओछी बुधवालाने विगोवता । कुडीकथ
 गीरे कुडीकर कर वात ॥ बु० ॥ १२ ॥ त्यांरी भाव
 भगत संगत क्रियां । तिण भांगीरे श्रीजिनवर आण ।
 तेतो दुःख पामे इण संसारमें । उतकृष्टीरे अनन्ता
 जन्म मर्ण जाण ॥ बु० ॥ १३ ॥ चारने आहार
 आदर दियां । अहलाकरे धनजीवरो विणास ॥
 भेषधारी भागल एकल तणी । संगत किधारे बंधे
 कर्म तणीरास ॥ बु० ॥ १४ ॥ उसत्ता कुसिल्याने
 पासत्या । अपहंदारे संसतादिक जाण ॥ त्याने
 तिरथमें गिणवा नहीं । कर लीज्योरे जिन वचन
 प्रमाण ॥ बु० ॥ १५ ॥ एतो हेलवा निन्दवा जोगळे
 खीष्टकरणोरे त्यारि गिनातामें साख ॥ त्यांरो संग
 परचो करणो नहीं । सुवमेंरे भगवन्त गया भाप ॥
 ॥ बु० ॥ १६ ॥ आतो अनन्त संसारे आरे कियो
 अहलाकरे परलोक हुमी भंड ॥ त्यांने आहार पाणो
 उपध दियां । तिणने आवरे चैमासीरो दण्ड ॥
 ॥ बु० ॥ १७ ॥ भेला वैठ सीभाय करणी नहीं ।
 नहीं करणोरे त्यांरे साथ विहार ॥ यांरो संग पर
 चाकरतां यकां । ज्ञानदर्शणारे चारित्रो विगार ॥
 ॥ बु० ॥ १८ ॥ एतो चरित्र कष्टो एकलतणी ।
 भवजीवानेरे प्रतिबोधण काज ॥ इस मुणरने नर ना-
 रिया । मतगुर सेव्यारे पामे मुगतनोराज ॥ बु० ॥ १९ ॥

शुद्धाशुद्ध पत्र ।

पृष्ठांक लाइन

अशुद्ध

शुद्ध

२	१७	तुंही	तुंही
२	२०	दसमो	दशमी
४	१	जिस्तवन	जिनस्तवन
५	१८	ध्यायने	ध्यायने
७	६	जिन	जन
१०	१६	द्वेग	द्वेष
१२	५	बंवीत	बंछित
१२	१८	श्रेणी	श्रेणी
१३	६	तोड़ी	तोड़ी
१५	७	लागोछोजी	लागोछोजी
१६	१६	संगमे	संगम
२७	१४	अश्रः	अथः
३२	१२	अजीवाका	अजीवका
३३	१	लैण पुन्न	लैनपुन्ने
३३	१५	आव	आश्रव
३३	१६	घ्राण	घ्राण
३४	१०	घ्राण	घ्राण

३७	३	अन्तराहित	अंतरहित
४०	६	भांगा १२	भांगा ६
४४	६	धर्मास्तिकाय	धर्मास्तिकाय
५०	२१	जीव	जीव
५५	१४	जीव निर्जरा	जीव संवर निर्जरा
५८	१७	एकको	एकके
७८	२०	उगणीस	तेवीस
८४	७	बंधै	वधे
८५	४	आश्रत	आश्रव
९८	१४	निवद्य	निर्वद्य
१०५	१	द्रव्यता	द्रव्यतो
१०५	१६	रहित	सहित
१०६	१	रहित	सहित
११०	१०	आदरावा	आदरवा
११०	१५	आनरवा	आदरवा
१२३	१०	ओदरिक	ओदारिक
१२८	११	ल्पयोपम	पल्योपम
१३२	६	उत्तकुरुकां	उत्तरकुरुका
१५०	२०	आलाउ	आलोउ
१५१	४	तम्म	तम्स
१५२	१५	अनेक क्रिडा	अनंग क्रिडा

पृष्ठांक	लाइन	अशुद्ध	शुद्ध
१६४	१४	धम्मामंगल'	धम्मोमंगल'
१७३	६	त्यारो	त्यांरो
१७८	१	कीधी	किधी
१८३	१	जान	दान
१८३	६	किधी	किधी
१८४	४	क्रोड़मम	क्रोड़मण
१८५	११	युही	युंही
२०१	२	पुन्या	पुन्य
२०१	४	विविध	विविध
२०२	६	उत्तम	उत्तम
२०३	१७	इन्द्रादिक	इन्द्रादिक
२०६	१०	दृध	दृघ
२०६	२०	होसी धणेरा	होसी घणेरा
२०६	२१	जिमस्यु	जिभस्युं
२०७	२०	प्रमु	प्रभु
२१४	१३	अस्तुति	स्तुति
२२६	७	दववन्ती	दवदन्ती
२३२	१०	पटघटषट	पट षट थट
२३६	१५	सुगत	सुगत
२४१	२१	विचरितां	विचरतां
२५२	८	मुनिसरु	मुनिसरु

पृष्ठांक	नाइन	प्रशुद्ध	शुद्ध
२५३	६	मुनिन्द	मुनिन्द
२५४	५	वोलिणो	वोलिणो
२५४	७	गीतगावाणो	गीत गावणो
२५६	१२	मामधी	माघधी
२७४	१७	पुजा श्रधा	पुजा श्लाघा
२७६	१५	कोजिय	कोजिय
२९७	१	भाल	भोल

पाठकों से सविनय प्रार्थना है की पेज नम्बर २५७ में भुलसे श्री सिद्ध भगवानकी पैंतीस वाणी कृप गड़ है उसे पाठकगण श्री अरिहन्त भगवानकी पैंतीस वाणी पढ़ें और अपनी पुस्तकमें भुल शुद्धा-रली ।

पेज नं २२४ में अथः सरियादा उपर ढाल कृपी हैं उसे मुनिगुण वर्णनकी ढाल पढ़ें ।



सक्तमलजी स्वामीकृत श्रीडाल गणी के गुणाको ढाल

(चलोरी मखी कवि देखनकु रथमें चढे रघुनन्दन आवत है एदेगौ)
 पेखोरी भविजिन राज समी । गणी राज छटा दरसावत है
 ए आकडी ॥ भिक्षू सप्तम पाटे सोहत । मधवा सम गणी
 राज कहावत है ॥ पेखोरी ॥ १ ॥ तात कनइया मात
 जडावें । तसुनन्दण मन भावत है ॥ पेखोरी ॥ २ ॥
 धिर सुमेर गम्भारि स्वयंभु । वचमहावीर सोधरावत है ॥
 पेखोरी ॥ ३ ॥ वाण सुधामृत वाप्रत स्वामी । भवि
 सुण सुण हर्षावत है ॥ ४ ॥ भविजन पेखत गणी तुम,
 आनंद देखत । तनुलोम लोम हुलसावत है ॥ पेखोरी
 ॥ ५ ॥ कल्प तरु सम नाथ हमारो । सेवत वछित
 पावत है ॥ पेखोरी ॥ ६ ॥ उगणीसे पॅसट पट मोत्सवमें ।
 सक्तमल गुण गावत है ॥ पेखोरी भविजिन राज समी
 गणी राज छटा दरसावत है ॥ ७ ॥ इति समाप्त ॥

ॐ सवैया ॐ

रुप अनुप सर्वें जगछादित वाणी सुधासम हैं मनमानी ।
 तेज दिवाकर है जगमोहन साहर्ना वाच सदा सुभध्यानी ॥
 देव तरु सम दीन दयालजी वछित पुरण हैं मुभ ज्ञानी ।
 दीन ऊधारण पांत सु जाहिर डाल गणीन्द बडावरदानी ॥

इति